

जन एक्सप्रेस

लखनऊ
वर्षः 15 | अंकः 270
मूल्यः ₹3.00/-
पेज : 12

@janexpressnews | janexpresslive | janexpresslive | www.janexpresslive.com/epaper

रविवार | 14 जुलाई, 2024

13 सीटों में से आठ पर विपक्षी दलों की जीत

7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे, कांग्रेस 4, टीएमसी 4, भाजपा 2, आप, डीएमके और निर्दलीय ने 1-1 सीटें जीतीं

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली

मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इनमें से कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, भाजपा ने 2, आप, डीएमके और निर्दलीय ने 1-1 सीटें जीत ली हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर एनडीए बनाम इंडी गठबंधन की लड़ाई देखने को मिली, लेकिन इस बार इंडी गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ा और विपक्षी गठबंधन ने 10 सीटों पर कब्जा जमाया। भाजपा को उपचुनाव में सिर्फ दो सीटों पर जीत से संतोष करना पड़ा। बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है।

राज्य	विधानसभा	जीते	हारे	पहले किसके पास थी
मध्य प्रदेश	अमरवाड़ा	भाजपा	कांग्रेस	कांग्रेस
बिहार	रुपौली	निर्दलीय	जेडीयू	जेडीयू
पंजाब	जालंधर पश्चिम	आप	भाजपा	आप
पश्चिम बंगाल	रानाघाट दक्षिण	टीएमसी	भाजपा	भाजपा
	रायगंज	टीएमसी	भाजपा	टीएमसी
	बागदा	टीएमसी	भाजपा	भाजपा
	मानिकतला	टीएमसी	भाजपा	भाजपा
हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	भाजपा	कांग्रेस	निर्दलीय
	देहरा	कांग्रेस	भाजपा	निर्दलीय
	नलगढ़	कांग्रेस	भाजपा	निर्दलीय
उत्तराखंड	बद्रीनाथ	कांग्रेस	भाजपा	कांग्रेस
	मंगलौर	कांग्रेस	बीएसपी	बीएसपी
तमिलनाडु	विक्रवंडी	डीएमके	पीएमके	डीएमके

कांग्रेस उम्मीदवार ने अपनी जीत को बताया न्याय की जीत

अपनी जीत पर कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला ने कहा, बदरीनाथ की जनता का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं... तमाम लोग जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से न्याय की इस लड़ाई में मेरा साथ दिया है, उन्हें इसका श्रेय जाता है। उपचुनाव के नतीजों में इंडी गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ा है। अभी तक के नतीजों में इंडी गठबंधन ने उपचुनाव वाली 13 सीटों में से आठ पर जीत दर्ज कर ली है और दो सीटों पर इंडी गठबंधन के उम्मीदवार आगे हैं। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट और मध्य प्रदेश की अमरगढ़ सीट पर ही भाजपा को जीत मिली है। वहीं बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है।

उत्तराखंड में भाजपा को झटका

उत्तराखंड की बदरीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत बुटोला ने जीत दर्ज की हैं। वहीं मंगलौर सीट पर भी कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन आगे हैं। हालांकि मंगलौर सीट पर कड़ा मुकाबला है और भाजपा उम्मीदवार करतार सिंह भड़ाना भी कांग्रेस उम्मीदवार से ज्यादा पीछे नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि बदरीनाथ सीट पर विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। इन उपचुनाव में राजेंद्र भंडारी भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में थे, लेकिन जनता ने उन्हें इस बार नकार दिया।

तमिलनाडु की विक्रवंडी सीट पर डीएमके की जीत

तमिलनाडु की विक्रवंडी सीट पर हुए उपचुनाव में डीएमके उम्मीदवार अन्नीयूर शिवा आगे चल रहे हैं। डीएमके उम्मीदवार ने निर्णायक बढ़त बनाई हुई है और वह करीब 40 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं। बंगाल की रायगंज सीट से टीएमसी ने जीत हासिल की है। टीएमसी के कृष्णा कल्याणी रायगंज से चुनाव जीत गए हैं।

देहरा सीट से जीतीं कांग्रेस की कमलेश ठाकुर

हिमाचल प्रदेश की देहरा विधानसभा सीट से जीतीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर। जीत के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इसका पूरा श्रेय जनता को दूंगी कि उन्होंने हमारा इतना साथ दिया। मुख्यमंत्री का अपना काम है और देहरा के लोगों के प्रति मेरी अपनी जिम्मेदारी है, दोनों अपनी-अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे।

पंजाब की जालंधर सीट पर आप की एकतरफा जीत

पंजाब की जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट पर आप की जीत हो चुकी है। आप कैंडिडेट मोहिंदर भगत ने 37,325 वोटों से जीत हासिल की हैं। दूसरे नंबर पर भाजपा और तीसरे पर कांग्रेस रही। लोकसभा चुनाव 2024 में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी पहले स्थान पर थी। बीजेपी दूसरे स्थान पर थी और आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर थी। इस उपचुनाव में स्थिति बिल्कुल उलट है। इस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी पहले स्थान पर रही। बीजेपी दूसरे स्थान पर और कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। जीत के बाद मीडिया से बात करते हुए आप कैंडिडेट मोहिंदर भगत ने कहा कि मैं जालंधर वेस्ट की जनता का आभारी हूं। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। मैं अपने वादे पूरे करूंगा। मेरा परिवार जनता की सेवा करता रहा है। मैं भी जनता के बीच रहूंगा। 10 जुलाई को हुई वोटिंग में यहां 54.90 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस सीट की ख़ासियत यह है कि हर बार यहां से नई पार्टी चुनाव जीतती रही है। 2012 में बीजेपी, 2017 में कांग्रेस तो 2022 में आप ने यहां से सीट जीती थी।

हिमाचल में कांग्रेस 2, भाजपा एक सीट जीती

हिमाचल की 3 विधानसभा सीटों के नतीजे आ गए हैं। यहां कांग्रेस को 2 और भाजपा को एक सीट पर जीत मिली है। देहरा विधानसभा सीट से सीएम सुखविंदर सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर 9939 वोटों से चुनाव जीतीं। उन्होंने भाजपा के होशियार सिंह को हराया। सीएम सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर से भाजपा के आशीष शर्मा 1571 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। वहीं नालागढ़ में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के करीबी बावा हरदीप 8990 वोट से जीत गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, देहरा से हम 25 साल से चुनाव नहीं जीत पा रहे थे। पार्टी ने कमलेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाया और चुनाव जीत गए। नालागढ़ में भी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस की 40 सीटें हो गई है। उन्होंने इसे जनता की जीत बताया और कहा, जिस तरह जनता की सरकार गिराने को षड़यंत्र रचा गया, जनता ने उसका जवाब दिया है। यह लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने कहा, भाजपा ने खरीद-फरोख्त की राजनीति की शुरुआत की। 28 फरवरी से जनता को ठगने में लगे थे।

सुक्खू बोले, जनता ने खरीद-फरोख्त का जवाब दिया



देहरा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी और अपनी पत्नी कमलेश ठाकुर की जीत पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा हिमाचल की जनता ने हमें 2022 में 40 सीटें दी थी, हमें फिर से जिताना जनता ने तय किया है। जिस प्रकार की खरीद-फरोक्त हिमाचल में हुई है उसका जवाब जनता ने दिया है... देहरा उपचुनाव में मैंने अपनी सरकार की साख दांव पर लगाई थी, 25 साल से कांग्रेस पार्टी वहां जीत नहीं पा रही थी। जब मुख्यमंत्री अपने परिवार के किसी व्यक्ति को मैदान में उतारता है तो उसकी साख भी दांव पर होती है, भाजपा ने पूरा जोर लगाया लेकिन मैं देहरा की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और कमलेश ठाकुर की एक अच्छी जीत हो रही है। मैं उन्हें बधाई देता हूं।

रुपौली उपचुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह 8,846 वोटों से जीते

रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने जीत दर्ज की है। उन्होंने 8 हजार 846 वोटों से जेडीयू के कलाधर मंडल को हराया। शंकर सिंह को 68, 070 वोट मिले। जबकि कलाधर मंडल को 59, 824 वोट मिले हैं। वहीं, रुपौली से 5 बार की विधायक पहले राउंड से ही तीसरे नंबर पर रहीं। उन्हें 30 हजार 619 वोट मिले हैं। बीमा भारती को लोकसभा चुनाव में भी करारी शिकस्त मिली थी। बीमा भारती के इस्तीफे से खाली हुई रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। कुल 54.25 फीसदी वोटिंग हुई थी। पहले माना जा रहा था कि बीमा भारती और कलाधर मंडल के बीच नेक टू नेट फाइट होगी, लेकिन निर्दलीय शंकर सिंह के कारण यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। इधर, नतीजे आने से पहले ही आरजेडी ने हार स्वीकार कर ली।

अमरवाड़ा में भाजपा 3252 वोटों से जीती

अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा कैंडिडेट कमलेश शाह 3252 वोटों से जीत गए। शनिवार को पीजी कॉलेज में हुई काउंटिंग में काफी उलटफेर होते रहे। पहले तीन राउंड तक भाजपा आगे रही। फिर उतार-चढ़ाव के साथ 17वें राउंड तक कांग्रेस के धीरन शाह लीड बनाए हुए थे। आखिरी के तीन राउंड में भाजपा को लगातार बढ़त मिली। कांग्रेस ने दो राउंड की काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जताई। कांग्रेस समर्थकों ने रिकाउंटिंग की मांग की है। कांग्रेस प्रत्याशी धीरेंद्र शाह ने भी रीकाउंटिंग कराने की लिखित मांग की। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में 10 जुलाई को 332 मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग के लिए 17 टेबल लगाई गई हैं। पोस्टल बैलेट्स की गिनती के लिए 4 टेबल लगाई गईं। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गई। यहां कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं।

घटा सरयू का जलस्तर, खतरे के निशान से तीन सेमी नीचे पहुंचा पानी, नाव से स्कूल जाना शुरू हुए बच्चे

नाव वाले वसूल रहे मनमाना किराया

रुदौली तहसील क्षेत्र में बाढ़ का पानी घटने के बाद बर्बादी की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। संपर्क मार्गों पर पानी भर गया है। आवागमन के लिए नाव ही सहारा है। नाव वाले मनमाना किराया वसूल रहे है। रुदौली की 15 हजार आबादी बाढ़ से प्रभावित है। रुदौली तहसील के सबसे अधिक कैथी मांझा के ही 99 परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं।

जन एक्सप्रेस । अयोध्या

सरयू खतरे के निशान से तीन सेमी नीचे पहुंच गई है। जलस्तर तो घट रहा है लेकिन अब परेशानियों की बाढ़ आ गई है। पीड़ितों के समक्ष खाने-पीने का संकट खड़ा हो गया है। कई परिवार तो एक ही बार खाना खा रहे हैं। वहीं स्कूली बच्चे नाव से जोखिम उठाकर पढ़ाई करने जा रहे हैं। पशुओं के चारे का संकट खड़ा हो गया है। संक्रामक बीमारियां तेजी से फैल रही है। सरयू का जलस्तर शनिवार की शाम छह बजे 92. 70 मीटर रिकॉर्ड किया गया जोकि लाल निशान 92 73 मीटर से तीन सेमी नीचे है। जलस्तर घटने के साथ कटान का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। सदर तहसील के पूराबाजार के 12 से अधिक गांव बाढ़ से अभी भी घिरे हुए हैं। पूरा बाजार प्रतिनिधि के अनुसार सलेमपुर, पिपरी संग्राम ,उरदाहवा ,पूरे चेतन गांव में अभी भी पानी घरों के किनारे है। बाढ़ पीड़ित परिवार भोला, ज्वाला, शंकर, रामपाल ,चंद्रपाल, गंगाशरण आदि का कहना है कि पानी कम होते ही फसलें सड़कर गिरने लगी हैं। जिससे मवेशियों के चारे का संकट खड़ा हो गया है। शिवराम निषाद ने कहा कि बच्चों को रोजाना नाव से मूड़ाडीह प्राथमिक विद्यालय छोड़ने और लेने जाना पड़ता है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि दिन में एक बार ही भोजन कर रहे हैं। बाकी दिन लइया, चना खाकर बिता रहे हैं।

सरकारी कर्मचारी संभल जाओ, अपनी चल-अचल संपत्ति जल्द बताओ

सरकार ने सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम चेतावनी दी है

- श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के सभी अधिकारी 31 जुलाई तक वो अपनी चल-अचल संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण पोर्टल पर अपलोड कर दें
- इसको लेकर अपर मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किया गया है
- इसके बाद भी सरकार के निर्देश का पालन न करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा

जन एक्सप्रेस । डॉ. वैभव शर्मा



लखनऊ। अपराधियों और माफिया पर शिकंजा कसने के बाद योगी सरकार अब सरकारी कर्मचारियों पर सख्त है। सरकार ने सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम चेतावनी दी है। इसके बाद भी सरकार के निर्देश का पालन न करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा। योगी सरकार ने कहा कि राज्य सरकार के अधीन विभागों में कार्यरत श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के सभी अधिकारी 31 जुलाई तक वो अपनी चल-अचल संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण पोर्टल पर अपलोड कर दें। इसको लेकर अपर मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश में लिखा है, शासनादेश दिनांक 18 अगस्त, 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम 24 के अनुसार मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति की जानकारी दर्ज करना 31.12.2023 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा करते हुए निर्देश दिए गए थे। चल अचल सम्पति की डिटेल समय से न किये जाने पर उसे प्रतिकूल रूप में लिया जायेगा।

प्रमोशन पर नहीं होगा विचार

1 जनवरी 2024 के बाद होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकों में, ऐसे कार्मिकों द्वारा जब तक अपनी चल-अचल सम्पति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक उनकी पदोन्नति (प्रमोशन) के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर शासनादेश 6 जून 2024 से मानव सम्पदा पोर्टल पर चल अचल सम्पति का विवरण प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्धारित समय 30 जून निर्धारित करते हुए चल-अचल सम्पति का विवरण प्रस्तुत नहीं करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के सुसंगत प्रावधानों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश भी निर्गत किये गए हैं।

सम्पत्ति कर विवरण प्रस्तुत करने वाले कार्मिकों की संख्या न के बराबर

मानव सम्पदा पोर्टल की समीक्षा में यह संज्ञान में आया है कि उक स्पष्ट निर्देशों के बाद भी पोर्टल पर कुल पंजीकृत कार्मिकों के सापेक्ष अपनी सम्पत्ति कर विवरण प्रस्तुत करने वाले कार्मिकों की संख्या नगण्य है, यह स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। इसलिए कार्मिकों को एक अवसर और प्रदान करते हुए चल-अचल सम्पति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कानपुर एक्सप्रेस



कानपुर और उन्नाव की खबरों को पढ़ने के लिए देखें पेज 3 और 11

जन एक्सप्रेस फाइटर जी कहिन को इस Qr-code के माध्यम से सर्च करें

इंटरनेशनल स्तर के स्टेडियम वाला यूपी का चौथा शहर होगा गोरखपुर

- समृद्ध होगी हिरवानी की परंपरा, गोरखपुर में बनेगा वैश्विक स्तर का क्रिकेट स्टेडियम
- सीएम योगी कर चुके हैं निर्माण की घोषणा
- गोरखपुर के साथ पूर्वांचल और बिहार के क्रिकेट खिलाड़ियों की निखरेगी प्रतिभा

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

नरेंद्र हिरवानी और गोरखपुर का क्रिकेट एक दूसरे के पर्याय हैं। देश के महान लेग स्पिनर्स में शुमार हिरवानी अपने खेल के बूते 1988 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिरवानी की परंपरा को और समृद्ध करने जा रहे हैं। इसका जरिया बनेगा गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाला वैश्विक स्तर का क्रिकेट स्टेडियम। इसके निर्माण की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत छह जुलाई को गोरखपुर दौरे के दौरान थी।

वैश्विक स्तर का यह यूपी चौथा क्रिकेट स्टेडियम होगा

मिली जानकारी के अनुसार करीब 100 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की जमीन के लिए सड़क, हवाई यातायात की कनेक्टिविटी को ध्यान रखा जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो कानपुर, लखनऊ, वाराणसी के बाद उत्तर प्रदेश का यह चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम होगा। इसका लाभ न केवल गोरखपुर, बल्कि पूर्वांचल, सटे हुए बिहार और मित्र राष्ट्र नेपाल की खेल प्रतिभाओं को भी मिलेगा। बेहतर प्रशिक्षण के जरिए क्रिकेट खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वांचल का नाम रोशन करेंगे।

खेलों के प्रति सीएम योगी का खासा लगाव

मालूम हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खेलों से खासा लगाव है। समय-समय पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश एवं देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों से वह न केवल मिलते हैं बल्कि उनको सम्मानित भी करते हैं। इसी क्रम में कुछ रोज पहले टी-20 विश्व विजेता टीम के हिस्सा रहे उत्तर प्रदेश के क्रिकेटर कुलदीप यादव से भी उनकी अपने आवास पर भेंट हुई थी। यही नहीं ऐसे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओ में जाने के पहले वह हौसला अफजाई भी करते हैं। अगस्त 2021 में खिलाड़ियों के सम्मान में ही यहां लखनऊ में उनके मार्गदर्शन में खेल कुंभ का भी आयोजन हुआ था। इसी में मुख्यमंत्री ने लखनऊ में खेल एकेडमी बनाने एवं कुश्ती समेत दो खेलों को एडॉप्ट करने एवं 10 साल तक इनके वित्त पोषण की भी घोषणा की थी। प्रदेश की खेल प्रतिभाओं दक्षता बढ़े इसके लिए मेरठ में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल विश्वविद्यालय भी बन रहा है। गांव-गांव में खेल मैदान, ओपन जिम, गंगा के तटवर्ती गावों में गंगा मैदान बनाने के पीछे भी जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना है। योगी सरकार इसी मकसद से पांच साल के लिए नई खेल नीति लाने की भी तैयारी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की घोषणा भी इसी की एक खड़ी है। इसका लंबे समय में प्रदेश के खेल जगत पर व्यापक एवं प्रभावी असर पड़ेगा।

स्पोर्ट्स के कारोबार, स्पोर्ट्स टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी होगा लाभ

यही नहीं इससे स्पोर्ट्स के कारोबार में भी बूम आएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच शुरू होने पर स्पोर्ट्स टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी लाभ होगा।

एसडीओ की लग्जरी कार पर अज्ञात बदमाशों ने किया हाथ साफ

जन एक्सप्रेस/कालपी। बीती मध्य रात को अज्ञात बदमाशों ने निशाना बनाकर विद्युत विभाग के एसडीओ की लग्जरी कर को चुरा ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कालपी में पदस्थ विद्युत उपखंड अधिकारी आदर्श राज की निजी ईको कार नम्बर यूपी 78-जीएक्स 3543 को शाम धुलाई करके आलमपुर स्थित बलवान ढाबे के पास खड़ी कर दी गई थी। 12 जुलाई की रात में गाड़ी खड़ी हुई थी। सुबह मौके पर कर गए मिली। अज्ञात बदमाशों के द्वारा कार्य को चोरी करने की घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना को लेकर उपखंड अधिकारी आदर्श राज ने अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध कोतवाली कालपी में मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नागेंद्र कुमार पाठक के निर्देशन में बदमाशों को पकड़ने तथा कर की बारामती करने के लिए पुलिस को सक्रिय कर दिया गया है। मामले को पकड़ने के लिए घटनास्थल के आसपास के में स्थापित सीसीटीवी फुटेज को निकालने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी से पता चलता है कि 11/12 जुलाई की रात को 3:00 बजे तो बदमाशों के द्वारा कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है।

सुलह-समझौते के आधार पर मुकदमों का राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ निस्तारण

जन एक्सप्रेस। चित्रकूट

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सभी जनपदों में किया गया। जनपद न्यायालय चित्रकूट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन विकास कुमार-प्रथम जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में किया गया। लोक अदालत में जनपद न्यायाधीश विकास कुमार-प्रथम ने 2 सिविल प्रकीर्णवाद, 5 प्रकीर्ण फौजदारी वादों का निस्तारण करते हुये 122500 रूपये अर्थदण्ड वसूल किया। कृष्ण यादव मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा 47 वादों का निस्तारण करते हुये 3,15,86,411 रूपये प्रतिकर के रूप में दिलाया गया। राकेश कुमार यादव प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा 17 वादों का निस्तारण करते हुये 45,500 रूपये आपसी सुलह समझौते के आधार पर वादिया को दिलाया गया एवं कई वर्षों से एक-दूसरे से अलग हुये जोडों आपस में सुलह समझौते के आधार पर एक साथ भेजा गया। अनुराग कुरील प्रथम अपर जिला जज द्वारा 32 विद्युत वादों का निस्तारण किया गया। रेनू मिश्रा विशेष न्यायाधीश पाक्सो द्वारा 1 फौजदारी प्रकीर्णवाद का निस्तारण करते हुये 500 रूपये अर्थदण्ड वसूला गया। राजेन्द्र प्रसाद भारतीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा फौजदारी के 766 वादों का निस्तारण करते हुये 119660 रूपये अर्थदण्ड वसूला गया। सूर्यकान्तधर दूबे सिविल जज (सीडि) द्वारा 32 फौजदारी वादों का निस्तारण करते हुये 7600 रूपए अर्थदण्ड, 2 सिविल वाद का निस्तारण एवं 1 उत्तराधिकार वाद का निस्तारण करते हुये 22,70,697 रूपये का प्रमाण पत्र जारी किया गया। सचिन कुमार दीक्षित अपर सिविल जज (सीडि) अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा फौजदारी के 21 वादों का निस्तारण करते हुये 210 रूपये का अर्थदण्ड वसूला गया। इला चैधरी अपर सिविल जज (सीडि) द्वारा फौजदारी के 47 वादों का निस्तारण करते हुये 470 रूपये का अर्थदण्ड वसूला गया। सोनम गुप्ता सिविल जज (सीडि) एफटीसी द्वारा 65 वादों का निस्तारण करते हुये 650 रूपये वसूला गया। सैफाली यादव सिविल जज (जूडि) द्वारा 1 वाद का निस्तारण करते हुये 1600 रूपये अर्थदण्ड वसूला गया, 2 सिविल वाद का निस्तारण तथा 1 उत्तराधिकार वाद का निस्तारण करते हुये 50,000 रूपये का प्रमाण पत्र जारी किया गया। न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मानिकपुर खुशबू चन्द्रा द्वारा 115 वादों का निस्तारण करते हुये 1150 रूपये अर्थदण्ड वसूला गया। इस प्रकार न्यायिक अधिकारियों द्वारा कुल 1158 वादों का निस्तारण करते हुये 3,42,06,948 (तीन करोड बयालिस लाख छः हजार नौ सौ अडतालिस रूपये), राजस्व व अन्य विभागों द्वारा 56515000 (पांच करोड़ पैंसठ लाख पन्द्रह हजार रूपये) प्रतिकर के रूप में वसूला गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार 10 से 12 जुलाई तक आयोजित विशेष लोक अदालत (पेटी आफैस) में कुल 52 वादों का निस्तारण किया गया।

नीलू मेनवाल सचिव अपर जिला जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 29411 मुकदमों का निस्तारण करते हुये 90721948 (नौ करोड सात लाख इक्कीस हजार नौ सौ अडतालिस रूपये) रूपये अर्थदण्ड, प्रतिकर व बैंक ऋण वसूली के रूप में वसूल किया। इस अवसर में न्यायिक आवासीय परिसर में पौधरोपण भी किया गया।

इस मौके पर राममणि पाठक विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट, नीरज श्रीवास्तव अपर जिला न्यायाधीश, अंजलिका प्रियदर्शिनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, सतीशचंद्र गुप्ता डिप्टी जोनल मैनेजर इण्डियन बैंक प्रयागराज, अनुराग शर्मा अग्रणी जिला प्रबन्धक इण्डियन बैंक आदि मौजूद रहे।

फास्ट फॉरवर्ड

जिले के नए एसपी होंगे डॉ दुर्गेश कुमार, ईरज राजा को भेजा गया गाजीपुर

जन एक्सप्रेस/उरई। डॉ. ईरज राजा को गाजीपुर भेजा गया है जबकि जालौन का कार्यभार नए कप्तान डॉक्टर दुर्गेश कुमार को सौंपा गया है।
नए पुलिस अधीक्षक डॉ दुर्गेश कुमार महाराजगंज जनपद के रहने वाले हैं। उनकी एमएससी के साथ एमएसडब्ल्यू से पीएचडी की हुए है। वर्तमान में वह पुलिस कमिश्नर लखनऊ में डीसीपी के पद पर तैनात थे। उनका चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग से हुआ है, इसके बाद उनकी पदोन्नति आईपीएस पर हुई। वही जालौन के वर्तमान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा की बात करें तो उन्होंने 14 जनवरी 2023 को जालौन की कमान संभाली थी। लगभग डेढ़ साल बाद उनका स्थानांतरण गाजीपुर हुआ है। डेढ़ साल के दौरान उनका कार्यकाल सराहनीय रहा, अपराध को लगाम कसने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके समय में 65 से अधिक एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें दो फुल एनकाउंटर, बाकी हाफ एनकाउंटर हुए। इसके अलावा कई अपराधियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई, साथ ही गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। उनके समय में नगर पालिका चुनाव के साथ-साथ लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उन्होंने कई ऐसे मामलों में सजा दिलाई, जो वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए थे। लगातार पैरवी होने के बाद आरोपियों को सजा दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगर उनका एक विवाद भाजपा नेताओं से भी जुड़ रहा।

झमाझम बारिश से गल्ला मंडी उफनाई, हवा से उड़े टीन टप्पर

जन एक्सप्रेस/भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर)। दोपहर बाद बदले मौसम में कस्बे में तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश में सब कुछ तरबतर कर दिया। बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तेज हवा से जहां टीन टप्पर उड़ गए। वहीं नालियां जाम होने से नवीन गल्ला मंडी उफ्ना गई। इससे आढ़तियों को काफी नुकसान हुआ है। शनिवार को दोपहर बाद 1रू30 बजे मौसम में अचानक पलटी मारी और तेज हवाओं के साथ बदरा झूमकर बरसे। तेज हवाओं के कारण कस्बे में कई जगह टीन टप्पर उड़ गए। बस स्टैंड के समीप लोहे की गुमटी पलट गई और गुमटी में बैठा वृद्ध दुकानदार रामआसरे यादव मामूली रूप से घायल हो गया। तेज बारिश के कारण नालियां जाम होने से नवीन गल्ला मंडी उफ्ना गई। इससे आढ़तियों को काफी क्षति हुई है। गल्ला व्यापारी पवन पांडेय, कुंजबिहारी पांडेय, श्यामबाबू पांडेय आदि ने बताया कि मंडी की सफाई व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है। अचानक हुई बारिश से गल्ला मंडी में अफरा-तफरी मच गई।

परचून की दुकानों में बिक रही शराब, विभाग बेखबर

जन एक्सप्रेस/मौदहा (हमीरपुर)। कस्बा में बीते कई वर्षों से शराब की अवैध बिक्री के लिए परचून और चाय पान की दुकानों को सुरक्षित अड्डा बनाया गया है। जहां देर रात तक शराब की बिक्री धड़ल्ले से होती है और सबकुछ जानने के बावजूद भी आबकारी विभाग बेखबर बना हुआ है। मौदहा कस्बा के बड़ा चौराहा, तहसील मार्ग, स्टेशन मार्ग सहित अन्य स्थानों पर देशी और अंग्रेजी शराब के सरकारी ठेका खुले हैं। लेकिन इनके खुलने और बंद होने का निश्चय समय होता है। ऐसे में इन ठेकों के आसपास स्थित कुछ परचून और चाय पान की दुकानों में हमेशा ही शराब उपलब्ध रहती है।ये दुकानदार सरकारी ठेकों से थोक भाव पर शराब की खरीदारी करते हैं और मनमानी दामों पर बेचते हैं।इस काम में भले ही ये दुकानदार ठीक ठाक मुनाफा कमाते हैं लेकिन इस मुनाफा के लिए नकली शराब और मिलावटी शराब के धंधे को बढ़ावा देने में पीछे नहीं रहते हैं। कई दुकानदार तो केवल नाममात्र के लिए गिलास, पानी, चखना, बड़ी, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक आदि सामान रखते हैं लेकिन इसकी आड़ में इनका मुख्य धंधा शराब की अवैध बिक्री करना है। मजेदार बात यह है कि ये दुकानदार पियक्कड़ों को सुविधा शराब पीने की सुविधा भी देते हैं जिसके चलते इन दुकानों में पियक्कड़ों की खासी भीड़ रहती है। शादी बारातों के समय तो इन दुकानदारों की कमाई भरपूर होती है क्योंकि इनका धंधा देर रात और कई बार तो रात रात भर चलता है। कस्बा के स्टेशन मार्ग स्थित देशी शराब के ठेका के नजदीक एक दुकान लगभग एक दशक से मिलावटी और नकली शराब बेंचने के साथ ही पियक्कड़ों को अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जगजाहिर है। हालांकि इस दुकानदार के रवैए से आसपास के परिवार खासा परेशान और पीड़ित महसूस करते हुए दुकानदार के खिलाफउच्च अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं।

ओलावृष्टि से पीड़ित को अभी तक नहीं मिली राहत राशि

जन एक्सप्रेस/सुमेरपुर (हमीरपुर)। कस्बा सुमेरपुर सहित ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के खातों में ओलावृष्टि की धनराशि न आने से किसान परेशान है। मालूम हो कि चार माह पूर्व कस्बा सुमेरपुर सहित कई गांवों में जब किसानों की पकी हुई फसल खड़ी थी तभी फसलें ओलावृष्टि से दैवीय आपदा का शिकार हो गयी थी। शासन ने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानो की क्षति का आंकलन कराकर धनराशि भी जारी की थी। लेखपालो द्वारा किसानों की फसलो की क्षति का आकलन कराते हुये फीडिंग भी करा दी गयी है। किसानों का कहना है कि वह बैंक के चक्कर लगाते है लेकिन उनके खातों में अभी तक मुआवजा की धनराशि नही आई है। पंधरी के किसान ओमकार दुबे, भागवत दुबे, बाँकी पंधरी के किसान गुलाब सिंह, कल्लू सिंह टिर्रा, मिर्जा देवी सहित दर्जनो किसानों ने बताया कि चार माह का समय व्यतीत हो गया लेकिन मुआवजा की धनराशि न आने से वह परेशान है ओलावृष्टि से बरबाद हुई फ़सल से किसान की कमर वैसे ही टूटी है ऐसे में सरकार से मिलने वाली सहायता की कुछ धनराशि उसका सहारा बनती लेकिन उसके न आने से खासतौर से गरीब किसान बेहद परेशान है। हालाकि ओलावृष्टि का मुआवजा लोकसभा चुनाव के पूर्व कुछ किसानों के खातों में आ गया था लेकिन कस्बा सुमेरपुर सहित प्रम्भावित गावों के अभी भी सैकड़ों किसान है जो मुआवजा की धनराशि से वंचित है। लेखपाल के यहाँ किसान चक्कर लगा रहा है। लेखपालो का कहना है कि फीडिंग हो चुकी है बजट नहीं है बजट आते ही पैसा खातों में डाला जायेगा। किसानों ने जिलाधिकारी से मांग की है की ओलावृष्टि का पैसा किसानो को शीघ्र दिलवाया जाय।

सभासदों ने अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा, सौंपा ज्ञापन

जन एक्सप्रेस/कुरारा (हमीरपुर)। स्थानीय थाना परिसर में थाना समाधान दिवस पर सभासदों ने चौयरमैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर जांच कराए जाने की मांग की है। स्थानीय थाना परिसर में थाना समाधान दिवस के पर कस्बे के नगर पंचायत के सभासद अजय सिंह, राबिया खातून, नूर मोहम्मद, मुकेश, ऊषा देवी , अवधेश गुप्ता, प्रशांत सिंह राजावत ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा मासिक बैठक की कोई भी सूचना नियमानुसार नहीं दी जाती है वही नगर पंचायत में आउटसोर्सिंग कर्मचारी 85 है जबकि मौके पर केवल 60 कर्मचारी कार्य करते हैं। नगर पंचायत के टेंडन में वित्तीय अनियमितताओं को ताक में रखकर कार्य किया जाता है। नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा अपनी निजी गेस्ट हाउस में नगर पंचायत की मशीनरी एवं कर्मचारियों का प्रयोग किया जाता है।

जांच में मिले 42 अनफिट वाहनों का चालान

जन एक्सप्रेस। चित्रकूट

शासन के निर्देश पर 22 जुलाई तक परिवहन विभाग की ओर से स्कूली वाहनों की फिटनेस जांचने के लिए जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 228 वाहनों की जांच की गई। इनमें से 42 स्कूली वाहन अनफिट पाए गए। सभी अनफिट वाहनों का चालान किया गया है।

एआरटीओ प्रशासन विवेक कुमार शुक्ला ने बताया कि जिले में 228 स्कूली वाहन पंजीकृत हैं। जिनमें 42 वाहन अनफिट हैं। सभी अनफिट वाहनों को पूर्व में ही परिवहन विभाग की ओर से नोटिस जारी किया जा चुका है। अभियान में एआरटीओ प्रशासन व प्रवर्तन विवेक शुक्ला की अगुवाई में टीमें लगाई गई हैं। जिनमें परिवहन विभाग के आरआई गुलाबचंद कार्यालय स्टाफ नीरज सेन, चुन्नू के साथ कई स्कूलों में स्कूली वाहनों की जांच की गई। इस दौरान विद्यालय प्रबंधकों को अनफिट वाहनों के सभी जरूरी मानक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि स्कूली वाहनों में कैमरा, जीपीएस, अग्नि शमन यंत्र, आपातकालीन दरवाजा एवं बस के पीछे वाला दरवाजा को आकस्मिक खोलने के लिए हथौडा, वाहनों के आगे पीछे चैडे रेडियम और हॉर्न दुरुस्त रहने चाहिए। साथ ही वाहनों में चालक परिचालक का नाम व दूरभाष नंबर अंकित होना जरूरी है। शासनादेश व यातायात नियमों को अनदेखी करने पर वाहन पंजीकरण निरस्त कर सीज कर दिए जाएंगे। अभियान 22 जुलाई तक चलाया जाना है। इस मौके पर प्रधानाचार्य प्रियंका सिंह आदि मौजूद रहे।

पति सहित 5 ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज

जन एक्सप्रेस/कालपी। अतिरिक्त दहेज की मांग करके पत्नी के साथ मारपीट करने के मामले को लेकर पीड़ित नवविवाहित के द्वारा पति सहित ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। उक्त मामले को लेकर पुलिस जांच करने में जुट गई हैं। वादिनी प्रियंका पुत्री मुरलीधर निवासी ग्राम निबाड़ी थाना कालपी में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि दिनांक 10-6-2024 को वादिनी का विवाह अर्जुन पुत्र लाल सिंह निवासी उमरार खेरा उरई के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ था। प्रार्थिनी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज में सामान तथा जेवरात दिया था। प्रार्थिनी का एक वर्ष का पुत्र भी है। विवाह के एक साल के बाद प्रार्थिनी का पति गाली गलौज करके उत्पीड़न करने लगा तथा 50 हजार रुपये की मांग दहेज के रूप में करने लगा। प्रार्थिनी के पति के मामा राहुल, पति की नानी माया, सास, पति की मौसी ने एक राय होकर दिनांक 4-6-2024 को मारपीट कर घर से निकाल दिया।

डीआईजी ने थाना समाधान दिवस में सुनी फरियादियों की समस्याएं

जन एक्सप्रेस। चित्रकूट

पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा अजय कुमार सिंह ने थाना बरगढ़ में सलामी लेकर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया। पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा अजय कुमार सिंह ने थाना समाधान दिवस में आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण करने के लिए निर्देश दिये गये। उन्होंने ने भूमि विवाद से सम्बन्धित 3 प्रकरणों का राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके जाकर जांचकर निस्तारण कराने के लिए निर्देशित किया। इसके बाद डीआईजी एवं पुलिस अधीक्षक ने आम का पेड़ लगाकर पौधारोपण किया। साथ ही सम्बन्धित को पेड लगाने की अपील की। साथ ही देख-रेख के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर तहसीलदार मऊ विजय यादव, प्रभारी निरीक्षक बरगढ राकेश मौर्य, पीआरओ प्रवीण सिंह आदि मौजूद रहे।

ग्रामोदय के कृषि विद्यार्थियों ने तिल और राम तिल के बीज और उर्वरक का किया वितरण

जन एक्सप्रेस। चित्रकूट

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय को प्राप्त अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, तिल एवं रामतिल के अंतर्गत कुलगुरु प्रो भरत मिश्रा और अधिष्ठाता कृषि संकाय डॉ. सुधाकर प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में कृषि पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों और शोधार्थियों ने एफएलडी के 25 एकड में तिल एवं रामतिल के बीजों, उर्वरकों एवं कीटनाशी का वितरण किया। इस अवसर पर किसानों को तिल की बुवाई, बीज शोधन की विधि, फसलों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के व्याधियों एवं फसल सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक कराया किया गया। इस मौके पर पालदेव की सरपंच गुडिया देवी, कृषक नरेंद्र प्रताप सिंह, प्रशांत द्विवेदी, आशीष सिंह, देवांग राठौर आदि मौजूद रहे।

युवक हुआ लापता, गुमशुदगी दर्ज

जन एक्सप्रेस। सरीला(हमीरपुर)

जरिया थाना क्षेत्र के धगवां गाँव निवासी 35 वर्षीय युवक भैंस चराने गया था। फिर वापस घर नहीं लौटा। पिता की सूचना पर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष जरिया भरत कुमार ने बताया कि धगवां गाँव निवासी श्यामसुंदर राजपूत ने तहरीर देकर बताया कि उसका पुत्र मोहित कुमार 35 वर्षीय 10 जुलाई बुधवार को सुबह भैंस चराने के लिए गया था। दोपहर तक झबरा के आसपास देखा गया था। फिर इसके बाद घर वापस नहीं लौटा है। सभी रिश्तेदारों में पता किया गया तो कोई जानकारी नहीं मिली और फोन भी बंद है। लापता होने की सूचना थाना जरिया पर गुमशुदगी दर्ज की गई है।

हमीरपुर कालपी हाइवे सड़क के गहरे गड्ढे बने जानलेवा

जन एक्सप्रेस। कुरारा (हमीरपुर)

विकासखंड क्षेत्र के डामर गांव में कालोनी के समीप हमीरपुर कालपी हाइवे के बीच सड़क में गड्ढे हो जाने से जानलेवा साबित हो रहे हैं। कल एक महिला की इन्ही गड्ढे में बाइक से गिर जाने से दर्दनाक मौत हो गई। कुरारा से लेकर सरसई गांव तक हाइवे पर बीच सड़क में नाली व गड्ढे हो गए हैं। जो कि जानलेवा साबित हो रहे हैं।

हमीरपुर कालपी हाइवे पर डामर गांव के कालोनी के समीप हमीरपुर से कालपी तरफ जाने पर दाहिने तरफ बीच सड़क में गड्ढे हो गए हैं। तथा उभार लिए गड्ढे में सबसे अधिक दो पहिया वाहन उछल जाते हैं। जिससे वाहन में पीछे बैठी महिलाएं उछल कर गिर जाती है। कल कस्बा निवासी महिला प्रेम लता बाइक से गिर गई तथा सिर में चोट लगने से मौत हो गई। इसके चार दिन पहले एक कार पलट गई थी। गांव निवासी सुखदेव , बृजेंद्र सिंह ने बताया कि इन्ही गड्ढे में उछल कर एक ईको गाड़ी पलट गई थी। जिसमे सवारी घायल हो गई थी। ग्रामीणों ने बताया कि यह जानलेवा गड्ढे चार माह से अधिक से है। लेकिन लोकनिर्माण विभाग द्वारा इन का निरीक्षण कभी नहीं किया जाता है। कुरारा के मनकी तिराहा से लेकर जनपद के अंतिम छोर पर बसे सरसई गांव तक हाइवे की सड़क पर बीच में नाली बन गई है। जिससे तेज रफ्तार वाहनों को पलटने का खतरा बना हुआ है। कार्यदाई संस्था द्वारा इनके मरम्मत का कार्य भी नही किया जा रहा है। वही डामर गांव में सड़क किनारे लोगो ने अपने ईट आदि लगा रखे हैं। जिससे सड़क किनारे अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। जिससे दुर्घटनाएं होती रहती है। इन गड्ढों का भरा जाना जरूरी है। नही तो अभी इस सड़क में दुर्घटना होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

पुलिस अभिरक्षा में हत्यारोपी की मौत पुलिस महकमे में मची खलबली

जन एक्सप्रेस। उरई

पुलिस अभिरक्षा में हत्या के मुख्य आरोपी की मौत हो गई। घटना से पुलिस महक में हड़कंप मच गया, और मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिलने से ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाया जा रहे हैं। शहर कोतवाली के मोहल्ला इंदिरा नगर निवासी सरिता पत्नी संतोष कुमार ने डकोर कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें बताया था कि 10 जुलाई की शाम को राजकुमार उसका भाई निर्भय सिंह उर्फ फगे व पत्नी राधा, कार्तिक उर्फ फरसा वाले, आकाश पुत्र भगवान सिंह निवासीगण इंदिरा नगर उसके पति संतोष को अपने साथ काम की बात कहकर डकोर लिवा गए थे। 12 जुलाई को जब उसे इंटरनेट मीडिया पर पति के शव की फोटो दिखी तो उसे उनकी मौत की जानकारी हुई थी। सभी लोगों ने मिलकर उसके पति की सिर कुचलकर हत्या कर दी। साथ ही शव को डकोर क्षेत्र में चिकासी पुल के पास फेंक दिया था। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने पांचों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। शुक्रवार की रात को डकोर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर मुख्य आरोपित राजकुमार को कस्बे के पास से उसे गिरफ्तार कर गाड़ी में बैठा लिया।इस दौरान उसने सांस लेने में परेशानी की बात कही, लेकिन पुलिस उसे अस्पताल ले जाती इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि पुलिस उसको जिला अस्पताल लेकर गई तो वहां उसका अज्ञात में शव दर्ज कराया था। इसके साथ ही उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। इससे यह प्रतीत हो रहा था कि उसकी पिटाई हुई है। डकोर में लोगों का कहना है कि पुलिस ने उसे दिन में ही गिरफ्तार कर लिया था। एसपी डा. ईरज राजा ने बताया कि हत्या के मामले में मुख्य आरोपित के डकोर में छिपे होने की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा था। आरोपित को रात के समय पुलिस गाड़ी से कोतवाली लाया जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे स्वास लेने में दिक्कत हुई। जिससे उसे जिला अस्पताल लाया गया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। डाक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम कराया गया है। इस मामले में अभी तक परिजनो की ओर से कोई शिकायत या आरोप नहीं लगाए गए हैं।

सामूहिक विवाह में 21 जोड़ो ने थामा एक दूसरे का हाथ

जन एक्सप्रेस/भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर)। क्षेत्र के ग्राम छानी खुर्द में आयोजित सर्वजातीय सामूहिक कन्या विवाह समारोह में 21 जोड़ों ने एक दूसरे को वरमाला पहनकर जीवनसाथी चुना। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हरगोविंद प्रजापति व प्रधान प्रतिनिधि अरुण कुमार वर्मा ने मौजूद रहकर वर वधू को आशीर्वाद प्रदान किया। छानी खुर्द में आयोजित सर्वजातीय सामूहिक कन्या विवाह समारोह में कुसमा संग संजय, रानी संग भूपेंद्र, कामिनी संग ज्ञानेंद्र, ममता संग दिलीप सहित 21 जोड़ों ने एक दूसरे को वरमाला पहनकर जीवनसाथी चुना। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि एवं प्रधान प्रतिनिधि ने मौजूद रहकर वर वधू को आशीर्वाद एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस मौके पर विलास शिवहरे, राहुल साहू, हरिश्चंद्र राजपूत, दीपक साहू, महेंद्र सिंह, स्वयंप्रकाश विश्वकर्मा, जितेंद्र सोनी, नरसी गुप्ता, नवल सोनी आदि मौजूद रहे।

थाना समाधान दिवस में 11 मामले प्रस्तुत, 5 का निस्तारण

जन एक्सप्रेस। कालपी

कोतवाली कालपी में क्षेत्राधिकारी डॉ देवेंद्र कुमार की मौजूदगी तथा उपजिलाधिकारी सुशील कुमार सिंह की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर फरियादियों के द्वारा 11 मामले प्रस्तुत किए गए। 5 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। आज के समाधान दिवस में राजस्व विभाग के आठ तथा पुलिस से संबंधित तीन मामले दर्ज किए गए।

शनिवार को कोतवाली परिसर में आयोजित थाना समाधान दिवस में मौजूद पुलिस तथा राजस्व कर्मचारियों की मौजूदगी में बाबूराम निवासी ग्राम लोहार गांव ने शिकायती पत्र देते हुए अवगत कारण उसकी विपक्षी लोग आम सड़क के रास्ता को बंद कर रहे हैं। राकेश कुमार ग्राम गढ़गुवा तथा नवाजिश था मोहल्ला राजेपूरा कालपी ने अपनी अपनी कृषि जमीन की नाप करने की मांग की है। अतीक पुत्र रमजानी निवासी मोहल्ला हैदरी पूरा कालपी ने मौजा प्रभावती स्थित जमीन में विपक्षियों के द्वारा नाजायज कब्जा करने की शिकायत की है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नागेंद्र कुमार पाठक ने बताया प्रस्तुत किए 5 मामलों का निस्तारण कर दिया गया है। जबकि अन्य मामलों को निपटने के लिए राजस्व तथा पुलिस बिभाग की टीमो को मौके पर भेजा गया है। उपजिलाधिकारी ने कहा कि जनसमस्याओं तथा शिकायतो को गुणवत्ता पूर्ण तरीके से निस्तारण करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। इस दौरान नायब तहसीलदार सुश्री तारा शुक्ला, कोतवाली के अतिरिक्त निरीक्षक मोहम्मद अशरफ, उपनिरीक्षक वसीम अहमद, वरिष्ठ उप निरीक्षक राजेश सिंह, टरनंनगंज चौकी इंचार्ज बिनोद कुमार सिंह, जितेंद्र सिंह, राजेश कुमार, सदर लेखपाल जितेंद्र सिंह, प्रमोद दुबे, बिभा, विजय आनंद, रवि कुमार संजय, अभिषेक कुमार, सुमित यादव, प्रशांत गौतम के अलावा राजस्व विभाग तथा पुलिस विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।

janexpressnews janexpresslive janexpresslive

कानपुर नगर एक्सप्रेस

www.janexpresslive.com/epaper | हिंदी दैनिक, जन एक्सप्रेस । | लखनऊ । शनिवार । 14 जुलाई 2024 | 03

मौसम पूर्वानुमान

पूर्वानुमान

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार,अगले पांच दिनों में हल्के बादल छाए रहने के कारण तेज हवाओं (धूलभरी आँधी) एवं गरज चमक के साथ स्थानीय स्तर पर छुटपुट बूंदाबादी होने के आसार है तथा दिन और रात के तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार है

अधिकतम (डिग्री0से0) : 37.0 (+1.9)
न्यूनतम तापमान (डिग्री0से0) : 27.0 (+0.8)
सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम : 84 प्रतिशत
सापेक्षिक आर्द्रता न्यूनतम : 74 प्रतिशत
हवा की औसत गति : 3.6 कि0मी0/घंटा
हवा की दिशा- उत्तर पूर्व
वर्षा (मि0मी0) : 1.6

- कृषि मौसम वैज्ञानिक

स्वास्थ्य अधिकारी चार, महानिदेशक लाचार

- दफ्तरी सेटिंग के सामने महापौर व महाना असहाय, डॉक्टर विहीन अस्पताल, जन्म मृत्यु कार्यालयों की उदासीनता से लोग बेहाल

जन एक्सप्रेस । डॉक्टर हर नारायण मिश्र

कानपुर नगर। नगर के स्वास्थ्य संबंधी कामों के निस्तारण के लिए चार स्वास्थ्य अधिकारी छह सालों से नगर के जिला अधिकारी व विधानसभा अध्यक्ष की व्यवस्था सुधार प्रक्रिया को धता बताते हुए दायित्वों को निर्वाह करने के बजाय जिंदगी के दिन गुजर रहे हैं।

इस शहर के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सारे काम अब से छह वर्ष पूर्व तक एक ही स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निपटाए जाते थे किंतु मोदी सरकार के तृतीय कार्यकाल में हुई नोटबंदी के बाद से शहर के स्वास्थ्य अधिकारी पद पर डॉ. अजय शंखवार, डॉ. चंद्रशेखर, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी संध्या रानी, वह बारा सिरोही के चिकित्सक डॉक्टर अमित सिंह गौर आदि पदासीन हैं। इस एक पद पर डॉक्टर के पदासीन होने पर आपत्ति जताते हुए प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नगर के स्वास्थ्य अधिकारियों को वापस बुलाए जाने के लिए जिला अधिकारी व नगर निगम के आयुक्त को पत्र लिखा था। जिससे जिलाधिकारी द्वारा तो सहमति जताई गई थी किंतु नगर आयुक्त ने मौन धारण कर लिया था जिसके ठीक विपरीत नगर की महापौर प्रमिला पांडे ने एक पद पर चार चिकित्सकों की तैनाती को अनुचित बताते हुए तीन डॉक्टर को स्वास्थ्य केंद्रों में वापस भेजे जाने की अनुशंसा करते हुए इस बात को स्पष्ट किया था की वर्तमान समय में नगर में एक भी नगर निगम का स्वास्थ्य केंद्र अपनी सेवाएं नहीं दे रहा है। इसलिए इन्हें पूर्व पदों पर भेजते हुए कोरोना काल से चली आ रही थी इस धींगामुस्ती को समाप्त किया जाए। हिंदी दैनिक जन एक्सप्रेस के संवाददाता दल के अनुसार चार्ज विहीन स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंखवार को किसी सी युक्त पीएचसी व सीएचसी में भेजा जाए ऐसी सुविधा जरूर हो इसके अलावा सियासी पकड़ रखने वाले डॉक्टर गौर को पूर्व काल की भांति बारा सिरोही सीएचसी में भेजने की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार अतिरिक्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर चूंकि कार्यालय में बहुत कम दर्शन देते हैं लिहाजा महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इन्हें प्रसन्न रखने के लिए यहां से हटाकर उनकी मनचाही जगह पर भेज कर नगर की जनता के साथ महान उपकार करें तथा नगर की कूड़ा उठान, रबिश सेल व सफाई विभाग का कार्य तथा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र व उनके नामों में संशोधन का लंबित कार्य सुचारू रूप से कराने हेतु नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी व रजिस्ट्रार जनरल के बीच व्याप्त संवाद हीनता के कारण रुके कार्यों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था कराए। इसके अलावा सत्ता की शक्ति व तिकड़म के सहारे स्थानीय स्तर पर चल रहे संबद्धता के खेल पर महानिदेशक कार्यालय तत्काल अंकुश लगाए।

वह उनके नाम में संशोधन का लंबित कार्य सुचारू रूप से करने हेतु नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी व रजिस्ट्रार जनरल के बीच व्याप्त संवाद हीनता के कारण रुके कार्यों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था कारण इसके अलावा सत्ता की शक्ति व तिकड़म के सहारे स्थानीय स्तर पर चल रहे संबंधता के खेल पर महानिदेशक कार्यालय तत्काल अंकुश लगाए।

कोविंद के नाम हो एयरपोर्ट का नाम तो बढ़ेगा कानपुर का मान: मैथानी

जन एक्सप्रेस । कानपुर नगर

गोविंदनगर से भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कानपुर का गौरव व मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मांग उठाई है कि यहां के एयरपोर्ट का नाम निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम पर रखा जाना चाहिए। इस बाबत उन्होंने शनिवार को लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भी दिया।

ज्ञापन में सुरेंद्र मैथानी ने कहा है कि कानपुर निवासी होने के नाते निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां की शान हैं। यहां से पहली बार उनके राष्ट्रपति बनने पर कानपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश का मस्तक भी गर्व से ऊंचा हो गया था। अब अगर एयरपोर्ट का नाम रामनाथ कोविंद एयरपोर्ट कानपुर रखा जाता है तो देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस शहर के साथ ही उत्तर प्रदेश का नाम भी चमक उठेगा। साथ ही कानपुर व प्रदेश की शान में भी चार चांद लग जाएंगे। कानपुर शहर, उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक शहर है।

यहां की जनता और व्यापारी वर्ग निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। इस शहर के विकास में हमारे प्रिय नेता रामनाथ कोविंद का बड़ा योगदान रहा है।

यहां से राष्ट्रपति बनकर उन्होंने पूर प्रदेश को गौरवान्वित किया था। इसी से पूरी दुनिया में हमारे कानपुर नगर को भी जाना गया है।

विधायक ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इस बाबत भारत सरकार को राज्य सरकार की ओर से संस्तुति भेजकर कानपुर के साथ ही पूरे प्रदेश के वासियों को गौरान्वित करें।

नौजवान सभा ने रिचार्ज महंगा करने का किया विरोध

जन एक्सप्रेस । कानपुर नगर

भारत की जनवादी नौजवान सभा (DYFI) के राज्य कमेटी के आह्वान पर कानपुर इकाई द्वारा टेलीकॉम कम्पनियो द्वारा रिचार्ज मे भारी वृद्धि के विरोध मे जिलाधिकारी कानपुर नगर के माध्यम से केन्द्रीय सूचना मंत्रालय भारत सरकार को सम्बोधित ज्ञापन भेजा है

महामंत्री चमन खन्ना ने बताया कि 30 दिन का महीना होता है और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां 28 दिन का महीना बनाकर उपभोक्ताओं को लूट रहे है और सरकार ऑखो मे पट्टी बॉधे है। भाजपा की सरकार मे टेलीकॉम कम्पनियॉ कई तरह की मनमानी कर रही है जिसमे सरकार उनपर कोई अंकुश नही लगा रही है। इसी क्रम मे जिओ, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसी कम्युनिकेशन कंपनियों ने अपने प्रीपेड प्लान के रिचार्ज में भारी वृद्धि कर दी है जिसका व्यापक बोझ नौजवानों और ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों सहित करोड़ उपभोक्ताओं के खर्च को बढ़ा दिया है जो पहले से ही सरकार की कॉर्पोरेट परस्त नीतियों के कारण महंगाई की मार झेल रहे हैं। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों के मनमानी तरीके से रिचार्ज के दाम बढ़ाया जाना देश की आम नौजवानों, छात्रों, करोड़ उपभोक्ताओं के साथ घोर अन्याय है।

सुरेश त्रिवेदी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे सांसद

जन एक्सप्रेस । कानपुर नगर

पत्रकारिता के अमिट हस्ताक्षर वरिष्ठ पत्रकार सुरेश त्रिवेदी की तृतीय पुण्यतिथि पर अशोक नगर स्थित कानपुर जर्नलिस्ट क्लब के हिन्दी पत्रकार भवन में सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए एक पत्रकार को त्रिवेदी पत्रकार रत्न से सम्मानित किया गया एवं सैकड़ों पत्रकारों, राजनीतिज्ञों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों व उद्यमियों ने स्वर्गीय सुरेश जी की निष्पक्ष व निडर पत्रकारिता की जमकर तारीफ की। वक्ताओं ने कहा कि सुरेश जी की पत्रकारिता से नौजवान पत्रकारों को सीखना चाहिए। वह सभी के लिए नजीर पेश कर गए हैं। अशोक नगर स्थित कानपुर जर्नलिस्ट क्लब हिंदी पत्रकार भवन आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सुरेश जी के चाहने वालों का तांता लगा रहा।

सांसद रमेश अवस्थी ने उन्हें सच्चा व निडर पत्रकार बताते हुए उनके आदर्शों पर चलने की सलाह दी। महापौर प्रमिला पाण्डेय स्व सुरेश त्रिवेदी को निर्भीक, निडर, निष्पक्ष व बेबाक पत्रकार बताया, सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने उन्हें अपना पथ प्रदर्शक बताया। संघर्ष काल के अपने और उनके अनुभवों को अभय त्रिपाठी डॉ सपन गुप्ता, संजीव चौहान, डॉ हेमन्त मोहन, वैभव मिश्रा, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के श्याम शुक्ला, व्यापारी नेता संजय टंडन, चन्दन अवस्थी, संदीप पांडेय, पुष्पेन्द्र आदि ने साझा किया।

सिख समाज ने कि छह जून को राष्ट्रीय खेद और शर्म दिवस घोषित किए जाने की मांग

जन एक्सप्रेस । कानपुर नगर

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने नगर का दौरा किया और सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारी सहित गुरूद्वारे के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और कई कार्यों को लेकर दिशानिर्देश भी दिए । बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं चलाई जा रही है वो लोगों के पास पहुंच रही है कि नहीं इस पर विशेष चर्चा की गयी है। इसके साथ ही कानपुर के गुमटी गुरुद्वारा, चौंक गुरुद्वारा और सरसैया घाट गुरूद्वारा सहित अन्य गुरुद्वारों पर के आस पास कोई अतिक्रमण न हो साफ सफाई रोड का चौड़ीकरण आदि लॉ एंड आर्डर को लेकर नगर के अधिकारियों को निर्देशित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी ताजिया आदि जूलूस मे किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या न हो इसके लिए भी निर्देशित किया गया है। वक्फ बोर्ड की जमीनो पर हो रहे कब्जों को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा मामला प्रकाश में आएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी क्योंकि योगी सरकार में सभी को सामान रूप से देखा जाता है। कहा कि पीएम को उन्होंने पत्र लिखकर 6 जून को राष्ट्रीय खेद और शर्म दिवस घोषित किए जाने की मांग की है क्योंकि सिक्ख समाज का हमेशा से योगदान रहा है। कांग्रेस सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सिक्खों की दोषी समझती है जिसने सिक्ख समाज पर हमेशा अत्याचार किया गया जो सिक्ख समुदाय हमेशा याद रखेगी।

छह मोहर्रम को शान ओ शौकत से निकला रायनी बिरादरी का आलम

जन एक्सप्रेस । कानपुर नगर। शहर में बीते दिन शनिवार को छह मोहर्रम को इमाम हुसैन की शहादत की याद में रायनी बरादरी का आलम पूरी शान ओ शौकत के साथ निकल गया रैनी बिरादरी का आलम जुलूस लगभग 155 वर्षो से उठाया जा रहा है। रायनी बिरादरी का आलम जुलूस परेड सबसे बाजार से शुरू हुआ। यह जुलूस कुली बाजार से होता हुआ कोपरगंज चौराहा, बांस मंडी चौराहा, इफ्तिखार बाद से होता हुआ, दलेल पुरवा चौराहा, तिकुनिया पुरवा चौराहा, हलीम कॉलेज चौराहा, मोहम्मद अली पार्क से होता हुआ अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ रात में परेड पहुंच कर समाप्त हुआ। जुलूस में दर्जनों हरे,सफेद इस्लामी परचम झंडा भी थे ऊंट और घोड़े मोहर्रम रंगों से सजे हुए थे। जुलूस में इमाम हुसैन की याद में ताजिया भी थी। महिलाओं ने अपने घरों में ही आलम के दर्शन किए। अकीदतमंदो ने स्टेज लगाकर मुहर्रम का तबर्रुक (प्रसाद) का वितरण कर जुलूस का इस्तकबाल किया।

चिकित्सा शिविर मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन

जन एक्सप्रेस । कानपुर नगर

विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के केंद्रीय योजना के नेतृत्व में सेवा सप्ताह निःशुल्क चिकित्सा शिविर मेडिकल कैंप का शुभारंभ प्रांत मंत्री राजू पोरवाल द्वारा किया गया।

विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कानपुर दक्षिण समर्थ नगर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर चलाया गया।

जिसमे निःशुल्क परामर्श, जांच, दवाएं शुगर, बीपी, हीमोग्लोबिन, आई टेस्टिंग, और ई सी जी जांच नारायणा इंस्टिट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के माध्यम से किया गया।

जिसमे जिला अध्यक्ष संत सिंह, जिला सह मंत्री वैभव, विभाग सह संयोजक दिलीप बजरंगी, जिला सह संयोजक विशाल बजरंगी, जिला अखाड़ा प्रमुख विशेष बजरंगी, जिला सुरक्षा प्रमुख दीपक, नगर उपाध्यक्ष निखिल, नगर मंत्री गौरव, नगर संयोजक शिवा, नगर सह संयोजक अंकित मौके पर मौजूद रहे।

फास्ट फॉरवर्ड

नशेबाज दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट, लूट का आरोप

जन एक्सप्रेस । कानपुर नगर। चौबेपुर। चौबेपुर थाना क्षेत्र के तातियागंज कस्बे के रहने वाले युवक के साथ नशेबाज दबंग युवकों ने मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित युवक ने नशेबाज दबंग युवकों के खिलाफ चौबेपुर थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक तातियागंज का रहने वाला दीपक पुत्र राधेश्याम जिनकी हाल ही में शादी हुई है। शनिवार की शाम 5 बजे युवक दहेज में मिली मोटरसाइकिल से गांव के ही भट्ठे में हिसाब करने के लिए जा रहा था। कि तभी बंबे के पास नशे की हालत में बैठे विशाल व सूरज गाड़ी रोककर युवक से पैसे मांगने लगे जब युवक ने पैसे देने से इनकार किया तो उसके साथ मारपीट की। वही दीपक में खाने में दिए प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह आरोप लगाया है कि नशेबाज युवकों उसकी जेब में रखे हुए ?1500 के अलावा दो सोने की अंगूठी व एक सोने की चेन छीन ली। इतना ही नहीं युवक की मोटर साइकिल की चाभी भी तोड़ दी। फिलहाल युवक ने दोनों नशेबाज दबंग युवकों के खिलाफ चौबेपुर थाने में प्रार्थना पत्र दिया है।

तीन छात्रों का मैकडॉनल्ड्स में मैनेजमेन्ट ट्रेनी के पद पर हुआ चयन

जन एक्सप्रेस । कानपुर नगर। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के स्कूल आफ होटल मैनेजमेंट के चतुर्थ वर्ष के छात्र दीपक सिंह, देव खत्री एवं सुमित गिरी का चयन मैकडॉनल्ड्स में मैनेजमेन्ट ट्रेनी के पद पर हुआ है। जिसमे छात्र प्रियांशु वर्मा का चयन विदेश के प्रसिद्ध होटल ब्राण्ड फॉरेन क्रू में एफ एडं बी एक्सपर्ट के पद पर हुआ। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ.अनिल कुमार यादव ने छात्र-छात्राओ को बधाई दी। विभागाध्यक्ष ने बताया की संस्थान में वर्तमान में होटल मैनेजमेन्ट का बैचलर, मास्टर कार्स एवं 03 डिप्लोमा कोर्स चल रहे है। जिनमें कुछ सीटें रिक्त है एवं उन सीटों पर सीधे प्रवेश प्रकिया चल रही है। जिसमे छात्र-छात्राए समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश लेकर देश विदेश के प्रसिद्ध होटल में अपना भविष्य बना सकते। देश के प्रसिद्ध होटलों से विभाग के कई और छात्र एवं छात्रों को जॉब के ऑफर आ रहे है। उन्होंने बताया कि प्रवेश से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कानपुर विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेन्ट में सम्पर्क कर सकते है। देश के प्रसिद्ध होटलों से विभाग के कई और छात्र एवं छात्रों को जॉब के ऑफर आ रहे है। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष शिवांशु सचान एवं समस्त सहा.आचार्य, सौरभ त्रिपाठी, अरविन्द चौहान, ऐश्वर्या आर्या, अंकित कुमार ने चयनित हुए छात्र छात्राओं को शुभकामनाऐ दी।

कुंदौली गांव स्थित मंदिर के घंटे चोरी

जन एक्सप्रेस । कानपुर नगर। कुंदौली गांव के अंदर झारखंडेश्वर महाराज का मन्दिर है जिसमे सुबह साम गांव के लोग पूजा करने आते रहते हैं ।बीती शुक्रवार की शाम ग्रामीणों ने देखा कि सभी घण्टे व्यवस्थित रूप टंगे थे। शनिवार सुबह जब ग्रामीण पूजा करने पहुंचे तो मन्दिर के गर्भ ग्रह मे टंगे लगभग एक दर्जन घण्टा जिनका वजन लगभग चालीस किलो होगा अज्ञात चोर चुरा ले गए। ग्रामीणों ने आकर मन्दिर के सर्वराकार अंकित सिंह को बताया जिसके बाद अंकित ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के छह घंटे बाद तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी जिससे ग्रामीणों मे भारी आक्रोश था। साढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई है जांच कर कार्यवाही की जाएगी।

संदिग्ध परिस्थितियों मे युवक की मौत, पुलिस कर रही जांच

जन एक्सप्रेस । कानपुर नगर

फाइल फोटो मृतक

साढ़ थाना क्षेत्र के चिरला गांव निवासी नागेंद्र सिंह ने बताया कि उनका 27 वर्षीय राजा सिंह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। देर रात घर के अंदर आंगन में उनके बेटे का शव संदिध परिस्थितियो में पड़ा मिला है। परिजनो ने युवक का शव पड़ा देखा तो फोन कर घटना की सूचना साढ़ पुलिस को दी। जानकारी मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनो से घटना की जानकारी जुटाने के साथ फोरेंसिक टीम को जांच पड़ताल के लिए बुलाया हैं। पुलिस की जांच में सामने आया की युवक के खिलाफ साढ़ थाने में दो चोरी और एक मारपीट का मुकदमा दर्ज था।

पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल करने के साथ युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। साढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना की जांच पड़ताल की जा रही हैं।

फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटना की सूचना मिलते मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जांच पड़ताल की है। यहां पर फोरेंसिक टीम को युवक के चेहरे और नाक में चोंट के निशान मिले है। और युवक के शव के पास से फोरेंसिक टीम को कुछ नही मिला है। टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंपी है।

सुरेश त्रिवेदी की पुण्यतिथि पर पत्रकारों ने दी श्रद्धांजलि

- क्लब के महामंत्री शैलेश अवस्थी ने कहा कि अब पहले जैसी पत्रकारिता करने वाले पत्रकार नहीं दिखते

जन एक्सप्रेस । कानपुर नगर

नवीन मार्केट स्थित कानपुर प्रेस क्लब में वरिष्ठ पत्रकार स्व. सुरेश त्रिवेदी की पुण्यतिथि पर सभी ने प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की, इस दौरान कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरस बाजपेई ने बताया कि स्वःसुरेश त्रिवेदी ने हम लोगों के साथ मिलकर कई बड़ी खबरों को प्रकाशित किया है उनका व्यवहार बहुत ही हंसमुख था जिनको हम लोग आज भी याद करते हैं। कानपुर प्रेस क्लब के महामंत्री शैलेश अवस्थी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अब पहली जैसी पत्रकारिता करने वाले पत्रकार नहीं दिखते हैं। जो आज से एक समय पहले स्वःसुरेश त्रिवेदी ने अपनी कलम की स्याही से पत्रकारिता को अलग नाम दिया था। कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित ने बताया कि मैंने उनके कार्य व स्वभाव से मैं भलीभांति परिचित रहा हूं। उन्होंने हमेशा से ही खुश दिल व्यक्ति की तरह रहते हुए जीवन यापन किया है। श्रद्धांजलि सभा में कानपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष सरस बाजपेई, महामंत्री शैलेश अवस्थी, पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित, पूर्व महामंत्री कुशाग्र पांडेय, इखलाक अहमद, सतींद्र बाजपेई(चाचू), राहुल मिश्रा! कार्यकारिणी सदस्य कौस्तुभ शंकर मिश्रा, गगन पाठक, विवेक पांडेय, अंकित शुक्ला, दीपक सिंह, दिवस पाण्डेय, मयंक मिश्र, उत्सव शुक्ला, अमन चतुर्वेदी, मोहम्मद नौशाद, रोहित निगम और सदस्यों में सर्वेश शुक्ला, स्वप्निल तिवारी, अभिषेक कठेरिया, नीरज तिवारी, के.के साहू, विजय, रितेश कुमार, हैदर अली, दीपक कुमार आदि पत्रकार मौजूद रहे।

हृदय रोग, कैंसर और कोलेस्ट्रॉल के निर्माण के खिलाफ शक्तिशाली रक्षक है आम

जन एक्सप्रेस । कानपुर नगर

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर द्वारा ग्राम फंदा में ग्रामीण महिलाओं को आम की संरक्षित उत्पादों पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्र के प्रभारी डॉ.अजय कुमार सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर गृह वैज्ञानिक डॉ.निमिषा अवस्थी ने बताया कि भारतीय आम कई तरह के आकार और रंग में आते हैं और इनमें कई तरह के स्वाद, सुगंध होने के साथ भारतीय आम एक खास उत्पाद है जो उच्च गुणवत्ता और भरपूर पोषक तत्वों के मानकों को प्रमाणित करता है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश 25.76 फीसदी की हिस्सेदारी के साथ आम उत्पादन में पहले स्थान पर है और 2023-24 द्वितीय अग्रिम अनुमान में सबसे अधिक उत्पादकता है। उन्होंने बताया कि एक आम रोजाना की आहार फाइबर की ज़रूरतों का 40 प्रतिशत तक पूरा कर सकता है जो हृदय रोग, कैंसर और कोलेस्ट्रॉल के निर्माण के खिलाफ एक शक्तिशाली रक्षक है व यह फल पोटेशियम, बीटा-कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है। किंतु आम सिर्फ गर्मी का फल है, अतः साल भर इसका स्वाद चखने के लिए इसके संरक्षित उत्पाद बनाने की जरूरत है। इसी क्रम में आम के विभिन्न उत्पाद जैसे, हींग का आचार, आम की मीठी चटनी, आम सुगर कैंडी, व आम हाजमा गोलियां इत्यादि तैयार करवाये गये। प्रशिक्षण में ग्राम फंदा की 35 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आई सी ए आर अटारी द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना बना कर किसान एवं कृषक महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिये निर्देशित किया गया है जिसमें 100 दिन तक प्रति माह कम से कम 25 महिला/पुरुषों व 25 युवक युवतियों का प्रशिक्षण कराया जाना है। कार्यक्रम में शुभम यादव के साथ नीतू, दिव्या, मीनू, लौंगन देवी आदि मौजूद रहे।

फास्ट फॉरवर्ड

डीएम-एसपी ने बालेश्वर मंदिर और गेगासो घाट का किया निरीक्षण

जन एक्सप्रेस/रायबरेली। सावन मेले में आने वाली भीड़ की सुरक्षा और कावड़ यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार अग्रवाल के साथ बालेश्वर मंदिर और गेगासो घाट का निरीक्षण किया। यहां पर उन्होंने सावन मेले के अवसर पर आने वाली भीड़ की वजह से होने वाली अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि मंदिर की साफ सफाई समय से करा ली जाए साथ ही लोगों के जलपान की भी व्यवस्था कराई जाए। कावड़ यात्रियों की सुविधा के लिए उन्होंने निर्देश दिए कि जिन भी मार्गो को यात्रा के लिए चयनित किया गया है उनको गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। मार्गो में आने वाली नालियों की साफ-सफाई कर के कीटनाशक का छिड़काव भी करा दिया जाए।

थुलवासा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बालिकाओं के हित में चलाई जा रही योजनाओं दी गई जानकारी

जन एक्सप्रेस/रायबरेली महराजगंज। भारत सरकार द्वारा संकल्प - HEW के अंतर्गत 21 जून से 04 अक्टूबर 2024 तक 100 दिन का विशेष जागरूकता अभियान का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। '**100 Days Campaigns**' बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जिलाधिकारी हर्षिता माथुर, मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय व जिला प्रोबेशन अधिकारी जय पाल वर्मा के दिशा निर्देशानुसार थुलवासा गांव रायबरेली में बालिकाओं के हित में विभाग द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला जिसमे योजना की बढ़ाई गई धनराशि के बारे मे एवं स्पॉन्सरशिप योजना को विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही वन स्टाप सेंटर की कार्यप्रणाली एवं वहां प्राप्त होने वाली सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं के साथ हों रही यौन हिंसा से बचने व उनकी शिकायत करने, अपनी बात खुलकर रखने के बारे में जानकारी दी व साथ ही उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। आज वर्तमान समय में बच्चों के सर्वोत्तम विकास हेतु माता-पिता की भूमिका के बारे में चर्चा की गई व सरकार द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर 1098, 181, 1090, 112,1930, 108 ,102 की जानकारी भी प्रदान की गई साथ ही बाल विवाह की रोकथाम व बाल श्रम की रोकथाम व दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज लेना व देना दोनों अपराध है जिसके बारे में चर्चा की गई। इस मौके पर सखी वन स्टॉप सेंटर की काउन्सलर श्रद्धा सिंह केस वर्कर अर्चना सिन्हा परिवार परामर्श केंद्र से दीपिका रंजना आदि लोग उपस्थित रहे।

उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत से रायबरेली कांग्रेस ने खुशियां मनाई

जन एक्सप्रेस/रायबरेली। सात राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत के अवसर पर रायबरेली कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन में जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने मिठाई खिलाकर पटाखे दगाकर जश्न मनाया और एक दूसरे को दी बधाई कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने भी मुंह में मीठा कराते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत के बाद विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन की जीत ने यह बता दिया है कि जनता भाजपा की नफरत की राजनीति से उकता चुकी है मजबूत विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी ही जनता की पहली पसंद बनकर उभरी है सात राज्यों के उपचुनाव के परिणाम से यह साबित हो चुका है जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व संगठन प्रभारी विजय शंकर अग्निहोत्री ने कहा सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इंडिया गठबंधन की जीत पर बधाई देते हुए कहा इस जीत से जल्द होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा इंडिया गठबंधन और अधिक मजबूती से विधानसभा चुनाव को लड़ेगा और विजयी होगा। बताया कि कांग्रेस पार्टी की इस बड़ी जीत के अवसर पर कांग्रेस का कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर बधाई दी इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष वीके शुक्ला नगर पालिका के अध्यक्ष सत्रोहन सोनकर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सईदुल हसन, वरिष्ठ महामंत्री शशिकांत पांडे, राजकुमार दीक्षित, प्रमोद त्रिपाठी, रोहित सिंह, धीरज श्रीवास्तव, सूर्य कुमार बाजपेई, वीरेंद्र यादव, महताब आलम, सूर्यकुमार बाजपेई, मनोज मिश्रा, श्रीमती शैलजा सिंह, आयुष द्विवेदी, ललित तिवारी, अंकुर सिंह, दुर्गेश पांडे, रमाकांत त्रिपाठी सहित सभी पदाधिकारी मौजूद थे।

ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने बीज का नि:शुल्क मिनी किट वितरित किया

जन एक्सप्रेस/तारुन-अयोध्या। तारुन ब्लॉक सभागार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत निशुल्क बीज वितरण का आयोजन किया गया । इस दौरान क्षेत्र के दर्जनों किसानों ने गोदाम प्रभारी पर बीज वितरण को लेकर आरोप भी लगाए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर गोसाईगंज विधायक अभय सिंह के पिता भगवान बक्स सिंह और विशिष्ट अतीत के रूप में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि फियाराम वर्मा ने किसानों को बीज का नि:शुल्क मिनी किट वितरित किया। राजकीय कृषि बीज गोदाम प्रभारी कन्हैया लाल ने बताया कि किसानों को दलहन व श्री अन्न के उरद, मूंग, अरहर, ज्वार बाजरा के बीज बांटे गये। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार और कृषि गोदाम द्वारा बीज का नि:शुल्क मिनी किट समय से उपलब्ध कराये तो किसान इसका लाभ उठा सकें। इस समय बारिश का दौर शुरू हो गया है। इनकी बुवाई नाममात्र ही हो सकेगी। मुख्य अतिथि भगवान बक्स सिंह सिंह ने मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए इस दौरान कहां कि श्री अन्न की खेती करके किसान अधिक लाभ और स्वास्थ्य लाभ पा सकता है। स्वस्थ जीवन के लिये अधिक से अधिक खेती करने के लिए कृषि विभाग के कर्मचारी क्षेत्र के किसानों को प्रेरित करें। विशिष्ट अतिथि पाया राम वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि दलहन व श्री अन्न के उरद, मूंग, अरहर, ज्वार बाजरा बुआई कर किसान दलहन में आत्मनिर्भर बन सकता है। कार्यक्रम में जॉइंट बीडीओ उमेश कौशल, विनोद वर्मा, प्रेम प्रकाश, राम जीत, विजय वर्मा, सुभम कनौजिया सहित अनेक किसान व कर्मचारी मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कैबिनेट ने अयोध्या धाम में किए श्रीरामलला के दर्शन

✳ उपहार में शबरी माता की भूमि शिवरीनारायण से बेर व जल

जन एक्सप्रेस। अयोध्या धाम

पवित्र राम जन्मभूमि में श्री रामलला के दर्शन के लिए जैसे ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उनके कैबिनेट के सहयोगी पहुंचे। पूरे मंदिर परिसर में नारा गूंज उठा। छत्तीसगढ़ के भांजा राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरह पूरा परिसर राम भक्ति के माहौल में, ननिहाल से आए भक्तों की स्नेह सिक्त वाणी से गुंजायमान हो गया। जिस तरह माता शबरी की शिवरी नारायण में भगवान श्री राम के पुण्य दर्शन की इच्छा पूरी हुई थी। वही साध ननिहाल के हर राम भक्त को होती है। उसी तरह मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उनकी कैबिनेट की भी रामलला के दर्शन की इच्छा आज पूरी हो गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सहित उनके कैबिनेट के सदस्यों ने आज अयोध्या धाम पहुंचकर श्रीरामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर भाँजा राम के ननिहाल का उपहार भी प्रभु के चरणों में अर्पित किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ से शबरी माता की भूमि शिवरीनारायण से बेर तथा पवित्र जल, विष्णु भोग का चावल, अनारसा, करी लड्डू तथा कोसे के वस्त्र प्रभु को अर्पित किए। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर प्रभु श्री राम से छत्तीसगढ़ के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग पूरी कैबिनेट के साथ श्री रामलला के दर्शन के लिए आज अयोध्या धाम आए। भगवान श्रीराम हमारे छत्तीसगढ़ के भांजे हैं। भांचा राम के दर्शन के लिए हम लोग बहुत उत्सुक थे। भगवान श्रीराम के आशीर्वाद से वो शुभ घड़ी आ गई है जब हम लोगों को अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने अयोध्या धाम जाने का निर्णय लिया तो सोचा कि जब अपने भांजे के दर्शन के लिए जाएंगे तो उनके लिए ननिहाल की तरफ से क्या उपहार लेकर जाएं। फिर विचार आया कि इससे अच्छा उपहार भगवान श्रीराम के लिए क्या हो सकता है कि हम उस पवित्र भूमि शिवरीनारायण से बेर ले जाकर भगवान को भेंट करें, जहां के बेर खुद माता शबरी ने प्रभु श्रीराम को अपने हाथों से खिलाये थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन जूठे बेरों का स्मरण हमेशा के लिए लोक स्मृति में दर्ज हो गया है। माता शबरी की इस धरती से भगवान श्रीराम के लिए यह उपहार ले जाने का हमें सौभाग्य मिला इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ जनजातीय प्रदेश है। यहां माता शबरी और अनेक जनजातीय विभूतियों ने भगवान श्रीराम का स्वागत किया है। हमारी यह धरती धन्य है। यह अद्भुत संयोग है कि छत्तीसगढ़ भगवान श्रीराम का ननिहाल भी है और यह उनके वन गमन पथ का हिस्सा भी है। रामकथा से जुड़े विद्वान बताते हैं कि श्रीराम ने अपने वनवास के चौदह वर्षों में दस वर्ष यहीं गुजारे।

उन्होंने रामायण के प्रसंगों से भी अपनी बात बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामायण के प्रसंग जनजातीय लोगों से श्रीराम के अद्भुत स्नेह तथा प्रभु श्रीराम के जनजातीय लोगों से अपार प्रेम की कहानी कहते हैं।

उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि प्रदेश के मुखिया के रूप में अयोध्या पहुंच कर छत्तीसगढ़ के लोगों के अपने आराध्य के प्रति अगाध स्नेह और भक्ति व्यक्त करने का माध्यम बना हूँ।

रामलला के दर्शनों से अभिभूत मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीराम ने हमें रामराज्य का आदर्श दिया है। छत्तीसगढ़ में रामराज्य के आदर्श को लेकर हम चल रहे हैं। श्रीरामलला का दर्शन कर हमने प्रभु से अपने प्रदेश के सुख-समृद्धि की कामना की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या धाम श्रीरामलला दर्शन योजना के माध्यम से हमारे प्रदेश के बहुत से श्रद्धालु श्रीरामलला के दर्शन का पुण्य लाभ ले चुके हैं। उन सबसे श्रीरामलला के भव्य मंदिर और उनकी मंजुल मूर्ति की प्रशंसा सुनकर मन बहुत प्रसन्न होता था। आज हमें भी रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिल गया।

इंजीनियर अनुराग व नवीन की पीएचडी उपाधि हेतु मौखिकी परीक्षा सम्पन्न

जन एक्सप्रेस/अयोध्या। डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के आईईटी संस्थान के दो शिक्षकों की पी0एच0डी0 उपाधि के लिए मौखिकी परीक्षा संपन्न हुई। विश्वविद्यालय के अभियंत्रण इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियर अनुराग सिंह व इंजीनियर नवीन पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग की पी0एच0डी0 उपाधि हेतु पर्यावरण विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ0 विनोद कुमार चौधरी के निर्देशन में शोध कार्य पूर्ण किया। इंजीनियर अनुराग सिंह ने 'डिजाइन ऑफ सिस्टम टू इनकैपसिटेट माइक्रोआर्गेनिज्म फ्राम दी सरफेस ऑफ वेरियस आब्जेक्ट' विषय अपना शोध-प्रबन्ध जमा किया है। जोकि रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के सतह पर रहने वाले रोगाणुओं एवं उनकें हटाने के उपाय हेतु एक मशीन का विकास पर्यावरण विज्ञान विभाग की सरयू प्रयोगशाला में किया गया है। दूसरी ओर इंजीनियर नवीन पटेल ने 'डेवलपमेंट ऑफ बायो एडसॉर्वेंट फार दी एडॉप्शन ऑफ नाइट्रेट एण्ड फ्लुराइड फॉर्म वॉटर' विषय पर शोध-प्रबन्ध जमा किया है। इन्होंने शोध में पानी में पाए जाने वाले नाइट्रेट एवं फ्लुराइड को जैवीय पदार्थों के माध्यम से पानी से अलग करने की विधि पर कार्य किया है।

साधु भेष धारी भू-माफियाओं का आतंक

जन एक्सप्रेस। अयोध्या

अयोध्या धाम में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पीड़ित ओंकार नाथ तिवारी ने बताई आप बीती व शासन प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। उनके द्वारा दिए गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि ओंकार नाथ तिवारी पुत्र देवक राम तिवारी निवासी ग्राम मरेना पूरे प्रेम तिवारी, थाना-इनायतनगर, ने दन्त धावन कुण्ड में रामपथ के किनारे पूर्वी तरफ तिराहे पर एक दुकान किराये पर महन्थ कन्हैया दास से लेकर माह मार्च वर्ष 2021 से दुकान कर रहा हूँ, माह अप्रैल 2021 में कन्हैया दास की मृत्यु के बाद कन्हैया दास के सगे गुरुभाई रामानुज दास के कहने पर पवन दास को बराबर किराया दे रहा था कुछ समय पश्चात् पवन दास साजिश कर हमें जबरन विधि विरुद्ध प्रक्रिया अपनाकर दुकान से बेदखल करने का प्रयास करने लगे। मजबूरन पीड़ित ने न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन फैजाबाद के समक्ष मूलवाद संख्या-283 सन् 2022 प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायालय द्वारा पीड़ित के पक्ष में स्थगन आदेश पारित हुआ, जो वर्तमान में प्रभावी है 22 जुऊ 2024 को पेशी नियत है। पीड़ित दुकान का किराया रामानुजदास को देने लगा। रामानुजदास ने नई किरायेदारी भी पीड़ित के पक्ष में लिखा है। पवन दास ने हमें परेशान करने की नियत से हमारी किरायेदारी वाली दुकान को रजिस्टर्ड किरायेदारी मेसर्स श्री सुख सागर हास्पिटीलिटी सर्विसेज के पक्ष में 60 लाख रुपये लेकर लिख दिया है, जबकि पवन दास किरायेदारी वाले दुकान के भवन स्वामी नहीं है। पवन स्वामी रामानुज दास है, जिन्हें मैं प्रतिमाह किराया दे रहा हूँ। मेरी किरायेदारी वाली दुकान को जबरन गुण्डई के बल पर पवन दास व उनके गैंग के अन्य लोग कब्जा कर हमें बेदखल करना चाहते हैं और पूर्व में पवन दास द्वारा मुझे मेरे मोबाइल नं0-9452792687 पर 9336155686 से कॉल करके जान से मारने की धमकी भी दिया था। इस संबंध में शिकायती पत्र कोतवाली में दिया है। वहीं महंत रामानुज दास ने बताया कि मैं काफी वृद्ध हूँ। वर्ष 2021 जब तक बहराईच का रहने वाले पवन मिश्रा शिक्षण ग्रहण करने के लिये आया और स्थान पर रहने लगा। कुछ समय रहने पर वह मेरे स्थान की सम्पत्तियों की जानकारी अन्य लोगों से करने लगा। सम्पत्ति की लालच में योजनाबद्ध तरीके से माह अप्रैल, 2021 में मेरे सगे गुरुभाई कन्हैयादास की हत्या करा दिया और चुपके-चुपके स्थान की सम्पत्ति, जमीन अपने नाम कन्हैयादास का उत्तराधिकारी बनकर सरकारी अभिलेखों मे दर्ज कराने लगा। जनपद बाराबंकी की जमीन बेच कर अपनी जन्म भूमि जिला बहराईच में मकान बना लिया, हनुमानगढ़ी के पुजरपना में करीब 50-60 लाख रुपया मिला था, उससे शराब की दुकान लेकर कारोबार करने लगा। मेरे बार-बार पूछने पर कुछ भी नहीं बताया और स्थान की सम्पत्ति को लगातार नष्ट करता रहा।

पेट्रोल पंप पर तेल डालने के बाद लेनदेन में मारपीट, दो नामजद, छह पर केस दर्ज

जन एक्सप्रेस/रुदौली - अयोध्या। रुदौली कोतवाली क्षेत्र के रुदौली भेलसर मार्ग पर स्थिति पेट्रोल पंप पर तेल डालने पर बड़ा नोट देना बाइक चालक को महगा पड़ गया।वापसी में सिक्के दिए जाने पर नाराजगी जताने पर बाइक चालक की सेल्समैन ने पिटाई कर दी।कोतवाली रुदौली में बाइक चालक और सेल्समैन ने एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज कराया है।जानकारी के अनुसार शहर के बेगमबाग में स्थिति पेट्रोल पंप पर कोतवाली रुदौली के ग्राम जलालपुर निवासी शिव भवन यादव शुक्रवार की रात लगभग 8 बजे अपने आठ वर्षीय बेटे के साथ बाइक में तेल डलवाने के लिए सेल्समैन शादाब के नोजिल पर पहुंचे।50 रुपए का तेल डलवाने के बाद शिव भवन यादव ने पाच सौ रुपए का नोट दिया।सेल्समैन शादाब ने वापसी में कुछ नोट के साथ सिक्के वापस किया तो शिव भवन यादव ने लेने से इंकार किया।वापसी के सारे पैसे को नोट में मांगा।इसी बात पर शुरू हुई कहा सुनी मारपीट में बदल गई।यादव के मुताबिक सेल्स मैन ने वापसी के रुपए नही दिए।वही सेल्स मैन शादाब के मुताबिक सिक्का और नोट वापस करने पर सिक्का वापस लेने से इंकार किया।

भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ ने पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक ओमकार राणा की विदाई समारोह आयोजित किया

जन एक्सप्रेस। रायबरेली

भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ रायबरेली के जिला संयोजक दिलीप द्विवेदी के नेतृत्व में जनपद रायबरेली के पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक ओमकार राणा का विदाई समारोह बीबी ओम रेस्टोरेंट में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला संयोजक दिलीप द्विवेदी द्वारा पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक ओमकार राणा को बुके देकर,माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक का माल्यार्पण किया। इस अवसर पर जिला सहसंयोजक नागेंद्र बहादुर सिंह, जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर कमलाकांत, सुनील द्विवेदी, जिला संयोजक उच्च शिक्षा महासभा डॉक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह अजय अवस्थी, प्रबंधक विजय कुवर चौधरी प्रधानाचार्य शैवेन्द्र भूषण, प्रधानाचार्य राजेश यादव, प्रधानाचार्य श्याम नारायण सिंह, प्रवक्ता संतोष मिश्रा,अनिल कुमार वर्मा, रतन सिंह, चंद्रधर शर्मा, सतीश चंद्र गुप्ता, कुलदीप, सन्तोष, साहुल कुमार, अंकुश एवं अन्य शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला संयोजक एवं कार्यक्रम संयोजक दिलीप द्विवेदी ने पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक ओमकार राणा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके कार्य एवं व्यवहार कि सराहना की। अपने सम्मान एवं स्वागत से अविभूत होकर पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक ओमकार राणा ने सभी का आभार व्यक्त किया। उक्त कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कमलाकांत ने किया।

विधायक ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री

जन एक्सप्रेस। रुदौली- अयोध्या

रुदौली तहसील क्षेत्र में घाघरा नदी के उफनाने के बाद बाढ़ की विभीषिका से लड़ रहे बाढ़ प्रभावितों को भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने राहत सामग्री वितरित की।

बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। विधायक ने उप जिलाधिकारी प्रवीण कुमार यादव, तहसीलदार राजेश कुमार वर्मा की मौजूदगी में बाढ़ से पीड़ित 100 लोगों को बांटी राहत सामग्री रूदौली के तराई क्षेत्र ,कैथी मांझा,गांव के लोगों को राशन किट बांटी गई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के आवारा जानवरों को पकड़ कर गौशाला भेजवाया जा रहा है विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि योगी सरकार लगातार बाढ़ क्षेत्रों पर नजर रखे है। हर जिले से रोज रिपोर्ट मांगी जा रही हैं। किसी भी समस्या के लिए सीधे दूरभाष पर सूचित करने को कहा और उन्होंने कहा कि आप लोग घबराएं नहीं, योगी सरकार आपके साथ है। हर संभव आप लोगों की मदद की जाएगी।

सर्प दंश से महिला की मौत

जन एक्सप्रेस/रुदौली - अयोध्या। थाना बाबा बाजार के ग्राम पूरेमुराई मजरे पारा पहाड़ पुर में धान के बेरन की खुदाई कर रही महिला की सर्पदंश से मौत हो गई। महिला के शव का पंचायत नामा भरकर पीएम को भेजा है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पूरे मुराई की सुनीता शुक्रवार को खेत मे धान की बेरन खुदाई कर रही थी।बेरन की खुदाई के दौरान उसकी उंगली में सांप ने काट लिया।सांप के काटते ही परिजनों ने सुनीता को आनन-फानन में सीएचसी रुदौली लेकर पहुंचे।सुनीता को देखते ही चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।सर्प दंश से हुई महिला की मौत की सूचना मिलते ही सीएचसी पहुंची रुदौली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पीएम के लिए भेज दिया।सूचना मिलने पर विधायक राम चंद्र यादव ने घर पहुंच कर शोक जताया।

थाना समाधान दिवस के दौरान डीएम व एसपी ने सुनी जन समस्याएं

जन एक्सप्रेस। अमेठी

जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से शनिवार को माह के द्वितीय शनिवार को जनपद के सभी थानों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया।जिलाधिकारी निशा अनंत व पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने जायस थाने में आयोजित थाना समाधान दिवस में पहुंचकर जन समस्याओं को सुना। और उनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद सभी लेखपालों से उनके क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली।तथा कहा कि जो भी शिकायतें हैं,उनका जल्द से जल्द निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने सभी लेखपालों तथा कानूनगो को निर्देशित किया कि उनके क्षेत्रों में जो भी समस्याएं हैं,चाहे भूमि विवाद से संबंधित हो तथा नाली,चकमार्ग पर कब्जे,सरकारी भूमि पर कब्जे, तालाबों पर कब्जे,अवैध अतिक्रमण इत्यादि से संबंधित शिकायतें हो उनको तत्काल संज्ञान में लेकर निस्तारण कराया जाए।जहां पर पुलिस बल की आवश्यकता हो वहां पर संबंधित थाने से संपर्क कर पुलिस टीम के साथ मौके पर जाकर शिकायत का निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी लेखपाल तथा कानूनगो के क्षेत्र में कोई भी शिकायत लंबित पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का किया गया गठन

जन एक्सप्रेस। गौरीगंज, अमेठी

प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ अमेठी धीरेंद्र प्रताप सिंह के संयोजकत्व में शनिवार को जे एस रेजीडेंसी गौरीगंज में समस्त संगठनों की बैठक बुलाई गई। जिसमें चौदह संगठनों के जिलाध्यक्ष, महामंत्री, प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। बैठक में धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने संयुक्त मोर्चा गठन के उद्देश्य, कार्य एवं अग्रिम रणनीति पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं, ऑन लाइन उपस्थिति एवं मूलभूत समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए बताया कि सभी संगठनों के आवाहन पर शिक्षकों की मूलभूत समस्याओं के निस्तारण तक आनलाइन उपस्थिति का सामूहिक बहिष्कार जारी रहेगा। आन्दोलन व संघर्ष के क्रम में पन्द्रह जुलाई को शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मुख्यमंत्री को सम्बोधित मांग पत्र, ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

16 जुलाई से 28 जुलाई तक सभी विधायकों व सांसद को मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा जाएगा। 29 जुलाई को निशात गंज लखनऊ में शिक्षा भवन पहुंचकर महानिदेशक कार्यालय का घेराव किया जायेगा।अरविन्द तिवारी जिलाध्यक्ष ने शिक्षकों की एकता पर जोर दिया। महेन्द्र प्रताप मिश्र जिलाध्यक्ष ने कहा हम सभी की एकता से ही सभी मांगे पूर्ण होंगी।

अश्वनी द्विवेदी ने कहा जनपद के शेष सभी संकुल शिक्षक त्याग पत्र देंगे। श्रीराम सोनी महामंत्री ने सभी संगठनों से पन्द्रह जुलाई को ज्ञापन कार्यक्रम में अधिक से अधिक शिक्षकों को लाने का अनुरोध किया।

समाधान दिवस पर दो शिकायत का निस्तारण

जन एक्सप्रेस/हैदरगंज-अयोध्या। हैदरगंज थाना समाधान दिवस में 12 शिकायतों में दो शिकायतों सहित तहसील दिवस के चार शिकायतों का निस्तारण पुलिस और राजस्व विभाग द्वारा किया गया। शनिवार को हैदरगंज थाने में लगे थाना समाधान दिवस में प्रभारी निरीक्षक मोहम्मद अरशद और नायब तहसीलदार बीकापुर ने आई हुई जनता की शिकायतों को सुना। इस दौरान 12 शिकायतकर्ताओं ने समाधान दिवस के दौरान शिकायत किया, जिसमें मौके पर दो समस्याओं का समाधान तत्काल कर दिया गया। वही तहसील दिवस की चार शिकायतों का भी इस दौरान समाधान किया गया है। थाना समाधान दिवस में गौहानी खुर्द निवासिनी बिट्टन जमीनी विवाद का निस्तारण, बेलारामबाग निवासिनी उषा और संगीता के जमीनी विवाद का निस्तारण, भोपा डुहिया निवासी सुनीता और दुर्गेश यादव के जमीनी विवाद का निस्तारण आदि मामलों का निस्तारण पुलिस और राजस्व विभाग की टीम द्वारा मौके पर कर दिया गया।

बीस जुलाई को जनपद में होगा वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम

जन एक्सप्रेस। अमेठी

÷एक पेड़ मां के नाम÷पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान के अंतर्गत शनिवार को मुसाफिरखाना रेंज में छात्र-छात्राओं द्वारा पौधों की बारात निकालकर जन सामान्य को इस वर्षा काल में अधिक से अधिक पेड़ लगाने तथा उनका संरक्षण करने एवं पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय वनाधिकारी मुसाफिरखाना संजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा छात्र-छात्राओं को पौधों का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि इस वर्षा काल में एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। और अपने अभिभावकों व अपने आसपास के लोगों को भी एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए जागरूक करें।साथ ही उसकी देखभाल भी करें। इस अवसर पर नारा अढ़नपुर के ग्राम प्रधान,स्थानीय शिक्षकगण, जन सामान्य तथा वन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। बताते चलें कि शासन के निर्देशानुसार जनपद में बीस जुलाई को वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित होगा। जिसके लिए जन सामान्य को इस वर्षा काल में अधिक से अधिक पौधों को लगाने तथा उनकी देखभाल करने के संबंध में जन जागरूकता हेतु शनिवार को छात्र-छात्राओं द्वारा पौधों की बारात निकाली गई।इस वर्षाकाल में जनपद में कुल 4665507 पौधों को रोपित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें वन विभाग को 2190605, पर्यावरण विभाग को 305000, ग्राम विकास विभाग को 1266000, राजस्व विभाग को 105000, पंचायती राज विभाग को 128000, उद्योग विभाग को 20000, नगर विकास विभाग को 17000, सिंचाई व नलकूप विभाग को 32000, कृषि विभाग को 288867, रक्षा विभाग को 40000, पशुपालन विभाग को 9000, विद्युत विभाग को 6720, बेसिक शिक्षा विभाग को 27496, माध्यमिक शिक्षा विभाग को 12194, उच्च शिक्षा विभाग को 19452, प्राविधिक शिक्षा विभाग को 6372, श्रमविभाग को 2000 स्वास्थ्य विभाग को 14000, परिवहन विभाग को 900, उद्यान विभाग को 155000 तथा पुलिस विभाग को 7200 पौधों को रोपित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

अपने-अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार विभागों द्वारा पौधशालाओं से पौधों की उठान का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस वृहद वृक्षारोपण अभियान में जनप्रतिनिधियों के साथ ही जन सामान्य की भी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं।

janexpressnews janexpresslive janexpresslive

लखनऊ एक्सप्रेस

तापमान

	अधिकतम	न्यूनतम
लखनऊ	34°C	38°C
कानपुर	34°C	38°C
देहरादून	32°C	26°C
नई दिल्ली	36°C	29°C

www.janexpresslive.com/epaper | हिंदी दैनिक, जन एक्सप्रेस । | लखनऊ । रविवार । 14 जुलाई 2024

सीएम सख्त : डग्गामार और बिना परमिट के चलती मिलीं बसें तो नपेंगे बड़े अफसर

- डग्गामार और बिना परमिट बसों के खिलाफ प्रदेश में बड़ा अभियान चलाने के निर्देश
- मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को दी स्पष्ट चेतावनी
- कहा, डग्गामार और बिना परमिट वाले वाहनों को सड़क पर आने से पहले ही रोकें
- यात्री बसों और स्कूल बसों का परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस और ड्राइवरों की जांच हो
- सीएम के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने शुरू किया चेकिंग अभियान

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

डग्गामार वाहनों को सड़क पर आने से पहले ही रोकें

मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव परिवहन को निर्देशित करते हुए कहा कि आखिर डग्गामार और बिना परमिट वाली बसें सड़कों पर कैसे बेरोकटोक घूम रही हैं। ऐसी बसों के खिलाफ पूरी सख्ती के साथ अभियान चलाएं और इनके मालिकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने स्पष्ट तौर पर निर्देशित करते हुए कहा है कि जहां भी इस प्रकार की बसों का संचालन हो रहा है, वहां के परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में पंजीकृत सभी यात्री बस और स्कूल बसों के फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस और ड्राइवरों की जांच की जाए। इसके बाद कहीं भी कोई अप्रिय घटना हुई तो सीधे सीधे परिवहन विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। कहा कि डग्गामार और बिना परमिट वाले वाहन किसी भी दशा में सड़क पर न उतरने पाए। उन्होंने कहा कि डग्गामार और बिना परमिट वाली बसों को सड़क पर आने से पहले ही रोकना होगा।

एक माह तक चलेगा सघन अभियान

मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद परिवहन विभाग के आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने प्रदेश के सभी उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) को निर्देश दिए हैं कि एक माह तक अनवरत रूप से सड़क अभियान चलाया जाए। इस दौरान यात्री बसों के साथ ही स्कूली वाहनों की भी चेकिंग की जाए। उन्होंने इसके लिए प्रदेश के विभिन्न टोल प्लाजा पर संभागीय परिवहन अधिकारियों की तिथिवार ड्यूटी लगा दी है। साथ ही निर्देश दिये हैं निर्धारित तिथियों में प्रत्येक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) सम्बन्धित टोल प्लाजा पर स्वयं उपस्थित होकर सम्भाग के समस्त प्रवर्तन अधिकारियों के साथ इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करेंगे। चिन्हित स्थानों पर एक-एक इण्टरसेप्टर तैनात की जाएगी। इस दौरान की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी और फोटो विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित की जाएगी।

उन्नाव बस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार किया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों को सीएम योगी ने दो टूक निर्देश दिये हैं कि भविष्य में प्रदेश की सड़कों पर डग्गामार या बिना परमिट कोई बस चलती मिली तो संबंधित अधिकारियों की खैर नहीं। अपने सरकारी आवास पर एक अति महत्वपूर्ण बैठक के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों को सीएम ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में चल रही सभी यात्री बसों और स्कूल बसों का परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस और ड्राइवरों की गहनता से जांच की जाए। वहीं मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में एक माह तक डग्गामार और बिना परमिट वाले वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान के निर्देश जारी कर दिये हैं।

धार्मिक स्थलों के निर्माण में भ्रष्टाचार, 15 साल पुरानी ईंटों से हुआ निर्माण कार्य

- मानक विहीन घटिया सामग्री से कराया बाउंड्रीवॉल का निर्माण, छूट रहा दिवाल का प्लास्टर

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

राजधानी लखनऊ के महोना नगर पंचायत में बाबा गंगा गिरी का धार्मिक स्थल है। इस धार्मिक स्थल पर निर्माण कार्य करवाया गया है। लेकिन इस निर्माण कार्य में लगभग 15 साल पुराने ईटो का प्रयोग किया है। वहीं रतन नाम के ईट का प्रयोग बाउंड्री वॉल बनाने में किया गया है जो की बरसात के कारण गिर गई, रतन ईट भट्ठा 15 साल पहले बंद हो चुका है, तो इतनी साल पुरानी ईट एक नए निर्माण में लगने से प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और जिससे निर्माण वाले स्थान पर जो बाउंड्रीवाल है वो धाराशाही ?हो गया है। जिससे जिम्मेदारो की पोल खुल गई है। दरअसल ये स्थान यहां का रामनलीला मैदान है और इसी मैदान में जो निर्माण कार्य करवाया गया था वो यहां का रावण चबूतरा है और यही से रामलीला का मंचन किया जाएगा। लेकिन चबूतरा बनने के बाद ही धराशाही हो गया है। जिससे यहां के अधिकारी और ठेकेदार सरकार को बदनाम करने में काई कसर नही छोड़ने की ठान चुके है। वहीं वहा पर बनी बाउंड्रीवॉल का प्लास्टर हाथ लागते छूट रहा है। इस काम को करने वालों ने भ्रष्टाचार की सारी हद व पराकाष्ठा को पार कर दिया हैं जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धार्मिक स्थलों एवं मंदिरों में निष्पक्ष एवं ईमानदारी से पूरा काम करने के आदेश दे रहे हैं वहीं अधिकारी एवं जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस आदेश को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां बने टीन सेट बनाने में भ्रष्टाचार किया गया है। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि जिम्मेदार अधिकारी इस पर कार्यवाही करें और इस स्थल को सही से सुंदरीकरण कर बनाया जाएं क्योंकि यह एक धार्मिक स्थल हैं हर साल धार्मिक कार्यक्रम यहां होते रहते हैं।

फास्ट फॉरवर्ड

कल से चलेगा 'हर घर स्वच्छता, हर घर हरियाली' अभियान

जन एक्सप्रेस/लखनऊ। प्रदेश में होम कम्पोस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए 15 जुलाई से 15 सितम्बर तक 02 माह का हर घर स्वच्छता, हर घर हरियाली अभियान चलाया जायेगा। निदेशक नगरीय निकाय एवं स्वच्छ भारत मिशन नगरीय अनुज कुमार झा ने इस संबंध में सभी नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जनपदों,निकायों में 15 जुलाई से 15 सितम्बर तक 75,000 होम कम्पोस्टिंग के लिए घरों का चयन कर इन घरों में वेट वेस्ट का स्वत: निस्तारण करने के साथ पौधरोपण को भी बढ़ावा दिया जाएगा।इस दौरान प्रत्येक जनपद में 1000 नागरिकों को चयनित कर होम कम्पोस्टिंग के लिए प्रेरित किया जायेगा, इससे घरों में बाग, टेरिस गार्डन व बॉलकनी गार्डन के साथ हर घर में स्वच्छता हरियाली को बढावा दिया जायेगा।अभियान के दौरान प्रत्येक घर को चिन्हित् कर 02 माह की समयावधि में वेट वेस्ट से कम्पोस्ट तैयार कर, कम्पोस्ट से पौधारोपण व वेजिटेबल फार्मिंग को बढावा दिया जाना है। प्रत्येक घर में न्यूनतम 01 सब्जी उगाये जाने व स्रोत पृथक्कीकरण हेतु नागरिकों को जागरुक किया जायेगा। निदेशक अनुज कुमार झा ने बताया कि प्रदेश में 15 जुलाई से शुरू होने वाले हर घर स्वच्छता, हर घर हरियाली अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों की निकायों में 75,000 होम कम्पोस्टिंग के लिए जनपदवार 1000 नागरिकों को चिन्हित् किया जायेगा, जो होम कम्पोस्टिंग द्वारा घरों के बाग, टेरिस गार्डन व बॉलकनी गार्डन आदि से हर घर में स्वच्छता एवं हरियाली को बढावा देंगे।प्रत्येक घर को चिन्हित् कर 02 माह की अवधि में कम्पोस्ट तैयार कर, कम्पोस्ट से पौधारोपण व वेजिटेबल फार्मिंग को बढावा दिया जायेगा। प्रत्येक जनपद में 1000 घरों में 02 माह तक कार्य का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाएगा। प्रत्येक घर में न्यूनतम 01 सब्जी उगाये जाने हेतु नागरिकों को जागरुक किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय द्वारा चलाये जा रहे हर घर स्वच्छता, हर घर हरियाली कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी नागरिकों को स्रोत पृथक्कीकरण के लिए भी जागरूक किया जाएगा। हर घर स्वच्छता, हर घर हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत 02 माह की अवधि पूर्ण होने पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा जिसमें टॉप 1000 नागरिकों को 1000 रूपये मूल्य के, टॉप 100 नागरिकों को 2000 रुपये मूल्य के, टॉप 10 नागरिकों को 3000 रूपये मूल्य के तथा टॉप 03 नागरिकों को 5000 रुपये मूल्य की वस्तु नागरिक उपहार स्वरुप भेंट की जाएगी।

इटौंजा थाना समाधान दिवस पर एसडीएम ने सुनी फरियादियों की फरियाद

- इटौंजा में 11 शिकायतों में महज़ 1 का निस्तारण,बीकेटी थाना समाधान दिवस पर हुई एक शिकायत
- महिगवां थाना समाधान दिवस पर तीन शिकायतों का मौके पर निस्तारण

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

लखनऊ कमिश्नरेट उत्तरी जोन के इटौंजा, महिगवां, बीकेटी थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें इटौंजा थाना समाधान दिवस पर थाना प्रभारी निरीक्षक मार्कंडण्य यादव ने फरियादियों की फ़रियाद सुनीं और जनता ने अपना शिकायती पत्र देकर अपनी समस्या अधिकारियों को बताई। बता दें कि इटौंजा थाना समाधान दिवस में फरियादियों ने 11 शिकायतें की, जिसमें से 1 शिकायत का मौके पर निस्तारण किया गया। इटौंजा थाना समाधान दिवस पर एसडीएम बीकेटी सतीश चन्द्र त्रिपाठी पहुंचे उन्होंने फरियादियों की फ़रियाद सुनीं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। महिगवां थाना पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें महिगवां थाना प्रभारी शिवमंगल सिंह ने थाने पर आये फरियादियों की फरियाद सुनीं, जिसमें तीन शिकायती पत्र पुलिस को प्राप्त हुए जिसमें से दो शिकायतें राजस्व संबंधित व एक पुलिस संबंधित हुई, वहीं शिव मंगल सिंह थाना प्रभारी महिगवां ने बताया कि तीनों शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। वहीं बीकेटी थाना पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें एक शिकायत पत्र पुलिस को प्राप्त हुआ। वही बीकेटी थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है जोकि राजस्व संबंधित है दो भाइयों की जमीन का आपस में बंटवारे का मामला था।

मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण की उत्तरी एवं दक्षिणी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन संपन्न

- न्यायाधिकरणों द्वारा लगभग 200 से अधिक वादो का किया गया निस्तारण

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

शनिवार को आयोजित लोक अदालत हेतु विगत डेढ़ महीने से बीमा कंपनियां प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स के माध्यम से लगातार तैयारी कर रही थी। मोती महल परिसर में स्थित न्यायालय में आज जहां सभी बीमा कंपनियों के लीगल मैनेजर और डिवीजनल मैनेजर उपस्थित हुए वहीं चोलामंडलम एम. एस कंपनी के नेशनल हेड सुबैया एम. अपने जोनल मैनेजर प्रफुल के साथ स्वयं लोक अदालत में उपस्थित नजर आये तथा लगभग एक करोड़ रुपए की राशि प्रतिकर वादों के निस्तारण हेतु निर्गत की। उल्लेखनीय है कि बीमा जगत के विख्यात अधिवक्ता विक्रम सोनी द्वारा कई बीमा कम्पनियों की ओर से सर्वाधिक वादों का निस्तारण कराया गया। मुख्य रूप से चोलामण्डलग एम-एस, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेस, फ्युचर जनरल इंश्योरेंस, भारती ऐक्सा जनरल इंश्योरेंस, ओरिएंटल, श्रीराम, मैग्मा जिसमें लगभग एक करोड इकसठ लाख रुपये की धनराशि प्रतिकर के रूप में दिलवाकार वादकारियों का न्याय के प्रति विश्वास और मजबूत किया। शीघ्र एवं उचित प्रतिकर मिलने पर वादकारियों को जहाँ बेहद खुशी थी वहीं मुकदमों के निस्तारण होने पर बीमा कम्पनियों तथा न्यायालयों का भी बढ़ता बोझ कुछ कम हुआ।

जानकी प्रसाद को जद यू की बस्ती और शशिकांत को मुरादाबाद की कमान

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत एवं सक्रिय करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल द्वारा जिला इकाई एवं प्रदेश इकाई के गठन का कार्य शुरू करने के क्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने बस्ती निवासी जानकी प्रसाद राव को जनता दल यूनाइटेड बस्ती का जिला अध्यक्ष तथा मुरादाबाद निवासी शशि कान्त राही को जनता दल यूनाइटेड मुरादाबाद का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने आशा व्यक्त किया है कि यह लोग पार्टी प्रदेश संगठन को अपने अपने जनपद में मजबूत एवं सक्रिय करने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे और इनका मनोनयन होने से प्रदेश में पार्टी का जनाधार बढ़ेगा और पार्टी के प्रदेश संगठन को सुचारु रूप से संचालित करने में सहूलियत मिलेगी। इनका मनोनयन होने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता मानेन्द्र सिंह, डॉ भरत गंगवार, अवधेश सिंह, संजय सिंह पटेल, प्रशांत सिंह,आनन्द कुमार सिंह,पूनम सिंह, ममता सिंह, शैलेन्द्र वर्मा, सुभाष पाठक, भैया हरिशंकर पटेल,डिएम सिंह गहरवार,देव कुमार साकेत,पटेल अभिषेक चौधरी,संजय कुमार सिंह, दिवाकर सिंह, ओम प्रकाश वर्मा, जितेन्द्र सिंह सहित सैकड़ों लोगों ने बधाई दी है।

अब यूपी के गांव-गांव में 24 घंटे पानी आपूर्ति की तैयारी

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

देश के सबसे बड़े राज्य में जल जीवन मिशन के तहत सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाले उत्तर प्रदेश के गांवों में अब 24 घंटे पानी आपूर्ति की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसके पहले चरण में राजधानी लखनऊ के कई गांवों में ट्रायल रन शुरू किया गया है। जैसे-जैसे यह योजना सफल होती जाएगी, वैसे-वैसे दूसरे चरण में नल से जल के जरिये इसे अन्य जनपदों के गांवों में भी शुरू किया जाएगा। योगी सरकार इसके जरिए यूपी में एक और मिसाल पेश करने जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। फिलहाल विंध्य-बुंदेलखंड में फिलहाल सुबह-शाम ही आपूर्ति चलती रहेगी। ग्रामीणों को 24 घंटे जलापूर्ति की उपलब्धि को काफी बड़े तौर पर देखा जा रहा है।

इन स्थानों पर पानी आने को लेकर ट्रायल रन शुरू

ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे जलापूर्ति को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। पहले चरण में फिलहाल लखनऊ व आसपास की चार तहसीलों के कुछ गांवों में ट्रॉयल शुरू किया गया है। यहां सफल होने के पश्चात इसे सूबे के कई जनपदों में शुरू किया जाना है। फिलहाल लखनऊ के समीप मोहनलालगंज तहसील के उदयपुर, भावाखेड़ा, कुबहरा, कुढ़ा, दहियर गांव, मॉल ब्लॉक के शंकरपुर, पाराभदराही गांव, मलिहाबाद तहसील के खड़ता, शेरपुर भौसा गांव और सरोजिनी नगर तहसील के गोदौली गांव में इसे ट्रायल रन के तौर पर शुरू किया गया है।

ट्रायल रन के दौरान किया जा रहा जागरूक, इन पर रखी जा रही नजर

जल जीवन मिशन के तहत 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ट्रायल रन शुरू किया गया है। इसके जरिए कई चीजों पर नजर रखने के साथ ग्रामीणों को जागरूक भी किया जा रहा है। जहां सोलर पैनल के जरिए पानी आपूर्ति की जा रही है, फिलहाल ट्रायल रन पहले वहीं शुरू किया गया है। ट्रायल रन में नजर रखी जा रही है कि गांवों में एक भी टैब बिना टोटी का न हो (यानी खराब-टूटी टोटी न हो, जिससे पानी बहता रहे)। कहीं भी पाइप लाइन या नल से लीकेज न हो, जिससे पानी की बर्बादी न हो। जल समितियों, एफटीके महिलाओं व एनजीओ के माध्यम से पानी बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसमें प्रधान, जल समिति के सदस्य आदि की प्रमुख भूमिका है। आमजन को बताया जा रहा कि 24 घंटे मिलने वाले शुद्ध पेयजल का इस्तेमाल अन्य कार्यों में न किया जाए।

पानी स्टोरेज की समस्या से मिलेगी निजात

फिलवक्त कई ग्रामीण इलाकों में सुबह और शाम दो-दो घंटे की पानी की आपूर्ति होती है। इससे लोगों को पानी स्टोरेज करना पड़ता था। ऐसे में कई बार ऐसा होता था कि शाम तक पानी फिर आने पर स्टोरेज पानी लोग बहा देते थे, जिससे पानी की बर्बादी होती थी। अब 24 घंटे पानी आने से स्टोरेज की समस्या का समाधान होगा। आमजन जब भी नल खोलेंगे, तब पानी आएगा। लोगों को ताजा व साफ पानी मिलेगा।

300 हेरिटेज मास्ट व 1500 स्मार्ट सोलर लाइटिंग सिस्टम से दमक उठेगा प्रदेश

- उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के विजन के अनुसार सोलर लाइट्स से विभिन्न शहरों को रोशन करने की प्रक्रिया को मिली गति
- यूपीनेडा ने शुरू की प्रक्रिया, हेरिटेज मास्ट लाइटिंग को 7.92 करोड़ जबकि स्मार्ट सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम को 39.45 करोड़ रुपए व्यय से किया जाएगा स्थापित
- प्रदेश के विभिन्न सरकारी दफ्तरों की उर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए 2 व 4 मेगावाट के ऑन ग्रिड हाइब्रिड सोलर रूफटॉप पावर प्लांट को किया जाएगा स्थापित
- सभी कार्यों को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी चुनने की प्रक्रिया हुई शुरू, कार्यावंटन के बाद 4 महीनों में निर्धारित कार्यों को किया जाएगा पूरा

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और विशेष रूप से सौर ऊर्जा के जरिए प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति करने की दिशा में योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। एक तरफ, प्रदेश के विभिन्न शहरों को सोलर सिटीज के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया निरंतर जारी है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में सौर ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं के प्रति आम लोगों में रुचि विकसित करने के लिए भी विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में, सीएम योगी के विजन अनुसार प्रदेश के विभिन्न शहरों के चिह्नित स्थानों को 300 हेरिटेज मास्ट सोलर लाइटिंग सिस्टम तथा 1500 स्मार्ट सोलर लाइटिंग से लैस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही, प्रदेश के विभिन्न सरकारी कार्यालयों को 2 मेगावाट व 4 मेगावाट के ऑन ग्रिड हाइब्रिड सोलर रूफटॉप पावर प्लांट से युक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय अभिकरण (यूपीनेडा) ने कॉन्ट्रैक्टर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करते हुए पात्र आवेदकों से आवेदन मांगे हैं।

कार्य आवंटन के बाद 4 महीने में कार्यों को किया जाएगा पूरा

यूपीनेडा द्वारा प्रदेश में हेरिटेज मास्ट व स्मार्ट सोलर लाइटिंग सिस्टम तथा 2 व 4 मेगावाट के ऑन ग्रिड हाइब्रिड सोलर रूफटॉप पावर प्लांट की सप्लाई, स्थापना, संचालन और मेंटिनेंस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन सभी उपकरणों को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी को कार्यावंटन के बाद 4 महीने की समयसीमा निर्धारित की गई है। इन सभी उपकरणों को कॉम्प्रिहेंसिव वॉरंटी युक्त किया जाएगा। इन उपकरणों की स्थापना व संचालन के बाद चयनित कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी को ही 5 वर्षों तक इनके संचालन व मेंटिनेंस संबंधी कार्यों को सुनिश्चित करना होगा। उल्लेखनीय है कि हेरिटेज मास्ट लाइटिंग को 7.92 करोड़ जबकि स्मार्ट सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम को 39.45 करोड़ रुपए व्यय से स्थापित किया जाएगा। वहीं, प्रदेश के विभिन्न सरकारी दफ्तरों की उर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए 2 व 4 मेगावाट के ऑन ग्रिड हाइब्रिड सोलर रूफटॉप पावर प्लांट को 35.57 करोड़ व 68.74 करोड़ के व्यय से पूरा किया जाएगा।

सोलर सिटीज समेत अन्य शहरों में विभिन्न स्थानों पर होगी स्थापना

यूपीनेडा की कार्ययोजना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के विभिन्न सोलर सिटीज समेत प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों को हेरिटेज मास्ट व स्मार्ट सोलर लाइटिंग सिस्टम से लैस करने की तैयारी की जा रही है उसमें इन शहरों के ज्यादा फुटफॉल रीजन पर मुख्यत: फोकस किया जा रहा है। इस क्रम में, विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, मुख्य सड़कों/चौराहों, पशु बाजारों, छोटे बाजारों (हाट) के साथ ही पंचायत घरों, सार्वजनिक पेयजल स्रोतों, क्रॉस रोड/रोड जंक्शनों, मेला मैदानों आदि पर इनकी स्थापना, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव किया जाएगा। प्रत्येक सोलर एलईडी हेरिटेज मास्ट लाइटिंग सिस्टम में 200 वॉट पावर के 4 युनिट्स के रूप में 800 वॉट पावर की कैपेसिटी होगी। इनकी बैटरी लीथियम फेरो फॉस्फेट बेस्ड होगी जो कि 12.8 वोल्ट आउटपुट पर कार्य करेगी। इस दौरान प्रत्येक हेरिटेज लाइट सिस्टम की ल्यूमेन एफिकेसी 135 ल्यूमेन प्रति वॉट रहेगी। वहीं, स्मार्ट स्ट्रीट सोलर लाइटिंग सिस्टम 6 मीटर के पोल पर इम्पैनल्ड होगा जो कि 140 ल्यूमेन प्रति वॉट होगी तथा सिस्टम वॉटेज 45 वॉट होगी। ये लाइटें 50 हजार घंटे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी युक्त होंगी।

कई खूबियों से लैस होगा वन ग्रिड हाइब्रिड सोलर रूफटॉप पावर प्लांट

प्रदेश के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में स्थापित किए जाने वाले 2 व 4 मेगावॉट ऑन ग्रिड हाइब्रिड रूफटॉप सिस्टम सोलर फोटो वोल्टिक प्रक्रिया (एसपीवी) से युक्त होकर कार्य करेगा। यह कई खूबियों से लैस होगा। यह पावर प्लांट को कई कंपोनेंट्स के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इनमें सोलर पीवी मॉड्यूल, हाइब्रिड इनवर्टर, माउंटिंग स्ट्रक्चर्स, जंक्शन बॉक्सेस, अर्थिंग व लाइटिंग प्रोटेक्शन, बैटरी, इंफ्रा व अल्ट्रा वॉयलेट रेज प्रोटेक्टेड पीवीसी केबल्स, पाइपस् व अन्य एक्सेसरीज तथा रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम मुख्य होंगे। उल्लेखनीय है कि ग्रिड से जुड़ी एसपीवी प्रणाली बैटरी बाय डायरेक्शनल होने के साथ ही आवश्यक विशेषताओं के साथ डिज़ाइन व इंपैनल की जाएगी।

जन एक्सप्रेस

सम्पादकीय

दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण जरूरी

कुछ साल पहले केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार गंभीर वायु प्रदुषण के चलते दिल्ली को स्वास्थ्य के हिसाब से 65वें स्थान पर बताया गया था। इस रिपोर्ट में यह दर्शाया गया था कि अब यह शहर रहने योग्य नहीं है। बहरहाल, स्वास्थ्य जैसे मामलों में लापरवाही करना या हल्के में लेना हमें ही नुकसान पहुंचाता है। हद तो यह है कि हम हाईटेक होने के चक्कर में अपने हेल्थ की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। इससे जीवन पर लगातार संकट बना हुआ है।

वायु प्रदूषण के संदर्भ में हाल ही में जारी आंकड़े देश में भयावह स्थिति की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। मौजूदा स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 100 में से लगभग 12 लोगों की मौत खराब हवा के कारण होती है। एक रिपोर्ट में दिल्ली को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया था। पूरे वर्ष यहां की हवा खराब रहती है। सर्दी में समस्या और बढ़ जाती है। इस मसले पर अदालत से लेकर संसद तक चिंता जताई जा चुकी है। फिर भी स्थिति में सुधार नहीं है। ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में किसी ने कोई काम नहीं किया। जैसे ही सर्दी बढ़ेगी सरकारें एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति शुरु कर देंगी। वाराणसी में भी वायु प्रदूषण से होने वाली मौत 10 प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा भी तमाम ऐसे इलाके हैं जहां वायु प्रदूषण मानव जीवन पर भारी पड़ रहा है। देश के स्वच्छ वायु मानदंड डब्ल्यूएचओ के 15 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के दिशा-निर्देश से चार गुना अधिक है। यह बेहद परेशान करने वाला आंकड़ा है। इसही वजह से वायु प्रदूषण के लिहाज से बेहतर माने जाने वाले शहरों में भी लोगों की जान जा रही है। मुंबई, कोलकाता बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में हवा अपेक्षाकृत साफ रहती है, लेकिन इन शहरों में भी प्रदूषण से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार हवा में पीएम 2.5 का स्तर डब्ल्यूएचओ के मानक से अधिक होने से यह नौबत आती है। अब तो मौसम के बदलते स्वरूप की वजह से ऐसी बीमारियां सामने आ रही हैं, जिनका नाम कभी सुना भी नहीं गया। साथ ही कम उम्र में मधुमेह, कैंसर व हार्ट अटैक जैसी बीमारियों ने हमें आईना दिखाना शुरू कर दिया है। आश्चर्य यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हम वैसे के वैसे हैं। सर्दियों के दिनों में कोर्ट भी दिल्ली को गैस चैम्बर तक घोषित कर देता है। पिछले कुछ वर्षों से दीपावली के बाद प्रदूषण बहुत परेशान करता है। आंखों में जलन होना, गले में खराश रहने के अलावा थोड़ी दूर का स्पष्ट दिखाई तक नहीं देता। बच्चों, बुजुर्गों व अस्थमा के मरीजों के लिए तो आफत आ जाती है। इस खतरनाक प्रदूषण की वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ता है। हद यह है कि व्यवस्था तंत्र प्रणाली को भलि-भांति पता है कि लोगों का जीवन प्रदूषण की वजह से खत्म होता जा रहा है, लेकिन उनकी सक्रियता व गंभीरता का धरातल पर कोई असर न दिखना मानव जीवन को खत्म कर रहा है और इसके अलावा हम आने वाली पीढ़ी को अपने हाथों से मारने जैसा काम कर रहे हैं। प्रदूषण के मुद्दे पर सबकी सोच एक जैसी है पर सुधरना कोई नहीं चाहता। अब प्रदूषण फैलने के दूसरे पहलू की बात करें तो केंद्र व राज्य सरकारें पराली न जलाने के लिए किसानों को लगातार जागरूक करती हैं। पराली को नष्ट करने के लिए मुआवजे के अंतर्गत मशीनें भी देती हैं। करोड़ों का बजट भी पारित किया जाता है लेकिन किसान मशीन तक नहीं खरीदते। आईपीएस की ड्यूटी भी लगाई गई पर परिणाम वही ढाक के तीन पात। दिल्ली-एनसीआर में अभी सर्दी नहीं पड़ी और अभी से ही हाल इतना बुरा है कि यहां सांस लेने में इस कदर तकलीफ हो रही हो जैसे कि किसी बड़ी फैक्टरी के अंदर दम घुटता है। यदि आज यहां के किसी भी स्वस्थ व्यक्ति की जांच कराई जाए तो निश्चित तौर पर उसको फेफड़ों से संबंधित बीमारी निकलेगी। इसका ताजा उदाहरण प्रदूषण के दिनों में देखने को मिलता है क्योंकि हॉस्पिटल में सांस से संबंधित मरीजों की संख्या ज्यादा होती है।

एक्सप्रेस आलेख

यह राहुल गांधी का ही कलेजा है कि उन्होंने पूर्व सांसद स्मृति ईरानी का पूरे साल तक नाम नहीं लिया और अब जब नाम लिया तो कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जब से चुनाव हारे थे स्मृति ईरानी ने कभी कोई ऐसा मौका नहीं गंवाया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की जमकर आलोचना न की हो, अभद्र और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल न किया हो। लेकिन राहुल गांधी ने यह अपील तब कि जब ईरानी के अपना आधिकारिक आवास खाली किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके खिलाफ टिप्पणियां की है।

डॉ0 ओ0पी0 मिश्र

आसान नहीं है राहुल बन पाना

इस लेख का प्रारंभ क्योंकि हमने मुकेश अंबानी के बेटे के विवाह को लेकर किया था इसलिए इस पर आते हैं और बताते हैं कि तमाम लोग यस कहने से नहीं चूकेंगे की भाई यह तो विवाह समारोह था इसमें जाने पर राजनीति क्यों? अरे भाई, इस विवाह में आपको एक राजनीतिकज्ञ या मुख्यमंत्री के रूप में ही तो बुलाया गया है।

फिल्म अभिनेता मनोज कुमार की एक फिल्म का गाना था- पैसे की पहचान, यहां इंसान की कीमत कुछ भी नहीं।

बच के निकल जा इस बस्ती से,
करता मोहब्बत कोई नहीं।।

यकीनन यह एक ऐसा पैसे वालों का जमघट है जिसमें आप इतनी आसानी से निकल नहीं सकते लेकिन जो इससे निकल जाता है या इन पूंजीपतियों के झांसे में आने से इनकार कर देता है उसे आम आदमी अपने सिर माथे पर बैठा लेता है। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं यह बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा हूं और क्यों लोगों को पैसा और पैसे वालों का महत्व बता रहा हूं। उन पैसे वालों को जो हवा का रुख बदलने की ताकत रखते हैं , उन पैसे वालों की जो सरकारे बनाते हैं और बिगड़ते हैं, उन पैसे वालों की जो पचास लाख करोड़ का चंदा देते हैं और हजारों करोड़ों का ठेका प्राप्त करते हैं। उन पैसे वालों को जो सत्तारूढ दल और विपक्ष दोनों को कृतार्थ करते हैं। उन पैसे वालों की जो राजनीतिक दल तथा मीडिया को मिलाकर एक ऐसा काकस तैयार करते हैं जो वही कहता है और वही बताता है जो वे चाहते हैं। इन पैसे वालों पूंजीपतियों , उद्योगपतियों तथा कारपोरेट घराने के दो प्रमुख परिवारों के खिलाफ 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने मोर्चा खोला था। जी हां ! आप सही समझ रहे हैं मैं बात कर रहा हूं अंबानी जी की यानी मुकेश अंबानी की जिनके बेटे का विवाह शुक्रवार को मुंबई में था यह वही अंबानी है जिनके खिलाफ इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं यानी अपनी-अपनी पार्टी के प्रमुखों ने जबरदस्त तरीके से अभियान चलाया था। इंडिया गठबंधन के नेताओं की लंबी चौड़ी बातों ने मतदाताओं को काफी हद तक प्रभावित किया था और लोगों को लगने लगा था कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो एनडीए की तरह वह कॉर्पोरेट घरानो की हिमायती नहीं होगी। लेकिन कहा जाता है ना की कृतज्ञता हमसे वह सब कुछ करा लेती है जो नियम की दृष्टि से गलत है। यानी यदि हम किसी के अहसानो के तले दबे हुए हैं तो उसका फेवर करने में हम आगा पीछा नहीं सोचेंगे और आउट ऑफ वे जाकर उसकी मदद करेंगे। मेरी यह बात कितनी विश्वसनीय है तथा कितनी एंथेटिक है।

मतलब साफ है कि राहुल गांधी ने मुकेश अंबानी से दूरी बनाकर यह बताने का प्रयास किया है कि अब उनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के सरोकारों के बीच समस्याओं के बीच तथा मूल्यो पर आधारित होकर ही चलेगी।

इसका नजारा शुक्रवार को मुंबई के जियो वर्ल्ड कनवेशन सेंटर के भव्य समारोह में जहां उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी तथा राधिका मरचेंट के विवाह समारोह में उस समय देखने को मिला जब न केवल इंडिया ब्लाग के तमाम प्रमुख चेहरे वहां देखने को मिले बल्कि सत्तारूढ दल एनडीए के भी प्रमुख नेता वहां हाथ मिलाते दिखे। मैं यहां बाद एनडीए की नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनकी दोस्ती तो जग जाहिर है मैं बात कर रहा हूं इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, राजद प्रमुख तेजस्वी यादव और उनके परिवार की, एनसीपी प्रमुख शरद पवार तथा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की। यह सारे नेता उस इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरे थे जिसका एक नेता राहुल गांधी लगातार अडानी, अंबानी पर फायर कर रहा था और बता रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इन कॉरपोरेट मित्रों के लिए क्या-क्या किया। कितनी सहूलियत दी, कितना चंदा लिया, और बदले में कितना मुनाफा दिया, कितने ठेके दिए आदि आदि। आपको यह जानकर अचरज होगा कि यह जो भी नेता मुकेश अंबानी के बेटे के विवाह में शामिल होने आए थे इनमे किसी को भी मुकेश अंबानी स्वयं निमंत्रण देने नहीं गए थे लेकिन जिसको निमंत्रण देने मुकेश अंबानी तथा दस जनपद गए थे वह परिवार नहीं आया। दस जनपद का मतलब है कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का आवास। आप यह भी जान ले कि जब मुकेश अंबानी अपने लाव लश्कर के साथ दस जनपद पहुंचे तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वही थे लेकिन है मुकेश से मिले बगैर बाहर निकल गए और उन लोगों से जाकर मिलने लगे जो राजगीर थे, मजदूर थे। मतलब साफ है कि राहुल गांधी ने मुकेश अंबानी से दूरी बनाकर यह बताने का प्रयास किया है कि अब उनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के सरोकारों के बीच समस्याओं के बीच तथा मूल्यो पर आधारित होकर ही चलेगी। मुकेश अंबानी से दूरी बनाकर राहुल गांधी ने यह भी बताने का प्रयास किया कि भले ही इंडिया एलायंस के तमाम नेता उस विवाह समारोह में शामिल हुए हैं लेकिन उनका स्टैंड क्लियर है। राहुल गांधी की कार्यशैली की चाहे जितनी आलोचना मीडिया करें या भक्त और ज्ञानी लोग करें लेकिन उन्होंने बता दिया है कि अब वे आम आदमी की ही राजनीति करेंगे तथा मुद्दों पर आधारित राजनीति ही उनका उद्देश्य होगा। साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो वह एकला चलों को भी अपनाएंगे। ताकि आम आदमी कॉर्पोरेट घरानों की पक्षधर पार्टी और विरोधी पार्टी के बीच तय कर सके कि उसे किसके साथ खड़ा होना है । यह राहुल गांधी का ही कलेजा है कि उन्होंने पूर्व सांसद स्मृति ईरानी का पूरे साल तक नाम नहीं लिया और अब जब नाम लिया तो कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जब से चुनाव हारे थे स्मृति ईरानी ने कभी कोई ऐसा मौका नहीं गंवाया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की जमकर आलोचना न की हो, अभद्र और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल न किया हो। लेकिन राहुल गांधी ने यह अपील तब कि जब ईरानी के अपना आधिकारिक आवास खाली किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके खिलाफ टिप्पणियां की है।

एक्सप्रेस कविता

मेरे दिल का तो हाल-बेहाल है,
जिंदगी में न सुर है,ना ताल है।
आंखों से क्या ओझल हुए तुम,
रोज आता नित नया खयाल है ।
आ जाओ एक बार झरोखे में,
मौसम का हाल ताजा कमाल है।

सोते जागते दिखती,तुम ही तुम,
इश्क भी साहब,जी का जंजाल है।
यू मुझे कसौटी पर परखा जा रहा है,
दिल को मेरे इसका कितना मलाल है।
कैलेंडर बन गई है अब मुलाकातें,
मुलाकातें पर क्यों इतना बवाल है ।
महफिल में तुम ही छाए रहते हो,
होता तेरा शर्म से चेहरा गुलाल है।

संजीव ठाकुर

एक्सप्रेस ज्ञान

अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िये, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए और अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगिए, जो कुछ भी कीजिए लेकिन आपको सिर्फ आगे ही बढ़ना है

आज का पंचांग

किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सही मुहूर्त, सही समय, और सही नक्षत्र का होना जरुरी होता है, आज हम आपको आज के दिन का सही समय जो की सही कार्य करने का है, और आज कब कौन सी दशा कौन से टाइम में चल रही है उसका समुचित विवरण हिन्दू कैलेंडर और हिन्दू पंचांग के अनुसार दे रहे है, आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। आज का दिन शुभ कार्य के लिए सही कार्य है या नहीं आज के चौघड़िया के अनुसार जानें। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, गृह निर्माण कर रहे है, प्रॉपर्टी खरीद रहे है, या कोई अन्य शुभ कार्य करने के लिए सोच रहे है तो पहले यहाँ सही समय देख लें, आपका कार्य शुभ और सफल होगा, यही हमारी ओर से शुभ मंगल कामना है।

तिथि:	अष्टमी 17:26 तक
नक्षत्र:	चित्रा 22:06 तक
पक्ष:	शुक्ल
वार:	रविवार
योग:	शिव, 06:15 तक
सूर्योदय:	05:34
सूर्यास्त:	19:19
चंद्रमा:	तुला राशि में
राहुकाल:	17:36-19:19
विक्रमी संवत्:	2082
शक सम्वत:	1945
मास:	आषाढ़
शुभ मुहूर्त:	12:03-12:51

जन एक्सप्रेस

परंपरा पुरानी है !

लेकर टिकट वितरण को ।
है मचा बवाल ।।
दिया कैसे उनको ।
बड़ा है सवाल ।।
परंपरा पुरानी है ।
है होता हर हाल ।।
पाने खातिर टिकट ।
जाते बुनते जाल ।।
उसी को निभाना है ।
लो बातें ये जान ।।
केवल नहीं एक ।
और भी महान ।।
हो जाएंगे बाग़ी ।
रखा नहीं यदि ख्याल ।।
हमको भी है आती ।
चलनी नई चाल ।।

- कृष्णेन्द्र राय

एक्सप्रेस स्वास्थ्य

मानसून में ग्लास स्किन पाने के लिए लगाएं फेस मास्क

बरसात के मौसम में भी त्वचा की देखभाल करना जरूरी है। मौसम में नमी और उमस त्वचा में चिपचिपापन बढ़ा सकते हैं। इस कारण त्वचा बेजान और रूखी नजर आने लगती है। ऐसे में चेहरे से चमक और रौनक भी जाने लगती है। अगर इस समस्याओं के चलते आपको कहीं जाना पड़े, तो बहुत मुश्किल हो सकती है। ऐसे में काम आते हैं घर पर तैयार किये गए फेस मास्क। मानसून में भी आप ग्लास स्किन निखार पा सकते हैं। ऐसे कई फेस मास्क हैं, जिन्हें अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल करना आपके लिए फायदेमंद होगा।

चावल का पानी और ग्रीन टी: चेहरे पर चमक बनाए रखने के लिए आप चावल के पानी और ग्रीन टी का मास्क लगा सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको 2 चम्मच ग्रीन टी लेनी है। इसमें आपको उबले चावल का पानी इस्तेमाल करना है। इस दोनों को मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसमें आप एक चम्मच मिल्क पाउडर भी मिला सकते हैं। पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट तक रहने दें।

दही और शहद: चेहरे पर चमक बनाए रखने के लिए आपदही और शहद भी लगा सकते हैं। दही चेहरे की गहराई से सफाई करने में मदद करता है। शहद स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। फेस मास्क बनाने के लिए बाउल में 2 चम्मच दही लें। इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। इस पेस्ट को 5 मिनट तक चेहरे पर मसाज करें। अब 10 मिनट के लिए रहने दें फिर सादे पानी से चेहरा धो लें। आपको पहली बार में रिजल्ट नजर आ जाएगा।

एलोवेरा और खीरा: एलोवेरा और खीरे का फेस मास्क भी आपको ग्लास स्किन निखार देगा। खीरा स्किन को हाइड्रेट रखता है। एलोवेरा चेहरे से डार्क स्पॉट्स हटाने में मदद करता है। फेस मास्क बनाने के लिए बाउल में 2 चम्मच एलोवेरा जेल लीजिए। इसमें 2 चम्मच खीरे का रस भी मिलाएं। पेस्ट तैयार करके चेहरे पर लगाएं और सादे पानी से चेहरा धो लें।

ओट्स और केलात्र ओट्स और केला डार्क स्पॉट्स कम करने में मदद करते हैं। ओट्स स्किन की गहराई से सफाई करता है। केला स्किन को हाइड्रेट रखने और ग्लो लाने में मदद करता है। यह फेस मास्क बनाने के लिए 2 चम्मच ओट्स को कुछ देर दूध में भिगोकर रख दें। इसमें आधा केला मिक्स करें। पेस्ट बनाकर चेहरे और गर्दन पर लगाएं।

एलोवेरा और चावल का आटा: एलोवेरा और चावल के आटे का मिश्रण त्वचा में चमक लाता है। चावल के आटे में बारीक कण होते हैं। ये स्किन भी सफाई भी करते हैं और चिपचिपाहट भी कम करते हैं। एलोवेरा स्किन पर फ्रेश ग्लो लाता है। फेस मास्क बनाने के लिए बाउल में एक चम्मच चावल का आटा लीजिये। इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच चावल का पानी मिलाएं। पेस्ट तैयार करके चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद सादे पानी से धो लें।

एक्सप्रेस विशेष

रूस और ऑस्ट्रिया की यात्राओं से भारत की नई उड़ान

- ललित गर्ग

नरेंद्र मोदी ने रूस की यात्रा के दौरान भी भारत का यही रुख सामने रखा और स्पष्ट किया कि किसी भी झगड़े को निपटाने का रास्ता केवल वार्तालाप ही हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने रूस से आस्ट्रिया पहुंच कर भी इस रुख को और खोला और कहा कि भोले-भाले लोगों की हत्या कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती।

भारत की इस भूमिका के बीच अब अमरीका भी यह कहने में संकोच नहीं कर रहा है कि भारत को यूक्रेन युद्ध रोकने की पहल करनी चाहिए। फिलहाल शांति के पक्षधर अन्य देश भारत के साथ मिलकर रास्ता खोजने की पहल कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया का रूस और यूक्रेन के बीच संभावित समझौता वार्ता का मंच बनने की इच्छा जाहिर करना यही बताता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा के निष्कर्षों के साथ-साथ इसके वैश्विक निहितार्थ भी तलाशे जा रहे हैं। इन दोनों देशों की राजकीय यात्रा अनेक दृष्टियों से नई उम्मीदों को पंख लगाने के साथ भारत को शक्तिशाली बनाने वाली होगी। दोनों देशों की यात्रा के दौरान हुए विभिन्न समझौते भारत की तकनीकी एवं सामरिक जरूरतों को पूरा करने में अहम कदम साबित होंगे। सैन्य उत्पाद, व्यापार व उद्योग के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रूस और ऑस्ट्रिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग ने नई उम्मीदें जगाई हैं। इन यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री ने जो प्रयास किए वे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता के प्रयास, नये भारत-सशक्त भारत एवं सतत विकास की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे। निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी के प्रति इन दोनों देशों में जो सम्मानभावना देखने को मिली, उससे यही कहा जा सकता है कि मोदी विश्व-नेता के रूप में स्वतंत्र पहचान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं, जो भारत के लिये शुभ है। निश्चित तौर पर वैश्विक राजनीति में अपनी चमक के साथ आगे बढ़ते भारत के लिये रूस की यात्रा कई मायनों में बहुत उपयोगी एवं दूरगामी रही। इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच हुई 22वीं द्विपक्षीय बैठक में हुए नए समझौते काफी अहम हैं। रूस के युद्ध में फंसे होने के कारण रक्षा जरूरतों से संबंधित आपूर्ति में बाधा होना हमारे लिए चिंता की बात थी लेकिन मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही रक्षा उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स का प्लांट लगाने पर सहमति जताकर पुतिन ने बड़ी चिंता का समाधान कर दिया है। दोनों देशों के बीच का व्यापार 2030 तक 65 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक करने पर भी सहमति बनी है। यह भारत-रूस के विशेष रिश्ते को और मजबूत करने वाले होंगे। भारत-रूस की दोस्ती की गर्माहट से चीन एवं पाकिस्तान की बौखलाहट भी देखने को मिली है। यूक्रेन और गाजा में युद्धों की पृष्ठभूमि के बीच प्रधानमंत्री मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर दुनिया की नजरे लगी रही। एक ध्रुवरीय विश्व व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे अमरीका और बहुध्रुवरीय विश्व व्यवस्था में अपना हित देख रहे रूस के बीच भारत की स्थिति एवं उसकी बढ़ती ताकत का भी विश्लेषण किया जा रहा है। मास्को में प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गले मिलने पर यूक्रेन की नाराजगी के बावजूद अमरीका की सधी प्रतिक्रिया सामने आयी कि इससे उसके भारत से रिश्तों पर कोई असर नहीं होगा। निश्चित ही इससे यह साफ हो जाता है कि दुनिया अब एक या दो ध्रुवरीय नहीं रही। अमेरीका यह जान रहा है कि चीन के तानाशाही भरे रवैये से निपटने के लिए भारत का साथ आवश्यक है। वास्तव में इस आवश्यकता ने भी अमेरीका में भारत की अहमियत बढ़ाने का काम किया है। यह अहमियत यही बता रही है कि अब भारत का समय आ गया है। वास्तव में आज अमेरीका ही नहीं, विश्व का हर प्रमुख देश भारत को अपने साथ रखना आवश्यक समझ रहा है। कहना न होगा कि वैश्विक मंच पर योग का विषय हो, या अहिंसा का या फिर आतंकवाद से निपटने का, जलवायु परिवर्तन का मसला हो या फिर जी-20 देशों की अध्यक्षता की बात, भारत, दुनिया को नई दिशा दे रहा है, नई उम्मीदें जगा रहा है। एक नई ताकत एवं सशक्त अर्थ-व्यवस्था के साथ एक नया ध्रुव बनकर उभर रहा भारत समूची दुनिया की नजरों का ताज बना हुआ है। भारत अब बिना किसी दबाव के किसी भी अन्य ताकतवर देश की नाराजगी मोल लेने का हौसला रखता है। शीतयुद्ध के दौर में दो ध्रुवरीय विश्व व्यवस्था के बाद एक ध्रुवीय व्यवस्था का अनुभव दुनिया को मिल चुका है। अब बहुध्रुवरीय विश्व व्यवस्था में ही संभावनाएं देखी जा रही हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज बन भारत वैश्विक भूमिका को खुलकर प्रदर्शित भी कर रहा है। वैसे भी भारत एक बड़े देश के पाले में कभी नहीं रहा। अनेक संकटों से घिरा होकर भी भारत अपनी बात बुलन्दी के साथ दुनिया के सामने रखता रहा है, नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री के तीनों कार्यकाल में भारत ने अपने शक्तिशाली होने का भान कराया है। भारत की रूस से दोस्ती तो बहुत पुरानी है, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रिया या अन्य नए देशों से दोस्ती का यह मतलब नहीं है कि अपने पुराने साथियों से दूर हो जाएं। इजरायल और फिलिस्तीन के मामले में भी यह देखा जा सकता है। इजरायल से नई दोस्ती के बावजूद फिलिस्तीन पर हमारी रणनीति नहीं बदली है। उसी तरह रूस से अच्छे संबंध का यह मतलब नहीं कि यूक्रेन के मामले में उसे क्लीन चिट दे दें। यही वजह है कि राष्ट्रपति पुतिन को मोदी ने शांति का पाठ पढ़ाने में कोई हिचक नहीं दिखाई।

रेलवे विभाग की लापरवाही के कारण अनेकों गांव जलमग्न किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन

* ज्ञापन दे पलिया-भीरा के बीच कटी रेल लाइन का बंधा बनाकर ध्वस्त हुई सड़क में पत्थर जाली डलवाकर पटान कराते हुए रोड की मरम्मत कराने,वाहनों का आवागमन शुरू कराने की मांग की गई है
* इस दौरान संगठन के तहसील अध्यक्ष तरसेम सिंह, तेजिंदर सिंह तेजी, रामकुमार, अवतार सिंह, अमरजीत सिंह,बलवीर सिंह,कमरदीप कुमार, हरिंदर सिंह, विक्रम सिंह,इकबाल सिंह समेत भारी संख्या में किसान व बाढ़ पीड़ित मौजूद रहे

जन एक्सप्रेस । सुनहरा

लखीमपुर खीरी। शनिवार को तहसील पलियाकलां में शारदा नदी की बाढ़ की चपेट में आए कई गांवों के किसानों ने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले सिनेमा चौराहे पर जबरदस्त विरोध कर धरना प्रदर्शन किया। और सड़क पर जाम लगाकर हंगामा काटा बताते चलें किसानों का आरोप था कि जिस दिन रेल लाइन कट रही थी, उस दिन रेलवे के अधिकारियों से पत्थर आदि भेजकर कार्य कराने को कहा था लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। जिसके कारण रेललाइन कट गई और किसानों के गांव जलमग्न हो गए। किसानों ने बाढ़ से बिगड़ने हालात के लिए खनन को भी कारण बताया है।उन्होंने रेललाइन बनवाने के साथ ही सड़क सुचारू कर यातायात व्यवस्था ठीक करने की मांग की।रेललाइन कटने से घुसा गांवों में पानी जिसमें कहा गया कि रेललाइन कटने से रेलवे फाटक के पूरब की तरफ के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। हजारों एकड़ फसलें भी बाढ़ के पानी से बर्बाद हो गईं।मार्ग प्रभावित होने से रोजमर्रा की जरूरी चीजें गैस सिलेंडर, खाद्य सामग्री भी नहीं मिल पा रही है। रेलवे पर आरोप लगाया कि लाइन कटने से पूर्व ही ग्रामीणों ने रेलवे को आगाह कर पत्थर व बोल्डर आदि भेजने को कहा था। अगर रेलवे पत्थर भेज देता तो ग्रामीण कार्यसेवा कर उस हल्की कटी रेललाइन को पाटकर बचा लेते।

बाइक धुलते समय पैर फिसलने से नदी में डूबकर युवक की मौत

* एनडीआरएफ ने दूसरे दिन निकाला शव

जन एक्सप्रेस । लखीमपुर खीरी

तटबंध के किनारे बाइक धुलने गए युवक की शुक्रवार को गहरे पानी में डूब कर मौत हो गई थी। सूचना पर पहुंची खमरिया पुलिस व एनडीआरफ टीम के प्रयासों के बाद भी युवक का शव बरामद नहीं किया जा सका था।

शनिवार की सुबह ग्रामीणों और एनडीआरएफ टीम के प्रयासों से युवक का शव बरामद कर खमरिया पुलिस ने पीएम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। शुक्रवार की दोपहर करीब 2:00 बजे ऐरा निवासी 27 वर्षीय प्रदीप पुत्र राम प्रकाश राजपूत अपनी बाइक धुलने के लिए तटबंध के निकट रास्ते पर बनी पुलिया पर गया हुआ था। जहां बाइक धुलते समय पैर फिसलने से प्रदीप गहरे पानी में चला गया और डूबकर मौत हो गई। शनिवार की सुबह करीब 8 बजे खमरिया पुलिस और एनडीआरएफ टीम द्वारा शव बरामद कर पीएम के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया है।वही प्रदीप का शव मिलने के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते युवक की जान के लाले पड़े

जन एक्सप्रेस । मोहम्मदी खीरी

तहसील क्षेत्र ग्राम गदमापुर निवासी रामसिंह पुत्र लालाराम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके दाहिने पैर में दर्द था जिसे दिखाने के लिये वह गांव में संचालित चिकित्सालय पर गया था। वहां मौजूद डाक्टर बृजकिशोर व ओमवीर ने उसके पैर में एक इन्जेक्शन लगा दिया तथा अलग से खाने वाली दवा दे दी। किन्तु इन्जेशन व दवा से उसके पैर को कोई फायदा नहीं हुआ और धीरे-धीरे पैर पतला होने लगा। तब रामवीर ने अन्य डाक्टर से किया तो उसे पता चला कि उसके पैर की नस टूट रही है जिस कारण रामसिंह चलने में असमर्थ हो गया। रामवीर न जब नस टूटने की बात डाक्टर बृजकिशोर एवं डाक्टर ओमवीर को बताने गया तब दोनो डाक्टरो ने रामसिंह के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए क्लीनिक से भगा दिया। रामसिंह का आरोप है कि दोनो डाक्टर बिना किसी डिग्री के गांव में क्लीनिक चला रहे और ग्रामवासियो के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे है। बताते चले कि नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रो में इस तरह के झोलाछाप डाक्टरो की बाढ़ सी आयी हुई। ऐसा नही है कि चिकित्सा विभाग इन झोलाछाप डाक्टरो के बारे जानता नहीं है सब जानता है परन्तु धन बल व सत्ता बल पर इन झोलाछाप डाक्टरो पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। ज्यादा हो-हल्ला मचने पर यदा-कदा चिकित्सा विभाग सोते से जागता है और एक-दो अवैध क्लीनिक व नर्सिंग होम पर कार्यवाही कर पुनः कुम्भकर्णीय नींद सो जाता है।

जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग की ड्रेन खुदाई में बाधा बने लोगों पर हो कार्यवाही: संजय तूफानी

जन एक्सप्रेस । सीतापुर

राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप पर खुदाई की मांग की गई थी। जिसका संज्ञान लेकर शासन प्रशासन द्वारा हरगांव चीनी मिल को ड्रेन खुदाई के निर्देश दिए थे। ड्रेन खुदाई का कार्य चल रहा था परंतु कुछ लोग ड्रेन की खुदाई में रुकावट बने हुए जिनके ड्रेन के किनारे खेत है।और जे सी बी ड्राइवर से अभद्रता भी किया। जिससे ड्रेन खुदाई कार्य रुका पड़ा है।ड्रेन खुदाई रुकने से किसानों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। और किसानों के खेतों में पानी भरा हुआ है जिससे परेशान होकर राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले जिला अध्यक्ष एस के तूफानी के नेतृत्व में किसानों द्वारा जिला अधिकारी को मांग पत्र सौंप कर झरिया घाट तक ट्रेन खुदाई पूरी कराने व खुदाई में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई कर ड्रेन खुदाई पूरी कराने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। अवध शुगर मिल हरगांव द्वारा ड्रेन की खुदाई न करने से सैकड़ो बीघा किसानों की जमीन जलमग्न हो जाती थी जिसके संबंध में 4 जुलाई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया था जिस पर शासन प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए मिल को ड्रेन खुदाई के निर्देश जारी किए थे। हरगांव मिल द्वारा बनेरा तालाब से भटपुरवा तक ड्रेन खुदाई करा दी गई है भटपुरवा बॉर्डर से आगे बकसोहिया के लोगो द्वारा ड्रेन खुदाई में बाधा उत्पन्न की जा रही है। जिससे किसानों की समस्या वैसे ही बनी रहेगी। ड्रेन खुदाई कार्य में बाधा करने वालों पर कार्यवाही की जाए और ड्रेन को झरिया घाट तक खुदाई करने का निर्देश दिया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो जिन किसानों की जमीन जलमग्न होगी उन किसानों की फसल का मुआवजा उक्त विरोध करने वालों से फसल का मुआवजा दिलाया जाए।या फिर मिल द्वारा जलवक नहीं किसानों के खेत का मुआवजा दिया जाए।अन्यथा मिल द्वारा ड्रेन खुदाई में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। और ड्रेन की खुदाई पूरी कराई जाय।जिससे किसानों की जलमग्न खेती को बचाया जा सके और खेती कर सके। किसानों खेती जलमग्न होने से किसान भुखमरी पर आ जायेगे और अपने परिवार का पेट पालना उनके लिए कड़ी चुनौती हो जायेगा। यदि शीघ्र ही ड्रेन की खुदाई पूरी नहीं कराई गई तो किसानों के साथ संगठन आगे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस मौके पर देवेंद्र सिंह जिला उपाध्यक्ष, एडवोकेट संतोष कुमार, अखिलेश गौतम, मुन्नालाल, विनोद, सुमित, झब्बू, शांती, संता, रामरती सहित दर्जनों किसान मौजूद रहे।

जिलाधिकारी से मुलाकात कर गोला विधानसभा में बंद पड़े आई टी आई कॉलेज शुरू करवाने की मांग की: पूर्व सांसद जफर अली नकवी

* युवाओं के उज्ज्वल भविष्य का सपना संजोय यह दो कॉलेज अगर शुरू किए जाते हैं

जन एक्सप्रेस । गोला गोकर्णनाथ खीरी

कांग्रेस के पूर्व सांसद व उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज़फ़र अली नकवी ने नवागत जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल की से मुलाकात कर उन्हें उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और साथ ही पूर्व सांसद जफर अली नकवी ने उनके संसदीय कार्यकाल वर्ष 2009 से 2014 के बीच निर्मित दो आई टी आई कॉलेज जो कि गोला विधानसभा के अंतर्गत महारजनगर वजीरनगर में तथा कुंभी ब्लाक के गर्दहा में बनाए गए थे उन्हें त्वरित रूप से शुरू करने की मांग की।

ज़फर अली नकवी ने कहा कि यह 2 कॉलेज पिछले 10 साल से सरकार और प्रशासन की अनदेखी के चलते बंद पड़े हुए हैं और इससे क्षेत्र के विकास की डोर थम सी गई है। युवाओं के उज्ज्वल भविष्य का सपना संजोय यह दो कॉलेज अगर शुरू किए जाते हैं तो इससे नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी और रोजगार के अवसर युवाओ को प्राप्त होंगे। अतः यह दो आई टी आई कॉलेज जल्द से जल्द शासन की मदद से खोल दिए जाएं।

बहुचर्चित बैंक घोटाले में शाखा प्रबंधक सहित पांच पर मुकदमा दर्ज

जन एक्सप्रेस । सीतापुर

हरगांव। हरगांव कस्बा स्थित बैंक आफ इंडिया में किसानों के साथ किसान कार्ड बिजनेस लोन,चारा लोन इत्यादि के नाम पर की गई लाखो की ठगी व धोखाधड़ी के मामले में बैंक मैनेजर देवेश तिवारी कर्मचारी राहुल रस्तोगी सुधांशु शुक्ला शुभम शुक्ला क्षितिज श्रीवास्तव नूपुर वर्मा सहित अन्य अज्ञात दलालों पर हरगांव थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है । बैंक ऑफइंडिया हरगांव शाखा के खाताधारक यशपाल पुत्र श्री कृष्ण निवासी वजीरपुर ने थाने में तहरीर देकर बताया किराने की दुकान करने के लिए मुद्रा लोन के लिए 15 फरवरी 24 को शाखा प्रबंधक देवेश तिवारी व फील्ड आफिसर सुधांशू शुक्ला द्वारा बताया गया कि सात लाख रुपए लोन मंजूर कर दिया गया है। लोन मंजूर करने के लिए कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए गए थे। जिसके बाद लोन के सात लाख रुपए बैंक कर्मचारियों ने निकाल लिए। बैंक के तमाम खाता धारकों के साथ क्रेडिट कार्ड मुद्रा लोन चारा लोन स्वरोजगार योजना के लिए खाता धारकों से आधार कार्ड पैन कार्ड व उनके फोटो लेकर शाखा प्रबंधक देवेश तिवारी फील्ड आफिसर राहुल रस्तोगी कैशियर क्षितिज व नूपुर वर्मा और दो दलालों की मिलीभत से उनके खातों से लाखो रुपए निकाल कर निजी स्वार्थ में लगा लिए। उच्चाधिकारियों से काफी शिकायत के बाद शाखा प्रबंधक को निलंबित किया गया था। पीड़ितों ने 2 माह पूर्व हरगांव थाने में लगभग 3 दर्जन से अधिक प्रार्थना पत्र दिए थे। परंतु कोई कार्यवाही न होता देख क्षेत्रीय विधायक व राज्यमंत्री सुरेश राही को शिकायती पत्र सौंपा था, जिस पर मंत्री जी ने राज्य के वित्त मंत्री को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग की थी।जिसके बाद पीड़ितों ने सामुहिक रूप से मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाकर न्याय की गुहार लगाई थी। जिस पर शासन के निर्देश पर बुधवार दस जुलाई को हरगांव थाने में किसानों के साथ हुई ठगी का मुकदमा सम्बंधित धाराओं में पंजीकृत किया गया है। इस सम्बंध में थाना हरगांव के प्रभारी निरीक्षक अपराध राम सागर यादव ने बताया शाखा प्रबंधक व फील्ड आफिसर बैंक से फरार चल रहे हैं। गिरफ्तारी के प्रयास किए जा हैं।

कोर्ट के आदेश पर एक दर्जन अभियुक्तों के खिलाफ लूट की रिपोर्ट दर्ज

जन एक्सप्रेस । निघासन खीरी

जनपद के नवसृजित मंझगई थाने पर 12 व्यक्तियों के खिलाफ धारा 395 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई है। वादी मुनीश कुमार पुत्र चूरमणि निवासी ग्राम धर्मापुर थाना मंझगई ने बारह अभियुक्तों के खिलाफ धारा 395 के अंतर्गत माननीय न्यायालय में वाद दायर किया था।

न्यायालय के आदेशानुसार मंझगई थाने पर विपक्षी गण बाबूराम, राम मनोज, पुनीत, विद्यावती पत्नी बाबूराम, गोल्डी, शोभा पुत्री बाबू राम, प्रकाश, सर्वेश, विनोद, संकटा उपेंद्र पुत्र रामासरे निवासी करदहिया वनदेवी नन्हौवा सहित कुल बारह विपक्षी गणों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 395 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 8 अगस्त 2023 की दोपहर करीब बारह बजे उक्त विपक्षियों ने एकराय होकर वादी के घर में घुसकर मारपीट करने के साथ बक्से में रखे जेवरात व एक लाख नकदी उठा ले गए। उस समय थाने पर सुनवाई न होने की वजह से वादी ने न्यायालय के आदेशानुसार मंझगई थाने पर विपक्षी गणों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई।

विधायक अमन गिरी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया भ्रमण

जन एक्सप्रेस । गोला गोकर्णनाथ खीरी

विधायक अमन गिरी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तंसुकपुरवा, रुरासुलतानपुर, नयापुरवा, करसौर एवं पूजागांव में बनाई गई बाढ़ चौकी पर पहुंचकर बचाव कार्यों प्रगति पर उपजिलाधिकारी से विस्तृत जानकारी प्राप्त की एवं आवश्यक दिशानिर्देश दिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रवासियों की सुरक्षा के लिए विधायक अत्यंत गंभीर एवं सजग हैं उन लोगों को खाने पीने की कोई समस्या न हो इसलिए विधायक रोज की भांति आज भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर बाढ़ प्रभावित लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की और तहसील प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी व्यक्ति को खाने पीने एवं रहने के लिए कोई समस्या न हो जब तक ये बाढ़ एवं कटान की समस्या से निजात न मिल सके।गोला विधायक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरंतर भ्रमण कर सभी पीड़ितों का हाल जान रहे हैं एवं हरसंभव मदद कर रहे हैं।इस अवसर पर जगजीत सिंह प्रधान रूरा सुल्तानपुर, वेद दीक्षित, लाडी सिंह प्रधान पूजागांव आषाढ़ी, मनोज गिरी, सहित तमाम ग्रामवासी मौजूद रहे।

विशेष सचिव गृह की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय अधिकारियों की हुई बैठक

जन एक्सप्रेस । सीतापुर। विशेष सचिव, गृह एवं गोपन विभाग, उ0प्र0 शासन योगेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में गृह विभाग के महत्वपूर्ण स्वीकृत प्रचलित निर्माण कार्यों में संबंधित कार्यदायी संस्था व जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक के दौरान उन्होंने अभी तक आवंटित कार्यों में व्यय हुये बजट को देखा। उन्होंने कहा कि जो भी कार्य कराये जा रहे हैं, उनमें भौतिक प्रगति लायी जाये। सभी प्रोजेक्टों पर चल रहे कार्यों को समय से पूर्ण करने का प्रयास किया जाये। कार्यों की धीमी प्रगति पर ठेकेदार को नोटिस जारी की जाये, उसकी एक सूची उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन कार्यों की मॉनिटरिंग अवश्य करायी जाये ताकि कार्यों को पता चल सके तथा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाये गये हैं उनकी कॉपी उपलब्ध करायें। जो भी कार्य चल रहे हैं, वह मानक के अनुरूप हों और एक टीम तैयार कर लें, जो कार्यों पर निगरानी रखें। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नीतीश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

महत्वपूर्ण सूचना

कांवड़ मेला – 2024 के लिए विशेष व्यवस्था
(22.07.2024 से 19.08.2024)

कांवड़ मेला–2024 के दौरान कांवड़ियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे द्वारा कुछ नामित रेल सेवाओं को हरिद्वार तक विस्तार करने, कांवड़ विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करने और वर्तमान में संचालित की जा रही, कुछ रेलगाड़ियों को अस्थायी ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

रेलगाड़ी संख्या 04465/04466 दिल्ली–शामली–दिल्ली डीईएमयू का हरिद्वार तक विस्तार

रेलगाड़ी सं. 04465 आगमन	रेलगाड़ी सं. 04465 प्रस्थान	स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 04466 आगमन	रेलगाड़ी सं. 04466 प्रस्थान
–	20:00	दिल्ली	09:25	–
22:50	22:55	शामली	06:25	06:30
23:20	23:22	थाना भवन टाउन	05:25	05:27
23:44	23:46	रामपुर मनिहारान	05:02	05:04
00:15	00:17	टपरी	04:46	04:48
00:56	00:58	रुड़की	04:17	04:19
01:38	01:40	ज्वालापुर	03:15	03:17
01:55	–	हरिद्वार	--	03:05

चलने की तिथि: 04465 दिल्ली से 21.07.2024 से 03.08.2024 और 04466 हरिद्वार से दिनांक 22.07.2024 से 04.08.2024 तक।
स्थान : सामान्य।

रेलगाड़ी संख्या 04403/04404 दिल्ली–सहारनपुर–दिल्ली एमईएमयू का हरिद्वार तक विस्तार

रेलगाड़ी सं. 04403 आगमन	रेलगाड़ी सं. 04403 प्रस्थान	स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 04404 आगमन	रेलगाड़ी सं. 04404 प्रस्थान
–	16:25	दिल्ली	08.45	–
20:50	21:10	सहारनपुर	03:40	04:20
21:48	21:50	रुड़की	02:53	02:55
22:25	22:27	ज्वालापुर	02:10	02:12
22:50	–	हरिद्वार	--	02:00

चलने की तिथि: 04403 दिल्ली से 22.07.2024 से 03.08.2024 और 04404 हरिद्वार से दिनांक 23.07.2024 से 04.08.2024 तक।
स्थान : सामान्य।

मेला विशेष रेलगाड़ियों का निम्न समय सारणी के अनुसार संचालन

रेलगाड़ी संख्या 04322/04321 मुरादाबाद–लक्सर–मुरादाबाद मेला विशेष रेलगाड़ी

रेलगाड़ी सं. 04322 आगमन	रेलगाड़ी सं. 04322 प्रस्थान	स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 04321 आगमन	रेलगाड़ी सं. 04321 प्रस्थान
07:15	–	लक्सर	–	12:00
–	04:15	मुरादाबाद	15:15	--

चलने की तिथि: 04322 मुरादाबाद से और 04321 लक्सर से दिनांक 22.07.2024 से 19.08.2024 तक।
स्थान : सामान्य।
ठहराव : बालावाली, मुअज्ज़मपुर नारायण, नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, स्योहारा और कांठ स्टेशन।

रेलगाड़ी संख्या 04324/04323 हरिद्वार–दिल्ली–हरिद्वार मेला विशेष रेलगाड़ी

रेलगाड़ी सं. 04324 आगमन	रेलगाड़ी सं. 04324 प्रस्थान	स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 04323 आगमन	रेलगाड़ी सं. 04323 प्रस्थान
–	15:45	हरिद्वार	04:25	–
20:50	–	दिल्ली	–	22:00

चलने की तिथि: 04324 हरिद्वार से और 04323 दिल्ली से दिनांक 29.07.2024 से 02.08.2024 तक।
स्थान : सामान्य।
ठहराव: ज्वालापुर, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ सिटी और गाजियाबाद स्टेशन।

रेलगाड़ी संख्या 04330/04329 योग नगर ऋषिकेश–दिल्ली–योग नगर ऋषिकेश मेला विशेष रेलगाड़ी

रेलगाड़ी सं. 04330 आगमन	रेलगाड़ी सं. 04330 प्रस्थान	स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 04329 आगमन	रेलगाड़ी सं. 04329 प्रस्थान
–	20:35	योग नगरी ऋषिकेश	11:00	–
04:15	–	दिल्ली	–	04:45

चलने की तिथि: 04330 योग नगरी ऋषिकेश से और 04329 दिल्ली से दिनांक 29.07.2024 से 02.08.2024 तक।
स्थान : सामान्य।
ठहराव : रायवाला, मोतीचूर, हरिद्वार, ज्वालापुर, रुड़की, सहारनपुर, शामली और दिल्ली शाहदरा स्टेशन।

रेलगाड़ी संख्या 04372/04371 योग नगर ऋषिकेश–लखनऊ–योग नगर ऋषिकेश मेला विशेष रेलगाड़ी

रेलगाड़ी सं. 04372 आगमन	रेलगाड़ी सं. 04372 प्रस्थान	स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 04371 आगमन	रेलगाड़ी सं. 04371 प्रस्थान
–	20:35	योग नगरी ऋषिकेश	23:00	–
11:15	–	लखनऊ	–	11:45

चलने की तिथि: 04372 योग नगरी ऋषिकेश से और 04371 लखनऊ से दिनांक 06.08.2024 से 19.08.2024 तक।
स्थान : सामान्य।
ठहराव : रायवाला, मोतीचूर, हरिद्वार, ज्वालापुर, लक्सर, बालावाली, मुअज्ज़मपुर नारायण, नजीबाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और शाहजहांपुर स्टेशन।

रेलगाड़ी संख्या 04370/04369 योग नगर ऋषिकेश–बरेली–योग नगर ऋषिकेश मेला विशेष रेलगाड़ी

रेलगाड़ी सं. 04370 आगमन	रेलगाड़ी सं. 04370 प्रस्थान	स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 04369 आगमन	रेलगाड़ी सं. 04369 प्रस्थान
–	20:35	योग नगरी ऋषिकेश	23:00	–
05:15	–	बरेली	–	15:50

चलने की तिथि: 04370 योग नगरी ऋषिकेश से और 04369 बरेली से दिनांक 03.08.2024 से 05.08.2024 तक।
स्थान : सामान्य।
ठहराव : रायवाला, मोतीचूर, हरिद्वार, ज्वालापुर, लक्सर, बालावाली, मुअज्ज़मपुर नारायण, नजीबाबाद, मुरादाबाद और रामपुर स्टेशन।

दिनांक 22.07.2024 से 03.08.2024 तक रेलगाड़ियों का अस्थाई ठहराव

रेलगाड़ी संख्या एवं नाम	फ्रीक्वेंसी	अस्थाई ठहराव	समय-सारणी आगमन	समय-सारणी प्रस्थान
14113 सुबेदारगंज – देहरादून एक्सप्रेस	प्रतिदिन	ज्वालापुर	10:43	10:45
		मोतीचूर	11:04	11:06
		रायवाला	11:14	11:16
14114 देहरादून – सुबेदारगंज एक्सप्रेस	प्रतिदिन	रायवाला	14:15	14:17
		मोतीचूर	14:34	14:36
		ज्वालापुर	15:15	15:17
14309 उज्जैन – देहरादून एक्सप्रेस	सप्ताह मे दो दिन	ज्वालापुर	15:53	15:55
		मोतीचूर	17:00	17:02
		रायवाला	17:35	17:37
14310 देहरादून – उज्जैन एक्सप्रेस	सप्ताह मे दो दिन	रायवाला	07:08	07:10
		मोतीचूर	07:24	07:26
		ज्वालापुर	07:52	07:54
14317 इन्दौर – देहरादून एक्सप्रेस	सप्ताह मे दो दिन	ज्वालापुर	15:53	15:55
		मोतीचूर	17:00	17:02
		रायवाला	17:35	17:37
14318 देहरादून – इन्दौर एक्सप्रेस	सप्ताह मे दो दिन	रायवाला	07:08	07:10
		मोतीचूर	07:24	07:26
		ज्वालापुर	07:52	07:54
19565 ओखा – देहरादून एक्सप्रेस	साप्ताहिक	ज्वालापुर	15:53	15:55
		मोतीचूर	17:00	17:02
		रायवाला	17:35	17:37
22659 कोच्चुवेली – योग नगरी ऋषिकेश सुपरफास्ट एक्सप्रेस	साप्ताहिक	ज्वालापुर	12:08	12:10
		मोतीचूर	12:45	12:47
		रायवाला	13:00	13:02
22660 योग नगरी ऋषिकेश – कोच्चुवेली सुपरफास्ट एक्सप्रेस	साप्ताहिक	रायवाला	07:08	07:10
		मोतीचूर	07:24	07:26
		ज्वालापुर	07:52	07:54
14610 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा – योग नगरी ऋषिकेश हेमकुण्ड एक्सप्रेस	प्रतिदिन	ज्वालापुर	06:48	06:50
		मोतीचूर	07:20	07:22
14609 योग नगरी ऋषिकेश – श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा हेमकुण्ड एक्सप्रेस	प्रतिदिन	ज्वालापुर	18:31	18:33

दिनांक 22.07.2024 से 19.08.2024 तक रेलगाड़ी का अस्थाई ठहराव

04303 बरेली–दिल्ली स्पेशल एक्सप्रेस	प्रतिदिन	कांकाठेर	23:36	23:38
04304 दिल्ली–बरेली स्पेशल एक्सप्रेस	प्रतिदिन	कांकाठेर	02:40	02:42

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 डायल करें अथवा रेलगाड़ी पूछताछ वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in देखें।

रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139
रेलमदद वेबसाइट देखें:– www.railmadad.indianrailways.gov.in
रेलमदद ऐप डाउनलोड करें

पर हमें फॉलो करें | आज़ादी का अमृत महोत्सव | उत्तर रेलवे सदैव आपकी सेवा में
हमें www.nr.indianrailways.gov.in पर मिलें

2143/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

महंथ की ही सरकार में मंदिर मार्ग पर शराबियों का कब्जा, महिला भक्त परेशान

मंदिर मार्ग पर सिर चढ़कर बोलता शराबियों का आतंक, जिम्मेदार मौन

जन एक्सप्रेस। गोरखपुर

जनपद के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के करमैनी घाट चौकी से महज 5 सौ मीटर दूरी अवस्थित अतिप्राचीन गौरीशंकर मंदिर मार्ग पर महंथ योगी आदित्यनाथ की सरकार पर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है जिससे मंदिर में पूजा अर्चना करने वाली महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का सख्त निर्देश है कि मंदिर के इर्द-गिर्द मांस ,मछली,मदिरा की दुकानें बंद की जाएं। परंतु जिले के जिम्मेदार शासन के निर्देशों का खुला उलंघन कर रहे हैं। गौरीशंकर मंदिर पर श्रावण मास में प्रदेश के कोने कोने से श्रद्धालु जलाभिषेक करने है।

शराबियों के आतंक से मंदिर की सायंकाल आरती में नहीं शामिल होती महिला श्रद्धालु

बताते चलें कि करमैनी घाट स्थित देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों के इर्दगिर्द मांस, मछली, अंडे की दुकानों पर बैठकर शराब पिलाने की वजह से सड़क पर रोजाना जाम लगा रहता है, जिससे सायंकाल में होने वाली मंदिर की आरती में शामिल होने वाली महिला श्रद्धालुओं को शराबियों से दो चार होना पड़ता है वहीं शराब पीने वाले अपने दो पहिया, चार पहिया वाहनों को खड़ा कर घंटो शराब पीने में मस्त रहते हैं और आने जाने वाले राहगीर अगर वाहन हटाने के लिए शराबियों से कहते हैं तो शराब के नशे में लोगों आंखे दिखाते और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं।

क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस पर मिलीभगत का लगाया आरोप

क्षेत्रीय लोगों ने बताया की अपराह्न तीन बजे से रात्रि 9 बजे तक डर वश कोई भी अकेली महिला शराबियों के वजह से उस रोड से नहीं जाती हैं।शराब की दुकान के इर्दगिर्द आधा दर्जन से अधिक मांस मछली अंडे और अन्य चीखने की दुकानें संचलित हो रही हैं। नाम नहीं छापने के शर्त पर लोगों ने बताया कि पुलिस के सहयोग से यहां पर दर्जनों चीखने के दुकान चल रहें हैं और रोजाना अपराह्न तीन बजे से सड़क पर शरबियों का कब्जा हो जाता हैं। उनके भय से कोई विरोध नहीं कर सकता है। लोगों ने कहा कि अगर स्थानीय पुलिस की मेहरबानी नहीं होती तो करमैनी चौकी से महज 5 सौ मीटर दूरी पर ही रोड पर शराबी कब्जा जमाए रहते हैं और पुलिस मौन रहती है।

एसएसबी जवानों ने इंडो नेपाल सीमा पार कर रहे जर्मन नागरिक को पकड़ा

जन एक्सप्रेस। नौतनवा/महराजगंज

इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनौली में तैनात 22 वाहिनी एसएसबी की टीम ने चेकिंग के दौरान अवैध रूप से सीमा पार कर रहे जर्मन नागरिक को हिरासत में लेते हुए पूछताछ के उपरांत अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु स्थानीय पुलिस को सुपुर्द कर दिया।
एसएसबी आईसीपी पोस्ट कमांडर उपनिरीक्षक सहायक तरुण कुमार आदक मय हमराह आरक्षी सहायक प्रकाश कुमार के साथ चेकिंग कर रहे थे इसी दौरान पिलर संख्या 517/01 प्रेम नगर कालोनी के समीप साधु की वेश भूषा धारण किए तेजी से सीमा पार करते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। कड़ाई से पूछताछ किया गया तो अपना नाम तोवियस मैक्सीमिलन रेहन उम्र 44 निवासी जर्मनी बताया।
जर्मन नागरिक भारत में टूरिस्ट वीजा पर एक साल के लिए आया हुआ था जिसका वीजा जनवरी 2024 में ही समाप्त हो चुका था।
एसएसबी जवानों ने बताया कि अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु सोनौली पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। थानाध्यक्ष अंकित सिंह ने बताया कि आरोपी जर्मन नागरिक के विरुद्ध अपराध संख्या 134/24 धारा 14 विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु न्यायालय भेज दिया गया।

थाना समाधान दिवस आये 171 मामलों में 56 का मौके पर हुआ निस्तारण

जन एक्सप्रेस। देवरिया

जनपद के सभी थानों पर शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। थानों पर राजस्व विभाग के अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा जनता की समस्याओं को सुना गया एवं संयुक्त रूप से राजस्व व पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर कई समस्याओं का निस्तारण भी कराया गया । इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी दीपेन्द्र नाथ चौधरी व क्षेत्राधिकारी नगर संजय कुमार रेड्डी द्वारा थाना कोतवाली में जनसमस्याओं को सुना गया जिसके क्रम में थाना कोतवाली पर कुल 7 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसके निस्तारण हेतु राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर उचित दिशा निर्देश दिय गया तो वहीं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी भीम कुमार गौतम द्वारा थाना खामपार व थाना सलेमपुर जनसमस्याओं को सुना गया जिसमें थाना खामपार पर प्राप्त 5 प्रार्थना पत्र में से 1 का मौके पर निस्तारण कराया गया तथा थाना सलेमपुर पर 12 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसके निस्तारण हेतु राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर उचित दिशा निर्देश दिये गये । क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर द्वारा थाना रुद्रपुर पर, क्षेत्राधिकारी बरहज द्वारा थाना भलुअनी पर तथा क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी द्वारा थाना खामपार पर जनसमस्याओं को सुना गया । इस दौरान पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के संबन्धित अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे । थाना समाधान दिवस पर जनपद के समस्त थानों पर कुल 171 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसमें 56 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया तथा शेष प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व विभाग व पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों का गठन कर सम्बन्धित को उचित दिशा निर्देश दिया गया।

बाढ़ प्रभावित गांव का ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने किया निरीक्षण

जन एक्सप्रेस। गोरखपुर

नेपाल द्वारा नदियों में पानी छोड़े जाने से जिले में बाढ़ आने की संभावना के दृष्टिगत जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश द्वारा जनपद के समस्त एसडीएम और तहसीलदार को निर्देशित किया है कि अपने तहसील क्षेत्र अंतर्गत भ्रमणशील रहकर बाढ़ संबंधित ग्राम सभाओं का बराबर निरीक्षण करते रहें, जिससे बाढ़ आने की संभावना पर बाढ़ पीड़ितों को राहत शिविर कैंपों में पहुंचाया जा सके।इसी क्रम में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी ने अपने तहसील के अंतर्गत सेंदुली वेंदुली गांव का स्थलीय निरीक्षण कर अपने लेखपाल , कानूनगो को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ संभावित गांव पर बराबर निगरानी बनाए रखें जिससे बाढ़ आने की स्थिति पर ग्राम वासियों को राहत शिविर पर पहुंचाया जा सके और जिन स्थानों पर नाव की जरूरत हो वहां नाव लगा दी जाएं जिससे ग्राम वासियों को आने-जाने की दिक्कत न होने पाए।

क्षेत्र में बराबर भ्रमणशील रहें हल्का लेखपाल व कानूनगो: एसडीएम

एसडीएम ने क्षेत्रीय लेखपाल को निर्देशित करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित ग्राम वासियों को राहत सामग्री उपलब्ध करा दिया जाए जिससे खाने के लिए किसी वस्तु की कमी नही हो और ग्रामवासीयों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने क्षेत्रीय लेखपाल को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि लेखपाल बराबर गांव में कैंप करें जिससे बाढ़ आने की संभावना से निपटने में तत्काल सहायता किया जा सके।

नेपाल में बारिश के आगे गोरखपुर-बस्ती मंडल बेबस, राप्ती और गंडक खतरे के निशान से ऊपर

जन एक्सप्रेस। गोरखपुर

नेपाल में हो रही लगातार बारिश से गोरखपुर-बस्ती मंडल के जिले के लोग बेबस नजर आ रहे हैं। यहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से गोरखपुर के छह गांवों बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। गंडक खतरे के निशान को पार कर गई है। इसके चलते महराजगंज और कुशीनगर में नदी के किनारे बसे गांवों की हजारों एकड़ खेती डूब गई है। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते संतकबीरनगर के धनघटा तहसील क्षेत्र के 15 गांवों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
नेपाल में हो रही लगातार बारिश से गोरखपुर-बस्ती मंडल के जिले के लोग बेबस नजर आ रहे हैं। यहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से गोरखपुर के छह गांवों बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। गंडक खतरे के निशान को पार कर गई है।
इसके चलते महराजगंज और कुशीनगर में नदी के किनारे बसे गांवों की हजारों एकड़ खेती डूब गई है। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते संतकबीरनगर के धनघटा तहसील क्षेत्र के 15 गांवों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
गोरखपुर मंडल की प्रमुख नदियां गंडक, छोटी गंडक, राप्ती, सरयू और रोहिन हिमालय से निकली हैं। नेपाल के तराई वाले क्षेत्र से ये नदियां यूपी में प्रवेश करती हैं। इसमें से गंडक नदी पर वाल्मीकिनगर में बैराज बना है, जबकि अन्य नदियों में पानी सीधे सैलाब लाता है।
नेपाल के पहाड़ों पर जब भी बारिश होती है तो ढलान के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने लगता है। वाल्मीकिनगर बैराज में पानी बढ़ने पर एक बार में ही हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है। शुक्रवार को गंडक नदी में वाल्मीकिनगर बैराज से 3 लाख 30 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
नदी खतरे के निशान से 28 सेमी ऊपर बह रही है, जिसके चलते महराजगंज के अलावा कुशीनगर में भी करीब 30 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यहां मवन नाले का जलस्तर बढ़ने के चलते कप्तानगंज रेलवे स्टेशन के पास तक पानी पहुंच गया है। इसी तरह महराजगंज में जिले में चंदन, झरही उर्फ प्यास और भौरहियां नाले का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के खैरी उर्फ झुंगहवा, तौलिहवा, खैरी शीतल प्रसाद, मटियार उर्फ भुतहवा आदि गांव बाढ़ के पानी से घिरे हैं। हर साल इन गांवों के लिए बरसात में दिक्कत बढ़ जाती है। खेती भी बुरी तरह प्रभावित हुई है।

सिहाईजपार में टूटी नहर, घरों में घुसा पानी

जन एक्सप्रेस/गगहा गोरखपुर। गगहा क्षेत्र के सिहाईजपार में टूटी सरयू नहर का पानी सड़क पार कर कई घरों में घूस गया। दोपहर बाद नहर की मरम्मत हो सकी। शुक्रवार की रात में सिहाईजपार गांव के सामने पानी के बढ़ते दबाव से सरयू नहर टूट गयी। नहर का पानी खेत में भरते हुए भीम गुप्ता के घर के सामने रावतपार-गोला मार्ग पर ओवरफ्लो कर गया। ओवरफ्लो हुआ पानी विश्वनाथ, सोनू तथा त्रिलोकी के घर के बेसमेंट में भर गया। विभाग द्वारा मरम्मत में लगाए गए मजदूरों ने दोपहर बाद नहर के टूटे भाग पर काबू पाया । ग्रामीणों का कहना है कि नहर टूटने की जानकारी सुबह ही दी गयी थी लेकिन मौके पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा। इस संबंध में पूछे जाने पर जेई आरीफ हुसैन अंसारी का कहना है कि रैटहोल के चलते नहर टूटी थी। जिसकी मरम्मत कर दी गयी है।

स्वास्थ्य उपकेंद्र पर हेलो डॉक्टर दीदी कार्यक्रम का हुआ आयोजन

हेलो डॉक्टर दीदी प्रोजेक्ट मोबाइल वॉइस आधारित सेवा

जन एक्सप्रेस। गोला, गोरखपुर

विकास खंड गगहा अंतर्गत स्वास्थ्य उपकेंद्र कौवाडील के बेलसड़ा गांव में आशा बहु कमलेश देवी के नेतृत्व में हेलो डॉक्टर दीदी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की माता को स्वास्थ्य संबंधित दी गई जानकारी। कार्यक्रम में आशा बहु कमलेश देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि हेलो डॉक्टर दीदी प्रोजेक्ट मोबाइल वायस आधारित सेवा है जिसके लिए गर्भवती महिलाओं 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता को 07878 781003 पर मिस कॉल कर उन्हें पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद उन्हें उनकी सुविधा अनुसार साप्ताहिक आधार पर बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित ऑडियो संदेश प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं के साथ दो और से कम उम्र के बच्चे की नई माताओं और 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे की सामान्य माता के बीच पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए हेलो डॉक्टर दीदी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने विस्तार से दी जानकारी। इस अवसर पर कंचन मीरा देवी पूजा खुशबू ज्ञानमती किरण देवी शंभू यादव राजमान यादव जयशंकर तिवारी प्रदीप यादव राजकुमार कन्नौजिया दिलीप यादव अनुज कुमार यादव सहित महिलाओं ने बच्चों के साथ ग्रामीण भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए।

डेनटिस्ट ने कैम्प लगाकर की स्कूली बच्चों के दंत रोगों की जांच, दिए सुरक्षात्मक सुझाव

जन एक्सप्रेस। आनन्दनगर महराजगंज

नगर के मशहूर दंत चिकित्सक माउथ कैंसर रोग विशेषज्ञ दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अजीत सिन्हा के द्वारा शनिवार को नगर के चन्द्रा चिल्ड्रेन पब्लिक स्कूल आनन्द में निःशुल्क मेडिकल कैम्प का अयोजन किया गया। कैम्प में कुल 50 छात्र-छात्राओं का चेकप हुआ। डॉक्टर अजीत सिन्हा ने बताया कि इस चेकअप से यह जानकारी हुई है कि सभी लोग अपने-अपने दांतो व मसूड़ों की सुरक्षा का स्वयं उपाय और जरूरत के अनुसार समय समय पर उपचार करें। उन्होंने ने छात्रों को बताया कि दांतों को काफी हल्के से सफाई करनी चाहिए और जीभ को ऊँगली से ही साफ करें अन्यथा जीभ से स्वाद मिलनें वाले कारक कम हो जायेंगे। उन्होंने सुझाव देते हुए बताया कि सा मिडीएम ब्रश का प्रयोग करें और उसे राउऊंडप करके मुंह में घुमाएं। दांत की सफाई न होने से उसमें छोटे-छोटे कीड़े लगते है जो बहुत खतरनाक होते हैं।उन्होंने यह भी बताया हैं कि वैज्ञानिक चाहे जितना भी आगे क्यों न हो लेकिन ओरिजनल दाँत की कमी को दूर नहीं कर पाएंगें । इसलिए दांतो की सुरक्षा बहुत ही आवश्यक हैं ।इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक सुधेश मोहन श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य जगमोहन मिश्र, प्रशासनिक अधिकारी राजेश साहनी सहित अन्य अध्यापकगण मौजूद रहे।

डीजे पर डांस को लेकर मारपीट, बरातियों को बनाया बंधक

जन एक्सप्रेस। महराजगंज

थाना क्षेत्र अंतर्गत बढ़या मुस्किल गांव के टोला गोसाईपुर में शुक्रवार रात में शादी समारोह के दौरान डीजे पर नाचने को लेकर घरातियों और बरातियों में मारपीट हो गई, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। घटना से आक्रोशित घराती पक्ष ने बरातियों को बंधक बना लिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम लोगों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निचलौल में भर्ती कराया गया। उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में दूल्हे और दुल्हन की शादी कराई गई। जानकारी के मुताबिक कोतवाली ठूठीबारी थाना क्षेत्र के निपनिया गांव निवासी रामजस के बेटे शैलेश की बरात निचलौल थाना क्षेत्र के बढ़या मुस्तकिल गांव के टोला गोसाइपुर में गई थी।

करंट से संविदा कर्मी लाइन मैन की मौत, फाल्ट की सूचना पर गए थे लाइन ठीक करने

जन एक्सप्रेस। महराजगंज

महराजगंज स्थित नौतनवा कस्बे के वार्ड नंबर 8 मधुबन नगर नौतनवा में शनिवार को बिजली फाल्ट ठीक करते समय करंट की चपेट में आने से लाइन मैन की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया।
महराजगंज स्थित नौतनवा कस्बे के वार्ड नंबर 8 मधुबन नगर नौतनवा में शनिवार को बिजली फाल्ट ठीक करते समय करंट की चपेट में आने से लाइन मैन की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया।
जानकारी के मुताबिक, परसा मलिक थाना क्षेत्र के सिरसिया खास टोला इमलिहवा निवासी दिनेश मौर्या 40 वर्ष विद्युत वितरण उप खंड नौतनवा में संविदा पर लाइन मैन थे। शनिवार को दोपहर बाद लगभग तीन बजे नौतनवा वार्ड नंबर 8 मधुबन नगर नौतनवा में शटडाउन लेकर लाइन ठीक कर रहे थे कि अचानक करंट की चपेट में आ गए, जिससे वह पोल से नीचे गिर गए। जानकारी मिलते मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने तत्काल इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी अनीता दहाड़े मार रोते हुए अचेत हो जा रही थी। जानकारी मिलते ही मौके पर जेई संजीत कुमार तथा विद्युत कर्मी पहुंच गए। जेई संजीत कुमार ने बताया कि मृतक दिनेश संविदा पर लाइन मैन थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया कि मृतक की पत्नी अनीता की तहरीर पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

फास्ट फॉरवर्ड

मोहर्रम को लेकर एसडीएम और एसीपी ने किया जुलूस के मार्ग का निरीक्षण

जन एक्सप्रेस/आगरा। शनिवार को एसडीएम संदीप यादव और एसीपी इमरान अहमद ने ताजिए - मोहर्रम के जुलूस को लेकर नगर के मार्गों और ताजिये रखे जाने वाली चौकियों का निरीक्षण किया गया। एसडीएम संदीप यादव और एसीपी इमरान अहमद ने मुस्लिम समाज के व्यक्तियों से ताज़िए - मोहर्रम के जुलुस के संबंध में वार्ता की और समय से जुलुस को समाप्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम संदीप यादव ने जुलूस के मार्ग में झूल रहे विद्युत तारों को सही करने और मार्ग की साफ सफाई के निर्देश दिए और साथ ही चौराहों और मार्गों पर से अतिक्रमण हटाने और 133 की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान थाना प्रभारी देवकरण सिंह सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

भक्ति भाव से मना भगवान नेमिनाथ स्वामी का निर्वाण कल्याणक महोत्सव

जन एक्सप्रेस/आगरा। कस्बा में शनिवार के दिन जैन धर्म के 22वे तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का निर्वाण मोक्ष कल्याणक दिवस बड़े ही धूम धाम से मनाया गया। शनिवार की सुबह से जैन मंदिर पर अनुयाइयों की भीड़ एकत्रित होने लगी । सर्वप्रथम भक्तों ने मूलनायक भगवान नेमिनाथ स्वामी का भव्य महाअभिषेक एवं शांतिधारा सम्पन्न की । जिसे करने का सौभाग्य प्रमुख रूप से मुकेश, दिनेश, दीपेश जैन राजा जैन ऋषभ जैन रपरिया बर्तन भंडार परिवार को मिला, भगवान की आरती करने का सौभाग्य सितारा जैन परिवार को एवं भगवान को विशेष लाडू चढ़ाने का अवसर नेमिनाथ महिला मंडल की महिलाओं को मिला । इसके बाद बाहर से आये हुए पंडित मनीष शास्त्री जी एवं संगीतकार विशाल एंड टीम द्वारा श्री 1008 नेमिनाथ महामंडल विधान को शुद्ध भावों से करवाया। विधान के पुण्यार्जक परिवार अशोक कुमार विकास जैन अभिषेक राहुल जैन बजाज परिवार रहा। कार्यक्रम मे जैन समाज के अशोक जैन उमेश जैन संजय जैन नवीन जैन मुकेश जैन राजा जैन विकाश जैन नीलेश जैन संदीप अंकुश हर्षित ऋतिक महिला वर्ग से सितारा जैन शोभा जैन संध्या जैन सीता जैन बबिता जैन अक्षिता खुशी नेन्सी आदि ने प्रभू की पूजा आराधना कर पुण्यलाभ लिया।

गोमांस के शक में भीड़ ने तीन ऑटो रिक्शा का पीछा कर एक टेम्पो को पकड़ा

जन एक्सप्रेस/आगरा। शनिवार सुबह फतेहपुर सीकरी से आगरा की ओर जा रहे तीन ऑटो रिक्शा जा रहे थे। कौंरई टोल के पास पीआरवी गाड़ी पर तैनात पुलिसकर्मी टेंपो को साइड में रोककर खड़े थे। ग्रामीणों ने गोमांस होने के शक पर क्षेत्र में सूचना दे दी। तथा सूचना पर अखंड भारत परशुराम सेना के संगठन मंत्री पुरुषोतम वशिष्ठ ने कार्यकर्ताओं के साथ तीनों टेम्पो का पीछा कर किरावली के अभुआपुरा स्थित गोपऊ नहर पर तीनो टेम्पो को रुकवाया। दो अज्ञात टेम्पो चालक यू टर्न लेकर फतेहपुर सीकरी की तरफ भाग गए तथा एक टेम्पो जिसमे तीन कट्टों में मांस भरा हुआ था उसको पकड़ लिया। मौके पर जुटे ग्रामीणों और राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी मौके पर तत्काल चौकी इंचार्ज योगेंद्र सिंह, आरक्षी अजय प्रकाश, देवेंद्र तेवतिया ने टेंपो व चालक को हिरासत में लेकर थाने ले आए और टेम्पो चालक से नाम पूछने पर चालक ने अपना नाम जीशान पुत्र शब्बीर निवासी मोहल्ला मुत बलवान कस्बा फतेहपुर सीकरी बताया।

जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत में 50152 वादों का हुआ निस्तारण

जन एक्सप्रेस। अम्बेडकर नगर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शनिवार को जनपद न्यायालय परिसर, में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राम सुलीन सिंह, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की अध्यक्षता में माँ सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष दीपार्चन एवं पुष्पार्चन करके रामायण शर्मा, अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, मोहन कुमार, विशेष न्यायाधीश, पाक्सो अधिनियम /नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत की उपस्थिति में एवं भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के देख-रेख में एवं जनपद न्यायालय के समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण तथा बार एसोसिएशन के सदस्यगण की उपस्थिति में कराया गया।
इसी क्रम में पुरानी कचहरी अकबरपुर स्थित पारिवारिक न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अनिल कुमार सिंह प्रथम, प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय द्वारा माँ सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष दीपार्चन, पुष्पार्चन एवं माल्यार्पण करके पारिवारिक न्यायालय के कर्मचारीगण एवं वादकारीगण की उपस्थिति में कराया गया।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 14 अदालतें लगायी गयी। रामायण शर्मा, अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, द्वारा 03 वादों का निस्तारण किया गया। अनिल कुमार सिंह-प्रथम, प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय द्वारा 25 वैवाहिक एवं पारिवारिक वादों का निस्तारण किया गया। राम बिलास सिंह, विशेष न्यायाधीश एस0सी0 / एस0टी0 अधिनियम, द्वारा 04 वादों का निस्तारण करते हुए रू0 2000/- (दो हजार रूपये) का अर्थदण्ड आरोपित गया। मोहन कुमार, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, द्वारा 02 वादों का निस्तारण करते हुए रू0 1000/- (एक हजार रूपये) का अर्थदण्ड आरोपित गया। सुशील कुमार चतुर्थ, अपर जिला जज, त्वरित प्रथम, द्वारा 02 वादों का निस्तारण करते हुए रू0 2500/- (दो हजार पांच सौ रूपये) का अर्थदण्ड आरोपित गया। परविन्द कुमार, अपर जिला जज त्वरित द्वितीय, द्वारा 73 वाद का निस्तारण

करते हुये 8000/- (आठ हजार रूपये) का अर्थदण्ड आरोपित किया गया, श्रीमती सुधा यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा सबसे अधिक 5013 वादों का निस्तारण करते हुए रू0 251,280/- (दो लाख इक्यावन हजार दो सौ अस्सी रूपये) का अर्थदंड आरोपित किया गया। शैलेश कुमार मौर्य, सिविल जज, (सी0डी0) द्वारा 02 वादों का निस्तारण किया गया। श्रीमती ज्योत्सना मणि यदुवंशी, अपर सिविल जज (सी0डी0) अम्बेडकरनगर द्वारा 1561 वादों का निस्तारण करते हुये 2210/- (दो हजार दो सौ दस रूपये) का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। सुश्री गार्गी, सिविल जज (सी0डी0) त्वरित / अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा कुल 2106 वादों का निस्तारण करते हुए 12.760/- (बारह हजार सात सौ साठ रूपये) का अर्थदंड आरोपित किया गया एवं 4,75,000/- (चार लाख पचहत्तर हजार रूपये) का समझौता पक्षकारों के मध्य कराया गया। सुश्री मेघा चौधरी, सिविल जज (जू0डी0) द्वारा कुल 1630 वादों का निस्तारण करते हुए 3,260/- (तीन हजार दो सौ साठ रूपये) का अर्थदंड आरोपित किया गया एवं 10,48,966/- (दस लाख अडतालिस हजार नौ सौ छियासठ रूपये) का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया। अभिषेक सिंह-III, सिविल जज (जू0डी0) टाण्डा, द्वारा कुल 2290 बादों का निस्तारण करते हुए रू0 7000/- (सात हजार रूपये) का अर्थदंड आरोपित किया एवं 1,55,496.92/- (एक लाख पचपन हजार चार सौ छियानवे रूपये) का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, द्वारा 20 वादों का निस्तारण करते हुये 43,02,955/- (तैंतालिस लाख, दो हजार, नौ सौ पचपन रूपये) क्षतिपूर्ति दिलवाई गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद न्यायालय के समस्त न्यायालयों द्वारा कुल 12710 वाद, जनपद के राजस्व न्यायालयों द्वारा कुल 16798 राजस्व वाद, विद्युत विभाग के 5009 वाद एवं जनपद के अन्य विभागों द्वारा 14993 वाद, बैंक ऑफ बडौदा, बड़ौदा उ0प्र0 ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक सहित जनपद के अन्य बैंकों द्वारा स्टाल लगाकर642 वाद निस्तारित करते हुये 4,28,39,085/- रू0 का समझौता किया गया जिसमें से 1,38,40,084/- रू0 तत्काल वसूल किया गया। इस प्रकार कुल प्री-लिटिगेशन के 37742 वादों का निस्तारण हुआ। कुल मिलाकर इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 50152 वादों का निस्तारण किया गया।
इसके अतिरिक्त उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दिनांक 10, 11, 12 जुलाई को आयोजित लघु आपराधिक वादों (Petty Offence) की विशेष लोक अदालत में जनपद न्यायालय के समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा 579 बाद नियत करते हुये 204 वाद निस्तारित किये गये। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में राजन राठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट / प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जनपद न्यायालय, नवनीत पाठक, प्रभारी, अग्रणी जिला प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शिव कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जनपद न्यायालय, अमित कुमार वर्मा, न्यायालय प्रबन्धक, मनोज कुमार पाण्डेय, केन्द्रीय नाजिर, ओमकेश पाण्डेय, सहायक नाजिर, अंकुर पाण्डेय, कम्प्यूटर आपरेटर, जि0वि0 से0 प्रा0, प्रदीप कुमार, लिपिक, जि0वि0 से0प्रा0, इशरतुल्लाह, लिपिक, जि0वि0से0 प्रा0, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम के अधिवक्तागण रमेश राम त्रिपाठी, राजेश तिवारी शरद पाण्डेय सुश्री बुतूल जेहरा उपस्थित रहे व फ्रंट आफिस एवं लीगल एड क्लीनिक एवं ई-सेवा केन्द्र पर नियुक्त पराविधिक स्वंय सेवकों सहित अन्य वादकारीगण व अधिवक्तागण आदि उपस्थित रहे।

चिंगारी गैंग पर पुलिस ने कसा शिकंजा दो अभियुक्त गिरफ्तार

जन एक्सप्रेस। अम्बेडकर नगर

जनपद पुलिस द्वारा अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अहिरौली पुलिस टीम व स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में पुलिस द्वारा शनिवार को चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्त क्रमशः 19 वर्षीय सौरभ यादव उर्फ मनीष यादव पुत्र स्वर्गीय रमेश यादव निवासी ग्राम मड़ियावा थाना अहिरौली वह 18 वर्षीय अनुज तिवारी उर्फ आदर्श तिवारी पुत्र राजकुमार तिवारी निवासी ग्राम चेतन पट्टी थाना भीटी को मुस्लिम पट्टी पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर कुल 6 चोरी की

मोटरसाइकिल वह एक चोरी का कंप्यूटर सेट मय प्रिंटर बरामद किया गया गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई करते हुए संबंधित न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया गया उक्त अभियुक्त चिंगारी गैंग के सक्रिय सदस्य थे मुख्य अभियुक्त गैंग का लीडर अभी फरार है।

बाइक पर बैठकर कोचिंग जा रहे थे चार छात्र, एसीपी ने की बाइक सीज

जन एक्सप्रेस/आगरा। कस्बे के मैन चौराहे पर एसडीएम संदीप यादव और एसीपी इमरान अहमद कस्बे के चौराहों और मार्गों से अवैध अतिक्रमण को हटवाने और अतिक्रमण करने वालों पर कार्यवाही के लिए पुलिसकर्मियों को निर्देशित कर रहे थे कि तभी कोचिंग जाने के लिए निकले चार युवक एक बाइक पर बैठकर उन्हीं के पास से निकल रहे थे। एसडीएम और एसीपी की बाइक पर नजर पड़ी तो तत्काल बाइक को पकड़ा और बाइक को सीज कर थाने लाया गया। बाइक सीज करने के बाद एसीपी इमरान अहमद ने युवकों को समझाया कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बाइक चलाना अपराध है। अभी तुम नाबालिग हो तुम बाइक नहीं चल सकते। बाइक पर हेलमेट लगाकर दो लोग जा सकते हैं और तुम चार बैठे हो। नाबालिग के बाइक चलाने पर अभिभावकों पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। यातायात के नियमों का पालन करो।

ग्यारहवीं के बच्चों को मिलेगी स्कॉलरशिप

जन एक्सप्रेस। सुल्तानपुर

जयसिंहपुर क्षेत्र के ठाकुर यदुनाथ सिंह स्मारक इंटर कॉलेज दानुपट्टी में आए पूर्व ड्डस् अधिकारी देवी प्रसाद दूबे जी ने ग्यारवी के मेधावी छात्र-छात्राओं को 500 रुपए प्रतिमाह स्कॉलरशिप देते हुए उन्होंने दसवीं के छात्र-छात्राओं को अगले वर्ष बेहतर परिणाम हेतु कई विषयों पर चर्चा की। उन्होंने स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत करते हुए विद्यालय में 11वीं कक्षा में अध्यनरत कुल सात छात्र छात्राओं को अप्रैल माह से जून माह तक के लिए ?1500 प्रदान किए। बच्चों को आगामी वर्ष 2025 की परीक्षा हेतु अग्रिम बधाई देते हुए अत्यधिक मेहनत करने की बात की उन्होंने बताया कि हाईस्कूल की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 7 छात्र/ छात्राओं को हर वर्ष 500 रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी।विद्यालय की प्रगति से

आह्लादित श्री दूबे ने आगामी भविष्य के लिए बधाई देते हुए उन्होंने उन्हे लगन से मेहनत करने की सलाह दी। डॉ नरेंद्र प्रताप सिंह ने श्री दूबे जी के इस योजना पर आभार प्रकट करते हुए बताया कि मेहनती बच्चों को बेहतर शिक्षा ग्रहण करने में आर्थिक बाधा नहीं उत्पन्न होने दिया जाएगा। श्री दूबे जी ने अपने जीवन की कुछ रोचक घटनाओं के साथ बच्चों को प्रेरित भी किया इस मौके पर श्री जगदंबा प्रसाद दुबे जी डॉ नरेंद्र प्रताप सिंह जी लालजी जी व अन्य लोग उपस्थित रहे विद्यालय प्रबंधक वैभव रघुवंशी ने श्री दूबे जी का हृदय से आभार व्यक्त किया और बताया कि इस स्कालरशिप योजना से बच्चों में और अच्छा करने की प्रेरणा आएगी।

लखनऊ-वाराणसी रेल मार्ग पर ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध की मौत

जन एक्सप्रेस। सुल्तानपुर

ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध की मौत हो गई। वृद्ध अपने घर से निकलकर रेलवे ट्रैक पार करके उस पार जा रहा था। परिजनों के अनुसार उन्हें कम सुनाई देता था। ग्रामीणों ने बताया कि उस समय रेलवे ट्रैक पर दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा रही थी।
मिली जानकारी के अनुसार लंभुआ नगर पंचायत के शिवनगर निवासी जोखन उम्र 65 वर्ष पुत्र फेरई घर से निकले थे। रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से इस बुजुर्ग की मौत हो गई। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने जीआरपी व लम्भुआ कोतवाली पुलिस को घटना की सूचना दी।
पुलिस द्वारा घटना की सूचना परिवार वालो को दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि बुजुर्ग जोखन को कान से कम सुनाई देता था। वही मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर उसी समय दोनों तरफ से रेलगाड़ी आ जा रही थी। जिसकी चपेट में आने से वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। लंभुआ कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वही घटना को लेकर परिवार में कोहराम मचा है।

ब्लॉक परिषद में दुर्घटना को दावत दे रहा है सूखा पेड़, महकमा मौन

जन एक्सप्रेस। लंभुआ/सुल्तानपुर

ब्लाक परिसर में आम के दो पेड़ सूख गए हैं, जिनकी टहनियां दिन-ब-दिन गिरती रहती हैं।जबकि यहीं बगल में ही कई विभागों के कार्यालय मौजूद हैं, ब्लाक में अधिकारी/कर्मचारी बगल ही मौजूद लाभार्थी मिलन केंद्र में आए दिन आम जनमानस के साथ बैठक करते रहते हैं।
लंभुआ ब्लॉक परिसर में आम के दो सूखे पेड़ दुर्घटना को दावत देने के लिए मौजूद है। थोड़े हवा के झोंके से ही इनकी टहनियां टूट कर परिसर में गिर करती हैं। जबकि इसी परिसर में बाल विकास परियोजना का कार्यालय और गोदाम मौजूद है, जिसमें आंगनबाड़ी की महिलाएं और समूह की महिलाएं पहुँचकर पुष्टाहार ले जाने का कार्य भी करती हैं।वहीं बगल ही राजकीय बीज भंडार और राजकीय कृषि इकाई का कार्यालय मौजूद है।जहां पर किसान गोदाम से

खाद और बीज प्राप्त करते हैं,वहीं सम्मान निधि के लिए भी अगल-बगल के ग्रामीण किसान पहुंचकर संशोधन आदि का कार्य भी करवाते हैं। समीप ही मौजूद सामुदायिक मिलन केंद्र में आए दिन प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य समेत विधायक और आम जनमानस की बैठक भी होती रहती है। इस परिसर में आम जनमानस का आना-जाना लगा रहता है।सुखी पेड़ कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसी परिसर में ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शीतला प्रसाद सिंह की प्रतिमा सस्थापित की गई है व बगल में ही कीर्ति स्तंभ की पुनर्स्थापना भी की गई है। खंड विकास अधिकारी ज्ञानेंद्र मिश्रा ने बताया कि सूखे पेड़ मूल्यांकन के सापेक्ष में सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सुल्तानपुर को बीते दिनों पत्र निर्गत कर सूचित किया गया है।
वन क्षेत्र अधिकारी अतुल सिंह ने बताया सूखे पेड़ों का मूल्यांकन करके खंड विकास अधिकारी को सौंप दिया गया है अब खंड विकास अधिकारी इसे नीलाम कर कटवा सकते हैं।

उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में थाना दिवस का हुआ आयोजन

जन एक्सप्रेस। लंभुआ/सुल्तानपुर

स्थानीय कोतवाली परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया। थाना दिवस का कार्यक्रम उप जिलाधिकार लंभुआ विदुशी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जिसमें फरियादी अपनी फरियाद लेकर उनके समक्ष पहुंचे उनकी फरियाद को सुनते हुए उप जिलाधिकारी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए जांच कर निस्तारण करने को आदेशित किया। इस दौरान फरियादियों के विभिन्न मामलों के कुल 13 प्रार्थना पत्र आए। इस मौके पर पुलिस विभाग से मौजूद रहे क्षेत्राधिकारी अब्दुस सलाम खान कोतवाली प्रभारी अखंड देव मिश्रा राजस्व विभाग से लेखपाल संदीप वर्मा,लेखपाल ब्रजेश उपाध्याय, लेखपाल रिंकू पाल आदि अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

इमाम हुसैन ने अली अकबर के सीने से निकाली बरछी

जन एक्सप्रेस। सुल्तानपुर

वक़्फ़ इमामबाड़ा हयातनगर मे दिन की मजलिस डॉ ज़ैगम मेंहदी के घर पर हूई रात की मजलिस शबीह हैदर की जानिब से इमामबाड़े मे हूई मजलिस को खेताब करते हुये मौलाना बाकर सज्जाद ज़ैदी ने अली अकबर का मासायब पढ़ा उन्होने बताया की जनाबे अली अकबर की उम्र 18बरस थी अली अकबर अपने बाबा हुसैन से कहा मुझे मैदाने जंग की इजाज़त दीजिए इमाम हुसैन अली अकबर को बहुत प्यार करते थे अली अकबर की शहादत के बाद इमाम हुसैन की कमर झुक गई थी इमाम हुसैन ने अली अकबर को अपने हाथों से तैयार किया और घोड़े पर सवार किया कहा बेटा जाओ खुदा हाफ़िज़ जब तक हमारा तुम्हारा सामने रहें तुम मुड़ मूड़ के देखते रहना इमाम हुसैन अली अकबर को

देख रहें थे अली अकबर ने कहा बाबा आप ने तो मुझे रुखसत कर दिया था इमाम हुसैन ने कहा बेटा काश तुम साहिबे औलाद होते तो तुम्हे पता लगता बाप के दिल मे बेटे की कितनी मोहब्बत होती है अली अकबर मैदाने क़र्बला मे पहुचे जंग करना शुरू किया ज़ालिमो ने अली अकबर को चारो तरफ से घेर लिया और तीरों की बारिश हूई एक ज़ालिम ने ऐसा नैज़ा मारा की अली अकबर के सीने मे लगा अली अकबर घोड़े से ज़मीन पर गिरे आवाज़ दीं बाबा मदद को आइये इमाम हुसैन मैदाने क़र्बला पहुचे अली अकबर के सीने से बरछी निकली और इमाम हुसैन के हाथों पर अली अकबर की शहादत हो गई ये सुनकर सभी की आँखे नम हूई और अंजुमन असगीरया ने नौहा मातम किया। यह जानकारी कमेटी तमन्ना -ए -मूसा के अध्यक्ष कायम मेंहदी चाँद ने दीं।

थाना समाधान दिवस में सुनी गई फरियादियों की शिकायतें

जन एक्सप्रेस। आगरा

शनिवार को थाना परिषर में थाना समाधान दिवस का आयोजन हुआ जिसमें कस्बा एवं ग्रामीण क्षेत्र से फरियादियों द्वारा की गई शिकायतों का प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर ही निस्तारण किया।
थाना प्रभारी धर्मेंद्र दहिया की अध्यक्षता में आयोजित थाना समाधान दिवस में अधिकतर शिकायत हैं खेत, मेढ़, प्लॉट पर कब्जे की आई, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। ग्राम सहनपुर के ताराचंद ने अपनी ही जमीन में शिव मंदिर बनाने व विपक्षी द्वारा परेशान करने की शिकायत की वही ग्राम सिकरौदा के किसान हुकम सिंह ने खेत को कब्जाने की शिकायत की साथ ही कस्बा की पीर की पटिया निवासी लखन देवी ने प्लॉट खरीदने

के बाद भी कब्जा नहीं दिए जाने की शिकायत की, सामरा के सुखराम ने खेत की मेढ़ पर मुद्दी गाड़ने की शिकायत की इसके अलावा दर्जन भर अन्य शिकायतें भी आई जिनका प्रशासन व पुलिस ने मौके पर ही निस्तारण किया। इस दौरान प्रमुख रूप से राजस्व निरीक्षक लाखन सिंह, संजय ठाकुर, कस्बा चौकी प्रभारी दिनेश कुमार, लेखपाल शिव कुमार सैनी, सौरभ कुमार, भूपेंद्र सिंह, नारायण सिंह, ज्योति सिंह, सरदार सिंह चौहान, क्राइम इंस्पेक्टर प्रदीप समेत कई मौजूद रहे।

समाधान दिवस में आई 2 शिकायतों में से 1 का हुआ निस्तारण

आगरा/खेरागढ़। शनिवार को थाना खेरागढ़ मे समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस एसडीएम संदीप यादव और एसीपी इमरान अहमद की अध्यक्षता में थाना परिसर में लगाया गया। सभी फरियादों की शिकायतें सुनी गई। समाधान दिवस में 2 शिकायतें आई जो कि राजस्व से सम्बंधित थी। मौके पर एक शिकायत का निस्तारण कर दिया गया। एसडीएम संदीप यादव तथा एसीपी इमरान अहमद द्वारा शेष शिकायत को एक सप्ताह में निस्तारित करने का निर्देश दिए गए। इस दौरान थाना प्रभारी देवकरन सिंह,राजस्व निरीक्षक चुन्नीलाल और लेखपाल आदि मौजूद रहे।

थाना दिवस में अछनेरा में 10 और किरावली में 11 शिकायतें आईं, मौके पर 16 का हुआ निस्तारण

आगरा/किरावली। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को मौके पर ही न्याय देने के उद्देश्य से माह के दूसरे और चौथे शनिवार को प्रत्येक थाने पर लगने वाले थाना दिवस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन को देखते हुए फरियादियों की भीड़ बढ़ गई। थाना अछनेरा में 10 फरियादी पहुंचे जिनमें से 9 शिकायत राजस्व की और विकास विभाग और एक शिकायत पुलिस की मिली। अधिकारियों ने मौके पर टीम भेज कर छह शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। थाना प्रभारी अछनेरा विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि बची हुई चार शिकायतें तीन राजस्व व एक पुलिस की है जिनका जल्द ही निस्तारण करा दिया जाएगा। वहीं थाना किरावली पर 11 शिकायत दर्ज हुईं। ज्यादातर शिकायत राजस्व विभाग की थीं। थाना प्रभारी किरावली केबल सिंह ने बताया कि मौके पर टीम भेजकर नौ शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया।

उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न

- योगी सरकार में पत्रकारों का विशेष सम्मान: धर्मपाल सिंह
- मीडियाकर्मी शासन, ब्यूरोक्रेसी को दिखाते सच्चाई का आईना: उमेश गौतम

जन एक्सप्रेस । मुकेश कुमार

पीलीभीत। शनिवार को जनपद के बैंकट हॉल में उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पीलीभीत इकाई का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया। जिसमे बतौर मुख्य अतिथि सूबे के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह व विशिष्ट अतिथि मेयर बरेली डा. उमेश गौतम ने शिरकत की, कैबिनेट मंत्री, बरेली महापौर डा. उमेश गौतम ने पत्रकारों को गोपनीयता की शपथ ग्रहण दिलाई। कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि योगी सरकार में पत्रकारों का सम्मान बढ़ा हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा सरकार निरंतर पत्रकारों के हित में काम कर रही है। वहीं विशिष्ट अतिथि बरेली मेयर डा. उमेश गौतम ने कार्यक्रम में शमा बांधते हुए पत्रकारों की बात करते हुए कहा किसी भी विषम परिस्थितियों में हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह व बरेली के मेयर डा.उमेश गौतम ने विशेषकर बरेली से पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार सहारा समय से कुमार विनय, भारत समाचार से दीपक शर्मा, राष्ट्रीय सहारा से अमित नारायण शर्मा, राशिद अली आदि को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम में जिला सूचना आफिस की बिल्डिंग को लेकर मंत्री धर्म पाल सिंह ने कहा कि सरकार पहली प्राथमिकता विकास की हैं। पीलीभीत जिले में सूचना विभाग की अपनी जमीन हैं। लेकिन किसी कारण बस बजट आवंटित नहीं हो सका हैं। सरकार शासन से इस मामले में खास पैरवी की जायेगी और आश्वस्त करता हूं कि इसमें प्रभावी पैरवी की जायेगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने अपने-अपने उद्बोधन में पत्रकारों के हित में कहा।

कार्यक्रम में दिग्गज रहे मौजूद, सभी ने दी शुभकामनाएं

आज हुए शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री धर्म पाल सिंह, विशिष्ट अतिथि बरेली महापौर डा. उमेश गौतम, बीजेपी जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, जिला सूचना अधिकारी विपिन कुमार, यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी, प्रदेश महामंत्री रमेश शंकर पांडेय, प्रदेश संगठन मंत्री सुधीर दीक्षित, प्रदेश उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष अनिल सिंह, पीलीभीत जिले के जिलाध्यक्ष हरि पाल सिंह, जिले के वरिष्ट उपाध्यक्ष अर्जदेव सिंह, उपाध्यक्ष करन सिंह, जिला संगठन मंत्री विक्रांत शर्मा,सह संगठन मंत्री महेश कौशल, अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा, बिलसंडा अध्यक्ष सुरेश जायसवाल, पूरनपुर अध्यक्ष राम करन शर्मा, गजरौला अध्यक्ष सर्वेश शर्मा, अमरिया अध्यक्ष मो. आरिफ, समेत सात इकाई के सभी पदाधिकारी और सदस्य ने शपथ ली।

जिला सूचना विभाग की बिल्डिंग का उठा मुद्दा, मंत्री बोले जल्द होगा बजट आवंटन

कार्यक्रम में जिला सूचना विभाग के कार्यालय की बिल्डिंग का मुद्दा गूंजा कैबिनेट मंत्री धर्म पाल सिंह ने कहा कि विभाग की अपनी जमीन है लेकिन बजट किस कारण बस नही आया इसको दिखवाया जायेगा और इस समस्या का समाधान के लिए शासन से बात की जायेगी। कार्यक्रम के अंत में पीलीभीत प्रेस क्लब एसोसिएशन रजिस्टर के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पंजीकृत के मंडल अध्यक्ष अनिल सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया और जलपान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

इन लोगों ने ली पद गोपनीयता की शपथ..

शहर के निजी बैकट लॉन में पीलीभीत की गजरौला इकाई, पूरनपुर इकाई, बिलसंडा इकाई, बरखेड़ा इकाई, बीसलपुर इकाई, अमरिया इकाई, समेत जिले की इकाई के पदाधिकारियों समेत कार्यकारिणी सदस्यों ने गोपनीयता की शपथ ली। कार्यक्रम का आयोजन पीलीभीत जिला इकाई के सभी पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य साक्षी बने।

भाजपा विधायक ने प्रदेश की राजनीति में केंद्र से हस्तक्षेप की उठाई मांग

- विधायक बदलापुर का सोशल मीडिया पर प्रसारित बीडियो बना चर्चा का विषय
- 2027 में पुन: सरकार बनाने के लिए केंद्र को कड़े फैसले लेने की दी सलाह

जन एक्सप्रेस । जौनपुर

बदलापुर से लगातार दूसरी बार चुने गए भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्र का अपनी ही सरकार के विषय में दिए गए बयान का एक वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहा। सोशल मीडिया पर प्रसारित उक्त वीडियो में श्री मिश्र यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में जनता के बीच जिस तरीके से पीडीए के नाम पर भ्रम फैला रही है उससे नहीं लगता है कि हम 2027 में फिर से सरकार बना पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार बन सकती है किंतु इसके पूर्व केंद्र को प्रदेश की राजनीति में हस्तक्षेप करते हुए कुछ बड़ा निर्णय लेना होगा। ऐसा पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा जनप्रतिनिधियों सहित सभी का मानना है। वहीं भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्र के द्वारा कही गई बात से जहां भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ गया है वहीं आम जनमानस के द्वारा भी विधायक की चारों तरफ वाह वाही हो रही है लोगों को मानना है कि जिस तरीके प्रदेश में अधिकारियों का बोलबाला चल रहा है जन प्रतिनिधियो नेता सब बौने साबित हो गए उसमें से कोई तो सच्चाई कहीं वैसे वीडियो में कही गई बातों को लोग प्रदेश नेतृत्व पर निशाना साधे जाने तथा नौकरशाही की मनमानी से भी लोग जोड़कर देख रहे हैं। गौरतलब हो कि एक दिन पूर्व प्रतापगढ़ जनपद के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह का भी तहसीलों व थानों में फैले भ्रष्टाचार के बारे में सार्वजनिक रूप से मतदाता अभिनंदन समारोह में दिया गया बयान सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है।

बदलापुर के झील पोखरा तालाब के सुंदरीकरण के लिए मिली सौगात

बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्र के प्रस्ताव पर बदलापुर नगर पंचायत अंतर्गत नगरीय झील तालाब पोखरा संरक्षण योजना अंतर्गत 1 करोड 97 लाख 36 हजार रुपए की सौगात नगर विकास मंत्रालय द्वारा मिली इस रास्ते की जानकारी नगर विकास शहरी समग्र विकास नगरी रोजगार गरीबी उन्मूलन ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा कैबिनेट मंत्री एक शर्मा ने पत्र के माध्यम से क्षेत्रीय विधायक रमेश सिंह मिश्रा को अवगत कराया श्री मिश्र द्वारा बताया गया कि उनका संकल्प है कि बदलापुर नगर पंचायत को सुंदर व सुसज्जित बनाने के एक आदर्श नगर पंचायत बनाने की जिसके लिए नगर पंचायत मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया।

खेत को जा रहे ग्रामीणों के दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष

जन एक्सप्रेस । पीलीभीत

बरखेड़ा।थाना क्षेत्र के ग्राम करोड़ में गाँव के ही विवादित खेत पर कब्जा करने को लेकर दोनों पक्षो में जमकर लाठी डंडो से झगड़ा हो गया ।रोकने जा रहे दूसरे लोगो के पक्ष ने रोकने की कोशिश की जिसके फलस्वरूप खेत जोत रहे लोगों ने झगड़ा शुरू करते हुए। कांता बंका एवं कुल्हाड़ी से प्रहार करना शुरू कर दिया जिससे लहूलुहान होकर दोनो पक्षो के 10 लोग घायल हो गये। बताया जा रहा है की 5 बीघा खेत पर विवाद के चलते उसका मुकदमा उपजिलाधिकारी बीसलपुर के न्यायालय में विचाराधीन हैं। उसी विवादित खेत पर एक पक्ष के 7 लोग महेशपाल वर्मा, जीवनलाल, जीवनलाल पुत्र पूरन लाल, प्रेमपाल पुत्र जागन लाल, जसवंत पुत्र रामदुलारे, राजेश कुमार, पप्पू लाल पुत्रगण जीवन लाल एवं दीपक पुत्र राजेश कुमार जबरन खेत जोतने को शनिवार को 3 बजे गये थे। जिसकी भनक दूसरे पक्ष छत्रपाल पुत्र रामचन्द्र ,नरेश पाल पुत्र छत्रपाल, मुनेन्द्र पाल पुत्र छत्रपाल एकत्र होकर रोकने पहुचे मोके पर विरोध देख जोत रहे लोगों ने लाठी डंडो ब कुल्हाड़ी से इन तीनों लोगों पर हमला कर लड़ाई-झगड़ा शुरू कर दिया ।वही दोनो पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडो से प्रहार करना शुरू कर दिया जिससे दोनो पक्ष के दस लोग घायल हो गये।जिन्हें निजी बाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद बरखेड़ा इलाज के लिये लाया गया ।जिसमे कुल्हाड़ी से घायल मुन्नेद्र पाल को गम्भीर होने पर जिला अस्पताल पीलीभीत रेफर कर दिया है। पूछे जाने पर थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया हैं कि अभी किसी पक्ष की कोई तहरीर नही मिली हैं तहरीर मिलने पर कार्यबाही की जाएगी। धटना की जांच कराई जा रही हैं।

जिला प्रोबेशन अधिकारी के हस्तक्षेप उपरांत रुका बाल विवाह

जन एक्सप्रेस । पीलीभीत

जिलाधिकारी पीलीभीत को जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया, थाना बरखेड़ा क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति अपने 17 वर्षीय पुत्री का बाल विवाह करने जा रहा है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को मौके पर पहुँच का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। जिला अधिकारी से प्राप्त निर्देश के क्रम में शानिवार को जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रगति गुप्ता के नेतत्व में प्रभारी निरीक्षक एएचटीयू मनोज कुमार मिश्रा एवं परियोजना समन्वयक चाइल्ड हेल्पलाइन निर्वान सिंह व थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुँच कर जाँच की, तो मामला सही पाया, बालिका का विवाह 15 जुलाई को सम्पन्न होना था, बारातघर भी बुक हो चुका था, विवाह की तैयारी भी चल रही था। टीम को देखकर परिजनों में हड़कम्प मच गया। बालिका ने भी बाल विवाह 15 जुलाई को होने की बात कही, बालिका के परिजनों से बालिका की आयु के संबंध में दस्तावेज मांगे, जिसमें शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया, जिसके अनुसार बालिका की आयु अभी 17 वर्ष 01 माह 05 दिन पायी गयी। टीम द्वारा परिजनों को हिदायत दी गई, कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार किसी भी 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह कानूनन अपराध है, जोकि बाल विवाह की श्रेणी में आता है, बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष या बाल विवाह को संपन्न कराने वालों को इस अधिनियम की धारा-9 के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास या 1 लाख रूपए का जुर्माना या दोनों सज़ा से दंडित किया जा सकता है। बालिका के परिजनों ने जाँच टीम को ग्राम प्रधान की मैजूदगी में लिखित में दिया गया कि वह अब अपनी बालिका की शादी 18 वर्ष पश्चात ही करेंगे। जांच टीम द्वारा बालिका को उसके परिजनों की मैजूदगी में बाल कल्याण समिति पीलीभीत के समझ प्रस्तुत किया जाएगा। समिति ने बालिका के परिजनों को आदेश दिया, वह बालिका का बाल विवाह न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। संयुक्त टीम में डीसीपीयू से संरक्षण अधिकारी रमनदीप कौर, चाइल्ड हेल्पलाइन परामर्शदाता मनिष्ठा गुल अंसारी, कां भानुप्रताप, अमित कुमार एवं महिला सिपाही सुनीता सम्मिलित रही।

भू माफिया के साथ मिलकर सरकारी जमीन कब्जा कराने वाला लेखपाल निलंबित

जन एक्सप्रेस । जौनपुर

उप जिलाधिकारी शाहगंज के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम सबरहद परगना अंगुली, तहसील शाहगंज, जौनपुर के लेखपाल के पद के कार्य अवधि में लेखपाल विकास सिंह के विरूद्ध उक्त ग्राम के गाटा संख्या 1037 पुराना गाटा संख्या 1866, जो पोखरी के रूप में दर्ज है, को विनिमय आवंटन प्रस्ताव में गाटा संख्या 1866 पोखरी को छुपाने एवं सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक आशुतोष श्रीवास्तव के 18 फरवरी 2023 में प्रसारित गाटा संख्या 1816 व 1037 की शिकायत करने पर लेखपाल द्वारा कोई कार्यवाही न करने तथा उक्त ग्राम के चूना भट्ठी के रूप में दर्ज जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा करने सम्बन्धी शिकायत पर कार्यवाही न करने आदि आरोप के बावत प्रकरण में विभागीय कार्यवाही करते हुए एक आरोप पत्र जारी किया गया, जिसकी प्रति श्री विकास सिंह लेखपाल ने 15 जून 2024 को प्राप्त किया और आरोप पत्र का जवाब श्री सिंह ने 06 जुलाई 2024 को प्रस्तुत किया। प्रथम दृष्टया श्री विकास सिंह लेखपाल का जबाब सन्तोषजनक नहीं पाया गया । प्रकरण गम्भीर प्रकृति के होने और उक्त लेखपाल के कार्य प्रणाली से राजस्व प्रशासन तहसील शाहगंज की छवि आम जनमानस में धूमिल होने तथा ग्राम सबरहद में असन्तोष एवं क्षोभ व्याप्त है। श्री सिंह के द्वारा शासकीय कार्यों में घोर शिथिलता बरती गयी, जिसके कारण ग्राम सबरहद में लोक शान्ति भंग हुई है। आरोप की गम्भीरता को देखते हुए श्री विकास सिंह लेखपाल को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

विधायक ने बांटे बाढ़ पीड़ितों को खाना के पैकेट

बरखेड़ा। राजस्व विभाग एवं क्षेत्रीय विधायक ने बांटी राहत सामग्री एवं भोजन के पैकेट। क्षेत्र के गाँव जंगीपुर जैतपुर ,एवं भैसाहा ग्वालपुर, शेखापुर में क्षेत्रीय विधायक स्वामी प्रवक्ता नंद ने 100 बाढ़ पीड़ितों को खाना के पैकेट बाँटे तथा जंगीपुर से भैसाहा को जाने बाली सड़क को रोड़ा से पटवाकर सड़क को आवागमन के लिये चालू कर दिया है।इस मौके पर तहसीलदार बीसलपुर करन सिंह लेखपाल आजाद हुसैन ग्राम प्रधान रुद्र पाल गंगवार एवं क्षेत्रीय लोग मौजूद रहें।

45 नवजात की माताओं को दिए उपहार

जन एक्सप्रेस । मिर्जापुर

महिला चिकित्सालय में शुक्रवार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। महिला कल्याण विभाग की ओर से 100 दिन की कार्ययोजना के तहत मातृ स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम में 45 नवजात कन्याओं की माताओं को पौधे और उपहार दिए गए। मुख्य अतिथि जिला विधिक प्राधिकरण के पूर्ण कालिक सचिव विनय आर्या ने कार्यक्रम का आरंभ किया। उन्होंने 45 बच्चियों की माताओं को बधाई पत्र, बेबी किट, बेबी बेड, और सेनेटरी पैड दिए। उन्होंने पीसीपीएनडीटी एक्ट की भी जानकारी दी। अध्यक्षता कर रही जिला प्रोबेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की सहायता राशि इस वित्तीय वर्ष से 15000 से बढ़ाकर 25000 रुपये कर दी गई है। इस योजना का लाभ उस दंपती को प्राप्त होता है, जिनको एक पुत्री अथवा एक पुत्र या दो पुत्रियां होती हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, सामान्य व निराश्रित महिला पेंशन, सामुहिक विवाह योजना के बारे में भी बताया गया। मिशन शक्ति के अंतर्गत जिले में संचालित वन स्टाप सेंटर की कार्यप्रणाली व दहेज उत्पीड़न संबंधी केसों के निस्तारण की जानकारी दी गई। जिले में संचालित 1098 चाइल्ड लाइन के कार्यों को भी बताया गया। कार्यक्रम में प्रभारी प्रधानाचार्य मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रभारी अधीक्षक मंडलीय अस्पताल डॉ. वंदना मौर्या ने भी जानकारी दी। वन स्टाप सेंटर की पूजा मौर्य, चाइल्ड लाइन के जिला कोऑर्डिनेटर अरुण, काउंसलर प्रियंका सिंह, प्रीति, राधिका सिंह व विवेक श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

बाढ़ बचाव: एसी बैग के ऊपर जीओ बैग लगाने की ग्रामीणों ने की मांग

जन एक्सप्रेस । पीलीभीत

हजारा (पूरनपुर)। बाढ़ के दौरान गांव राणा प्रताप नगर के किनारे पूर्व में बनाएं गये शारदा नदी के किनारे डौला नूमा बंधा बाढ़ के बेग से टूट गया था जिससे गांव में बाढ़ का पानी घुस गया था और ग्रामीणों को नुकसान एवं परेशानी से जूझना पड़ा था।इधर बाढ़ खंड के द्वारा टूटे बंधें का मरम्मत कार्य एसी बैग लगाते हुए शुरू कराया है मगर ग्रामीणों ने जीओ बैग लगाने की मांग किया है। गत दिवस ट्रांस शारदा क्षेत्र एवं नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में आईं भयंकर बाढ़ से समूचे क्षेत्र में भारी नुक़सान हुआ और जनहानि भी हो गई थी।इतना ही नहीं ट्रांस शारदा क्षेत्र के गांव राणा प्रताप नगर में शारदा नदी के किनारे बाढ़ खंड के द्वारा पूर्व में बाढ़ बचाव कार्य के तहत नदी के किनारे डौला नूमा बंधा बनाया गया था इस समय मरम्मत कार्य न होने के कारण इस बाढ़ में गांव राणा प्रताप नगर के सामने बंधा कई जगह से बाढ़ के तेज बहाव से कट गया और बाढ़ का पानी पूरे गांव में घुस गया था जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था।यहां बता दें कि बाढ़ खंड के द्वारा अभी हाल में ही राणा प्रताप नगर व नहरोसा के मध्य बाढ़ बचाव कार्य कराया गया था अगर बंधा का भी मरम्मत करा दिया गया होता तो बाढ़ में बंधा नहीं कटता। बाढ़ उतरने के बाद बाढ़ खंड एसी बैग लगाकर मरम्मत कार्य करा रहा है मगर ग्रामीणों ने एसी बैग के ऊपर एक सतह जीओ बैग लगाने की मांग किया है। मांग करने वालों में प्रमुख रूप से प्रधान रमावती देवी पूर्व बीडीसी शशिकला शर्मा, अनिल कुमार, राजेश कुमार, पूर्व प्रधान हरीश खंडूजा, मोहम्मद फारुख, परवेज खान रोहित गौतम, शकील अहमद अंसारी, कमरुद्दीन अंसारी आदि लोग शामिल रहे। उधर बाढ़ खंड के एसडीओ अमित सिंह ने बताया है कि जीओ बैग लगाने के लिए उच्चाधिकारियों से बात कर लगवाने का प्रयास करेंगे।

जल निकासी और शौचालय के मुद्दे उठाए

मिर्जापुर। विभिन्न विकास खंड की दो-दो ग्राम सभाओं में शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों ने जल निकासी और आवास, शौचालय, पेंशन तथा पीएम सम्मान निधि का मुद्दा उठाया। हालांकि बारिश के चलते फरियादियों के न पहुंचने से ज्यादातर ग्राम पंचायतों में सिर्फ कोरम पूरा किया गया। पहाड़ी विकास खंड के कनौरा व बेलवन, मझवां में रामचंदरपुर व मटियारी, सिटी विकास खंड के पडरा हनुमान व वीरपुर, कोन में मझिगवां व भटेवरा में आयोजन हुआ। इसी प्रकार छानबे विकास खंड के बसेवरा कलां व नगवासी, लालगंज के पतुलकी व धसड़ा, गोकुल में आयोजन हुआ।

टैबलेट स्मार्टफोन का सदुपयोग करें छात्र-छात्राएं: सांसद बाबू सिंह कुशवाहा

- अभिमन्यु यादव पीजी कॉलेज लपरी में स्मार्टफोन का वितरण

जन एक्सप्रेस । जौनपुर

सरायख्वाजा के लपरी गांव में स्थित अभिमन्यु यादव पीजी कॉलेज में स्मार्टफोन व टैबलेट का वितरण छात्र-छात्राओं को सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने किया और इस दौरान उन्हें तकनीकी शिक्षा पर जानकारी दी और टैबलेट स्मार्टफोन का सकारात्मक सदुपयोग के लिए जोर दिया। बता दें कि अभिमन्यु यादव पीजी कॉलेज में स्नातकोत्तर के छात्र-छात्राओं को स्मार्टफोन व टैबलेट का वितरण मुख्य अतिथि लोकसभा सदर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने किया, उन्होंने छात्र-छात्राओं को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसमें स्मार्टफोन टैबलेट पठन-पाठन के लिए दिया जा रहा है आज तकनीकी दुनिया में इसका सदुपयोग करें और जिससे वह पूरी दुनिया की जानकारी स्मार्टफोन से प्राप्त कर एक अच्छी तैयारी प्रतियोगी परीक्षाओं में कर सकते हैं। अध्यक्षता प्रबंधक मुन्नेलाल यादव ने किया ,उन्होंने छात्रों को तकनीकी शिक्षा पर जानकारी देते हुए कहां की भविष्य में सब कुछ तकनीकी संसाधन मुट्ठी में होगा। जिसे बेहतर से जानने की जरूरत है। प्राचार्य डॉ वकील यादव ने छात्रों को आज के प्रतियोगी दौर में तैयारी के लिए जानकारी दिए और कहा कि स्मार्टफोन के जरिए जिस क्षेत्र में जानकारी चाहेंगे सब कुछ इसमें मिलेगा, लेकिन इसका सदुपयोग करें। कार्यक्रम का संचालन जिलाजीत ने किया। इस अवसर पर संतोष कुमार, सुभाष यादव, मोहम्मद इरफान, जयप्रकाश, बांकेलाल, अनीता बिन्द, तारेख लता, अंकित, बादल, रामकृपाल, दिनेश चौहान, रामनवल गुड्डू मौजूद रहे।

बेसिक शिक्षा का हाल, जौनपुर में गुरु जी शिक्षा देने के बजाय करते हैं बिल बाबू का काम, बिल बाबू हैं नदारद

- ब्लाको में तैनात बिल बाबू नदारत फिर भी उठा रहे हैं महीने भर का वेतन
- विद्यालयों पर तैनात अनुदेशक विद्यालयों में शिक्षा देने के बजाय जिला कार्यालय पर अटैच

जन एक्सप्रेस । जौनपुर

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बेसिक शिक्षा व्यवस्था का हाल विभागीय अधिकारियों के चलते पूर्ण रुप से ध्वस्त हो गई है विद्यालय में तैनात गुरु जी शिक्षा देने अलावा बिल बाबू का काम भी काम करने में कोई गुरेज नहीं है लेकिन इसके लिए उन्हें विद्यालय न आना पड़े साथ में कुछ बाहरी आमदनी भी तो क्या बात है ।बताया जाता है कि जिले के 22 ब्लाकों में स्थित बेसिक शिक्षा के बीआरसी कार्यालय पर एक बिल बाबू की तैनाती है और उसी कार्यालय से वकायदा हर माह बेतन ले रहे हैं। फिर भी ब्लाक स्थित कार्यालय पर बिल बाबू कभी दिखे नहीं और काम न करके भी वेतन ले रहे हैं वहीं विभागीय सूत्रों की माने तो जिले में बिल बाबू की संख्या कम होने की वजह से दो से तीन ब्लाकों की जिम्मेदारी एक बिल बाबू पर दी गई है परंतु कोई भी बिल बाबू कभी किसी ब्लॉक में ना तो आया है और ना ही अधिकतर अध्यापक अपने बिल बाबू को जानते व पहचानते हैं फिर भी वकायदा महीने भर का वेतन उठा रहे हैं ।और उनका भी काम ब्लॉक का ही कोई शिक्षक करके प्रत्येक माह उनके पास बिल पहुंचा देता है इससे उस अध्यापक को विद्यालय में शिक्षण कार्य न करने अथवा विद्यालय आने से भी छुट्टी मिल जाती है और बिल बनाने के नाम पर कुछ सुविधा शुल्क भी मिल जाता है। वहीं बेसिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जिले के विभिन्न विद्यालयों में अनुदेशकों की तैनाती भी की गई है और उन्हीं तैनाती स्थल के विद्यालयों से वकायदा हर महीने वेतन निकल रहे हैं फिर भी दर्जनों अनुदेशक तैनाती स्थल के विद्यालयो में शिक्षण कार्य करने के बजाय जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय का शोभा बढ़ा रहे हैं और विभाग के अधिकारी पता नहीं किस शासनादेश के मुताबिक उन्हें जिला मुख्यालय से अटैच कर दिया है। जहां से वेतन उठा रहे हैं वहां काम नहीं कर रहे जहां शोभा बढ़ा रहे हैं वहां से कुछ नहीं ले रहे। तों फिर आखिरकार कैसे सुधरेगी बेसिक शिक्षा व्यवस्था और देश के नव निहालो का भविष्य कैसे सुधरेगी यह एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है साथ ही अधिकारी प्रदेश सरकार के दावे का भी हवा निकाल रहे हैं।

सांसद अशोक रावत का बिल्हौर विधानसभा में जगह-जगह हुआ जोरदार स्वागत

जन एक्सप्रेस । बिल्हौर ब्यूरो

बिल्हौर विधानसभा लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद प्रथम बार आगमन पर लोकप्रिय मिश्रिख सांसद अशोक रावत का जोरदार स्वागत एवं समर्थक मतदाताओं का सम्मान किया एवम् उनके ऊपर पुष्प बरसाए। बिल्हौर विधानसभा के पूरा स्थित धान्या गेस्ट हाउस में यह समारोह आयोजित किया गया था। जिलाध्यक्ष दिनेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि मतदाता देश का भाग्य विधाता है। वह जिस पार्टी को अपना मत और समर्थन देता है। उसे ही सरकार बनाने की जिम्मेदारी मिलती है।

उन्होंने कहा कि कहा की देश की समृद्धि के लिए जाति-पात क्षेत्र भाषा के भेद को मिटाना पड़ेगा। इस सोच को भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत में प्रसारित कर रही है। पार्टी हमेशा से मतदाताओं का सम्मान करती रही है और आगे भी करती रहेगी।

सांसद अशोक कुमार रावत ने सभी मतदाता बंधुओं एवं भगिनियों को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने संघर्ष एवं कड़े परिश्रम से विगत लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने हेतु अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही हर वह मतदाता जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट देकर देश को सशक्त बनाने की दिशा में अपना योगदान दिया है,वह अभिनंदन के पात्र है। यह कार्यकम आपको समर्पित है देश के करोड़ों मतदाताओं के आशीर्वाद से देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा-एनडीए की सरकार बनी है। सभी उपस्थित मतदाता बंधुओ का अभिनंदन करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस विजय की हार्दिक बधाई और एक बार पुनः मिश्रिख लोकसभा लोकप्रिय सांसद अशोक रावत की ऐतिहासिक जीत के लिए आप सभी को पुनः बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा भारत की जनता ने पिछले 10 वर्षों के हमारी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा जताया है और हमें तीसरी बार सुशासन जारी रखने का अवसर दिया है जनता ने देखा है कि गरीबों के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने जिस समर्पण- भाव से जनसेवा ही प्रथम सेवा इस मंत्र को कृतार्थ करते हुए, हमारी सरकार ने जो कार्य किया है

उसके कारण 10 साल में 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर निकले हैं। देश की आजादी के कालखंड में इतने कम समय में, इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का ये सफल प्रयास इस चुनाव में हमारे लिए आशीर्वाद का कारण बना है।

उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। यह किसी परिवार, जाति या वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है।

भाजपा कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाला सूत्र है

भारत के सांस्कृतिक मूल्य, हमारी निष्ठाएं और भारत के परम वैभव को प्राप्त करने का संकल्प; और साथ ही यह आत्मविश्वास कि अपने पुरुषार्थ से हम इन्हें प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि बिल्हौर विधानसभा की जनता ने उन्हें पुनः सेवा का अवसर प्रदान किया है और वो एक सेवक की भांति निरंतर जनता की सेवा में कार्यरत रहेंगे।

कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिले के मंत्री राजू दुबे ने मतदाताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम और षड़यत्र बिल्हौर की जनता द्वारा नकार दिया गया।

मीडिया प्रभारी अंशुल बाजपेई ने आए हुए सभी मतदाताओं एवम् कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि भारत माता हम सभी कार्यकर्ताओं की मां हैं और हम सभी भारत मां के स्वाभिमान के लिए कार्य करते हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व जिलाध्यक्ष सुशील कटियार, ब्लॉक प्रमुख बिल्हौर मनोरमा कठेरिया, ब्लॉक प्रमुख चौबेपुर राजेश शुक्ला,जिला पंचायत सदस्य अंकुश सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिवराजपुर कैलाश कटियार,राजेंद्र कटियार, संतोष बाजपेई, गीता गुप्ता, प्रीति सिंह, अमर नाथ राजपूत, एम पी सलोनिया, जय प्रकाश कटियार, अनिरुद्ध शुक्ला, तनु पाण्डेय, गुड्डू सिंह, रवि बाजपेई, अधिवक्ता विक्रम मिश्रा, शुशांक मिश्रा, रामू कटियार, सभासद अशोक चंद्र तिवारी, मन्नत त्रिपाठी, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष सुनील पाल, सानू राठौर, शुभ्रांशु कटियार सहित सभी मंडल अध्यक्ष मौजूद है। मंगल सिंह चंदेल, मोनू तोमर, पूरा प्रधान अभिजीत सिंह उर्फ केशव सहित एक सैकड़ा प्रधान मौजूद रहे। एलआईओ ए.क सिंह और प्रदीप कुमार, बिल्हौर कोतवाल केशव तिवारी भारी फोर्स के साथ स्वागत के दौरान मौजूद रहे।

बिल्हौर ब्लाक के कुदौरा ग्राम सभा के जानकी गेस्ट हाउस/त्रिपाठी छात्रावास के समीप भरा गंदा पानी

जन एक्सप्रेस । बिल्हौर ब्यूरो

बिल्हौर ब्लॉक की कुदौरा ग्राम सभा में जगह-जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं जब से प्रधानपति का निधन हो गया है तब से गांव सभा में विकास कार्यों और सफाई पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है ग्राम पंचायत सचिव केवल कागजों पर खाना पूरी कर चले जाते हैं और सफाई कर्मचारी मोहल्ले वालों को आज तक दिखाई नहीं पड़े हैं वहीं पर जानकी पैलेस के समीप त्रिपाठी छात्रावास के सामने एक तालाब नुमा पानी वर्षों से भरा हुआ है। आसपास मोहल्ले के सभी घरों का पानी उसी जगह पर इकट्ठा होता है जिससे यह चौराहानुमा पानी में डूबा रहता है कोई यहां से वाहन निकल भी नहीं पता है अब तो पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है नाम न छापने पर पर मोहल्ले वालों ने छात्रावास पर आरोप लगाए हैं जब से छात्रावास खुला है तभी से यहां पर पानी भरा रहता है वैसे लोगों के घरों का पानी थोड़ी दूर जाकर सूख जाता था और रास्ता कभी भी बंद नहीं हुआ था इस समय जानकी गेस्ट हाउस से लेकर छात्रावास वाला रोड पूरी तरह से बंद है। बिल्हौर खंड विकास अधिकारी दिनेश कुमार वर्मा ने बताया कि जल्द वहां पर पहुंचकर मौके पर निस्तारण कराया जाएगा और पानी का निकास बनाया जाएगा।

बिल्हौर ब्लाक के मुसाहेबपुर गांव में पंचायत सहायक की आईडी पर प्रधान व ऑपरेटर गिरफ्तार

जन एक्सप्रेस । बिल्हौर ब्यूरो। बिल्हौर तहसील क्षेत्र में सरकारी आईडी पर फॉड करने वाले तरह-तरह के प्रमाण पत्र निर्गत करते रहते हैं पिछले माह एसडीएम रश्मि लांबा ने फॉड करने वाले एक युवक को बिल्हौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप जन सुविधा केंद्र संचालक द्वारा अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर बनाकर आधार कार्ड करेक्शन कर रहा था उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर लैपटॉप प्रिंटर भी कब्जे में पुलिस ने ले लिया था और उसको जेल भेज दिया था इसी तरह से मुसाहेबपुर गांव में बीते कुछ दिनों से आयुष्मान कार्ड आईडी सहित कुछ आईडिया सरकारी पासवर्ड डालकर खोली जा रही थी और कई तरह के प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहे थे तीन दिन पहले खाद की दुकान पर काम करने वाले अर्पित कटियार गुरधरा गांव निवासी को ले जाकर रू 7000 प्रति महीने की तनख्वाह पर सौरभ राठौर खोया विक्रेता बुला ले गया था बीती रात पुलिस की छापेमारी में ग्राम प्रधान और ऑपरेटर को पुलिस थाने ले आई पूछताछ जारी है लेकिन सरगना किदवई नगर में लोकेशन बता रहा है और खोया दुकानदार सौरभ राठौर को पुलिस तलाश कर रही है। उक्त जानकारी पंचायत सहायक ने थाने में पहुंचकर बताया और एक व्यक्ति से फोन पर भी बात कर कहा कि सीधे आदमी को फंसा कर तुम निकल गए आकर यहां पूरी बात बताओ जब उसने पुलिस से बात कराने की कोशिश की तो उसे युवक ने फोन काट दिया।

जमीन किसी और के नाम, बेचने की कहकर डीलर से ले लिए ढाई करोड़

जन एक्सप्रेस । मैनपुरी

मैनपुरी में जमीन किसी और के नाम कर दी। दूसरी तरफ बेचने की कहकर डीलर से ढाई करोड़ ले लिए। पैसा हड़प गया। खुलासा हुआ तो पीड़ित थाने पहुंचा। मामले में केस दर्ज किया गया है।

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक जमीन के फर्जी कूटरचित दस्तावेज के आधार पर बड़ी नगरिया निवासी व्यक्ति से 2.60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। तय रकम लेने के बाद भी आरोपी ने जमीन का बैनामा नहीं किया। पीड़ित ने आरोपी और परिजन के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।

कोतवाली क्षेत्र के बड़ी नगरिया निवासी रामनरेश ने बताया कि उन्होंने अपने साथी केशव लाल निवासी नगला अनी, वेदराम ज्योती रोड और ज्ञान सिंह के साथ मिलकर रामऔतार निवासी बड़ी नगरिया, उनके भतीजे सुधीर, भाभी रेशमा देवी हाल निवासी कमला नगर आगरा, अमित कुमार निवासी गुरु अर्जुनदेव नगर लुधियाना से मैनपुरी में 40 लाख रुपये बीघा के हिसाब से जमीन तय की थी।

एग्रीमेंट दो वर्ष के लिए हुआ था। रामौतार और सुधीर, अमित को 50-50 लाख रुपये दिए थे। इसके बाद प्लाट की बिक्री शुरू कर दी थी। अमित और सुधीर की जमीन की पहले बिक्री कर तयशुदा 2.60 करोड़ रुपये में से 2.59 करोड़ 97 हजार रुपये दे दिए थे। शेष रुपये लेकर जब अमित और सुधीर से जब बाकी बची 4300 वर्गफुट जगह बैनामा करने के लिए कहा तो मना कर दिया।

रामौतार से कहा तो वह भी टाल मटोल करने लगे। संदेह होने पर रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचकर जानकारी की तो पता चला कि रामौतार ने अपने हिस्से की जमीन को 8 दिसंबर 2022 को तीनों पुत्र व पत्नी के नाम दान पत्र से बैनामा कर दी है। एक सोची समझी साजिश के तहत रामौतार, भतीजे सुधीर, अमित, भाभी रेशमा, पत्नी मुन्नी देवी, पुत्र सुमित, सुबोध और आलोक ने कूटरचित दस्तावेज के आधार पर धोखाधड़ी की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कलह से ऊबकर मायके रहने लगी महिला

जन एक्सप्रेस । मैनपुरी

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस लाइन स्थित परिवार परामर्श केंद्र में शनिवार को दंपती के विवादों की सुनवाई हुई। 40 दंपती के विवादों को सुना गया। एक मामले में दंपती को आमने सामने बिठाकर उनके बीच समझौता कराया गया। समझौते के बाद दंपती को केंद्र से ही विदा कर दिया गया।

नगला किसान अवंतीबाई नगर थाना मोहम्मदाबाद जिला फर्रुखाबाद की रहने वाली अंजली राजपूत पुत्री अमर सिंह की शादी अभय कुमार पुत्र देवेंद्र कुमार निवासी राजा का बाग थाना कोतवाली मैनपुरी के साथ 12 जुलाई 2015 को हुई थी। शादी के बाद दंपती के बीच विवाद शुरू हो गया। तीन महीने पहले हुए विवाद के बाद अंजली मायके आ गई। उसने एसपी से शिकायत की। एसपी ने समझौता कराने के लिए शिकायत को परिवार परामर्श केंद्र में भेज दिया।

परिवार परामर्श केंद्र से भेजे गए नोटिस के बाद शनिवार को उनके मामले की सुनवाई हुई। दंपती को आमने-सामने बिठाकर समझाया गया। दोनों आपसी मतभेद भुलाकर साथ रहने को राजी हो गए। समझौता होने पर दोनों पक्षों की सहमति से केंद्र से विदा की गई। प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र हेमलता, रामकिशन यादव, मुजम्मिल मिर्जा, मंजूषा चौहान, आराधना गुप्ता, मनोरमा सिंह, ममता चौहान, मनोरमा दास, कल्याण सिंह, कुसुम चाहर मौजूद रहे।

पहले खाईं दूर रहने की कसमें, अदालत में समझौते के बाद खुशी से घर लौटे दंपति

जन एक्सप्रेस । बुलंदशहर

पारिवारिक झगड़े के बाद अलग रहने की कसम खाने वाले दंपती समझौते के बाद खुशी-खुशी घर लौट गए। कई साल से इन दंपती का कोर्ट में वाद चल रहा था।

शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के बाद दंपती अपने-अपने परिवार के साथ काफी खुश नजर आए। इसके अलावा बिजली, परिवहन समेत अन्य विभागों के लंबित वादों का भी निपटारा किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शमशाद अली ने बताया कि कुल 86 हजार वादों का निस्तारण हुआ है।

दो साल से चल रहा था वाद

ककोड़ निवासी मोहिनी ने बताया कि उसने अपने पति श्याम सुंदर के खिलाफ भरण पोषण का वाद दायर किया हुआ था। पिछले करीब दो साल से वाद चल रहा था। अब वार्ता करने के बाद तय किया गया कि वह वाद वापस लेंगे और एक-साथ रहेंगे। जिसके चलते शनिवार को उन्होंने वाद को वापस लिया और खुशी-खुशी एकसाथ घर चले गए।

परिवार ने समझाया तो जा रही हूं पति के साथ

जहांगीराबाद निवासी सोनम ने बताया कि करीब छह माह पहले उसने अपने पति प्रमोद के खिलाफ भरण पोषण का वाद दायर किया था, लेकिन परिजनों के समझाने के बाद अब उन्होंने वाद वापस ले लिया है। उन्होंने बताया कि किसी बात को लेकर पति और उनमें विवाद चल रहा था। फिर ऐसा लगा कि दोनों साथ नहीं रह पाएंगे। परिवार के लोगों ने समझाया तो दोनों की सहमति से अब साथ रहेंगे।

अब पत्नी के साथ ही रहूंगा

नगर निवासी किरनपाल ने बताया कि उसकी पत्नी मधु से किसी बात को लेकर विवाद रहने लगा। बाद में लगा कि अब दोनों साथ नहीं रह पाएंगे। मधु ने करीब एक साल पहले उसके खिलाफ भरण पोषण का वाद दायर किया था। जिस पर कोर्ट में तारीख लग रही थी। दो दिन पूर्व दोनों पक्षों में सहमति बनने के बाद इस वाद को वापस ले लिया गया है। साथ ही मधु भी उसके साथ ही रहने के लिए तैयार है।

ससुराल में रहने को था विवाद, अब पति के साथ

सिकंदराबाद निवासी आरती ने बताया कि उनका अपने पति मोहित से ससुराल में रहने और अन्य कई मामलों को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद काफी बढ़ गया। रोज लड़ाई होने लगी। फिर दूर ही रहने का फैसला किया। सवा साल से कोर्ट में केस चल रहा था। अब हम और पति खुशी से साथ रहेंगे।

टेंपो की टक्कर से बाइक सवार की मौत

जन एक्सप्रेस । मैनपुरी

मैनपुरी में टेंपो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने चालक को घेर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस से भी लोगों की नोकझोंक हुई।

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में युवक को शुक्रवार की देर शाम किशोरपुर के पास टेंपो ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस से लोगों की नोकझोंक भी हुई। समझा बुझाकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे में युवक की मौत के बाद घर में चीख पुकार मची है।

एलाऊ थाना क्षेत्र के गांव भांवत निवासी गगन कश्यप (22) शुक्रवार की देर शाम बाइक से मैनपुरी की ओर जा रहा था। बाइक जब थना क्षेत्र में किशोरपुर पेट्रोल पंप के पास पहुंची। तभी मार्ग से गुजर रहे एक टेंपो चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में गगन की मौत की खबर जैसे ही परिजन को लगी वह मौके पर पहुंच गए।

आक्रोशित लोगों ने टक्कर मारने वाले टेंपो को घेर लिया। सूचना पर पुलिस वहां पहुंच गई। लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस से नोकझोंक भी हुई। लेकिन बाद में पुलिस के समझाने पर लोग शांत हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय स्थित मोर्चरी भेजा। शनिवार को पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने शव परिजन को अंतिम के लिए परिजन के सुपुर्द कर दिया।

फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव

जन एक्सप्रेस । मैनपुरी

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में विवाहिता की शुक्रवार की रात संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। जानकारी होने के बाद घर में अफरातफरी मच गई। मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालीजन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। पुलिस ने मौत का सही कारण जानने के लिए शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराया है।

औंछा क्षेत्र के गांव नगला मोती निवासी देवेंद्र सिंह की पत्नी प्रियंका (27) का शव शुक्रवार की रात घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला। जानकारी होने के बाद घर में चीख पुकार मच गई। घर से चीख पुकार की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। इस बीच सूचना पर थाना पुलिस ने भी घटनास्थल पहुंचकर मृतका के परिजन से जानकारी जुटाई। ससुरालीजन जहां खुदकुशी करने की बात कह रहे थे। वहीं किसी वजह की जानकारी से इन्कार कर रहे थे। कुछ देर बाद मायके पक्ष के लोग भी पहुंचे गए। प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मौत का सही कारण जानने के लिए पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

स्थानीय पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। इसके बाद पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी।

मायकेवाले बोले- ससुरालीजन प्रताड़ित करते थे, पुलिस कर रही जांच

पीएम श्री स्कूलों को मिला 1.30 करोड़ रुपये का बजट

जन एक्सप्रेस । बुलंदशहर। पीएम श्री योजना में शामिल 17 परिषदीय स्कूलों को 1.30 करोड़ रुपये का बजट मिला है। बताया कि इन स्कूलों को 2.60 करोड़ की राशि मिलेगी। इससे पहले 65 लाख रुपये का बजट मिला था। जबकि अब 65 लाख रुपये भी जल्द मिलने की संभावना है।बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. लक्ष्मीकांत पांडेय ने बताया कि योजना में जिले के 18 परिषदीय स्कूल व एक माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय पला कसेर स्कूल का चयन किया गया। योजना शुरू होने से पूर्व शासन स्तर से जिले के स्कूलों की सूची मांगी गई थी। इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक से एक-एक स्कूल का चयन किया साथ ही इनमें होने वाले कार्यों के लिए 2.60 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

बादलों के बीच से निकली धूप, तापमान एक डिग्री बढ़ा

जन एक्सप्रेस । बुलंदशहर

जिले में मानसून के बादल लगातार छाए हुए हैं। वहीं, जगह-जगह बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। ऐसे मौसम में धूप-छांव और उमस का असर बरकरार है। शनिवार को तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी हो गई। मौसम वैज्ञानिक बारिश की संभावना जता रहे हैं। जुलाई माह के शुरू होने से पहले ही जिले में मानसून की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। जिले में कहीं अधिक तो कहीं कम बारिश का सिलसिला जारी है। समय-समय पर धूप निकलने से उमस का अहसास बरकरार है। लगातार बारिश होने के कारण तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। लेकिन पिछले सोमवार को तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं, शुक्रवार को फिर 33 पर पहुंच गया। जबकि शनिवार को एक डिग्री बढ़कर 34 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया। आद्रता 77 और हवा की गति पांच किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम रही।

बिसाइच में मकान का छज्जा व छत गिरी, किसान की मौत

गुलावठी के गांव बिसाइच में छजली व छत गिरने के बाद किसान की मौत के बाद घर के बाहर गमगीन महिलाएं।

जन एक्सप्रेस । बुलंदशहर

गुलावठी। थाना क्षेत्र के गांव बिसाइच में शनिवार को एक मकान का छज्जा व छत गिरने किसान की मौत हो गई। जबकि मृतक के पुत्र व पुत्री सहित पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक महेश तोमर गांव में खेतीबाड़ी के अलावा दूध की मिनी डेयरी भी चलाते थे। गांव बिसाइच निवासी महेश तोमर के दो मकान हैं। एक मकान में उनके पुत्र रहते हैं और दूसरे मकान में वह स्वयं रहते थे। मकान में उनका छोटा घेर भी बना हुआ है, घेर से दूध की मिनी डेयरी चलाते थे। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह गांव में हल्की बारिश हो रही थी। गांव निवासी धर्मवीर तथा अर्पित दूध देने के लिए महेश तोमर की डेयरी पर गए थे। इसी दौरान अचानक दो कमरों का छज्जा गिर गया। छज्जा गिरने से महेश तोमर उसमें दब गए। जिसके बाद महेश के बेटे कुलदीप, संदीप व बेटी काजल के साथ दो अन्य ग्रामीण धर्मवीर व अर्पित उसे मलबे से निकालने में जुट गए। इसी दौरान कमरों की छत भी गिर गई। जिसके चलते महेश को निकालने में लगे पांचों लोग भी मलबे में दब गए। मौके पर पहुंचे अन्य ग्रामीणों ने जब तक महेश को निकाला, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। महेश तोमर की छज्जा व छत गिरने से मौत के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। सूचना पर नायब तहसीलदार, पुलिस भी पहुंची। नायब तहसीलदार ने परिजनों को हर संभव आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार शाम को महेश तोमर का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया।

छत गिरते ही दौड़ पड़े लोग

छज्जा गिरने के कुछ देर बाद ही मकान की छत गिर गई, जिसकी आवाज काफी तेज हुई। गांव के लोग घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े और उन्होंने मलबे से घायलों को निकाला। लहूलुहान हालात में ग्रामीण उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां उनका उपचार चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि घटनास्थल को देखकर ऐसा लग रहा था कि हालात काफी खराब होंगे, लेकिन भगवान की कृपा से सभी सकुशल निकल आए।

छत हो गई थी कमजोर

ग्रामीणों ने बताया कि महेश तोमर के घेर में ही दो कमरों का मकान बना हुआ है। उसकी छत गाटर पटियों की थी तथा कमरों के बाहरी हिस्से में छजली निकली हुई थी। कमरों की छत पक्की न होने के कारण कमजोर हो गई थी। छजली गिरने के बाद कमरों में लगा एक गाटर टूट गया तथा उसके बाद छत भी गिर गई। बताया जा रहा है कि मृतक के पास केवल दो बीघा जमीन है।

दो दिन से ट्रांसफॉर्मर खराब, आपूर्ति नहीं मिलने के विरोध में सड़क पर लगाया जाम

जन एक्सप्रेस । बुलंदशहर

खुर्जा। अंबेडकर कॉलोनी में पिछले दो दिन से ट्रांसफार्मर खराब है, इस कारण आपूर्ति ठप पड़ी है। इसी के विरोध में शनिवार सुबह कॉलोनी के लोग तेलिया घाट पर प्रदर्शन करने पहुंच गए। कोई सुनवाई नहीं होने पर गुस्साए लोगों ने खुर्जा- सिकंदराबाद मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ और जाम खोला गया।

कॉलोनी निवासी रविंद्र ने बताया कि अंबेडकर कॉलोनी में करीब 350 घर हैं, जहां पर केवल 200 केवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर लगा था। ओवरलोड होने के कारण अक्सर ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। इस संबंध में पूर्व में भी ऊर्जा निगम के अधिकारियों से ट्रांसफार्मर बदलने के लिए कहा गया, मगर कोई सुनवाई नहीं हो सकी।

सोमवार रात को कॉलोनी में फिर से ट्रांसफार्मर खराब हो गया, इसको बदलने में पूरे एक दिन का समय लग गया है। गर्मी में लोगों को बिन बिजली के रहना पड़ा। दो दिन पहले बृहस्पतिवार को फिर से वह ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया, मगर उसको बदला नहीं गया। दो दिन तक लोग उमस भरी गर्मी में बिन बिजली के रह रहे हैं।

कॉलोनी के कई लोगों ने मोबाइल नंबर से ऊर्जा निगम के कर्मचारी व अधिकारियों से संपर्क किया। मगर न कोई जानकारी दी और न कोई स्पष्ट जवाब दिया।

बिना बिजली के पानी की किल्लत भी बनी हुई है। ऐसे में स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं और नौकरीपेशा लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार युवती की मौत, युवक घायल

जन एक्सप्रेस । बुलंदशहर। सिकंदराबाद। नगर हाईवे पर ईदगाह के सामने रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार नगर के टुक्कीमल की बगीची निवासी निकिता 22वर्ष की मौत हो गई। वहीं मोहल्ला सराय झाझन निवासी गोविंद गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद चालक बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। निकिता जेवर रोड स्थित अस्पताल में नौकरी करती थी। चार बहनों में वह दूसरे नंबर पर थी। उसके पिता औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्टरी में नौकरी करते हैं। शनिवार की सुबह करीब 10:30 बजे किसी कार्य से नगर के मोहल्ला सराय झाझन निवासी गोविंद 24वर्ष के साथ बाइक से कहीं जा रही थी। नगर हाईवे पर ईदगाह के सामने गाजियाबाद की ओर से आ रही रोडवेज बस ने उन्हें टक्कर मार दी। जिससे वह दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूचना
मेरी हाई स्कूल की अंकपत्र वर्ष 1995 अनुक्रमांक 17613 व सनद वास्तव मे कही खो गए हैं।
-विद्या प्रकाश
पुत्र स्व. श्री तुला राम
नि.- 40 श्रीजी नगर कलाल खेरिया फतेहाबाद रोड, ताजगंज, आगरा-282006 मो. 9837065508

जम्मू-कश्मीर के एलजी की शक्तियां बढ़ीं, दिल्ली की तरह ट्रांसफर-पोस्टिंग में मंजूरी जरूरी, महबूबा मुफ्ती बोलीं

कश्मीर में हमारी जिंदगी नर्क बना दी

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली की तरह अब जम्मू-कश्मीर में राज्य सरकार एलजी की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत बदले हुए नियमों को नोटिफाई किया है, जिसमें एलजी को ज्यादा ताकत देने वाली धाराएं जोड़ी गई हैं। उपराज्यपाल के पास अब पुलिस, कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े मामलों में ज्यादा अधिकार होंगे। न्यूज एजेंसी ने बाद में सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि केंद्र ने सिर्फ व्यापार नियमों के लेनदेन में संशोधन किया गया है। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में बाकी चीजों का जिक्र पहले से ही था। हालांकि एजेंसी ने गृह मंत्रालय का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें पहले के प्रावधान और 12 जुलाई को किए गए बदलावों के बीच स्पष्ट अंतर की जानकारी नहीं दी गई है।

राज्य में सरकार कोई रहे, ताकत एलजी के पास

जम्मू-कश्मीर में इसी साल सितंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ताजा फैसले के बाद राज्य में सरकार किसी भी पार्टी की बने, लेकिन अहम फैसले लेने की शक्तियां एलजी के पास ही रहेंगी।

5 अगस्त, 2019 को पारित हुआ जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम

5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम (2019) संसद में पारित किया गया था। इसमें जम्मू और कश्मीर को दो भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहला- जम्मू-कश्मीर और दूसरा- लद्दाख। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 370 को भी निरस्त कर दिया, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशिष्ट दर्जा दिया था। जम्मू-कश्मीर जून 2018 से केंद्र सरकार के शासन के अधीन है। 28 अगस्त, 2019 को गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में प्रशासन के नियमों को नोटिफाई किया था, जिसमें उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के कामकाज की स्पष्ट व्याख्या की गई।

एलजी की शक्तियां बढ़ने पर क्या बोले कश्मीरी नेता...

हर चीज के लिए एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी: उमर अब्दुल्ला

एक और संकेत है कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव नजदीक हैं। यही कारण है कि जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण, अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनावों के लिए एक शर्त है। जम्मू-कश्मीर के लोग शक्तिहीन, रबर स्टाम्प सीएम से बेहतर के हकदार हैं, जिन्हें अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए भी एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी।

कश्मीर में हमारी जिंदगी नर्क बना दी: महबूबा मुफ्ती

इस आदेश ने जम्मू-कश्मीर की विधानसभा से सब कुछ छीन लिया है। वे इसे नगरपालिका में बदलना चाहते हैं। कल जम्मू-कश्मीर में कोई सरकार बनती है, तो उसके पास कोई अधिकार नहीं होगा। अगर आपको यहां के लोगों पर भरोसा नहीं है, तो आपने लोगों को यहां क्यों रखा है? आप लोगों ने इस कश्मीर में हमारी जिंदगी नर्क बना दी है।

केंद्र जानता है यहां गैर भाजपा सरकार आएगी: इल्तिजा मुफ्ती

ऐसे समय में जब भारत सरकार के जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने के बारे में काफी अटकलें लगाई जा रही हैं, गृह मंत्रालय का यह नया फरमान, एक अनिर्वाचित उपराज्यपाल की पहले से ही बेलगाम शक्तियों को और ज्यादा बढ़ा रहा है। केंद्र सरकार अच्छी तरह जानती है कि जब जम्मू-कश्मीर में चुनाव होंगे तो एक गैर-भाजपा सरकार चुनी जाएगी।

कश्मीर के राजनेता एकजुट हों: अल्ताफ बुखारी

इस नए फैसले का उद्देश्य राज्य को खोखला बनाना है, जिसमें निर्वाचित सरकार के लिए कोई शक्ति नहीं बचेगी। जम्मू-कश्मीर के लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं। इसलिए जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों से मतभेदों को दूर करने और केंद्र के कदम के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं।

संशोधित नियमों में दो अहम पॉइंट जोड़े गए...

- **42ए:** पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जुड़े किसी भी प्रस्ताव को तब तक मंजूर या नामंजूर नहीं किया जा सकता, जब तक मुख्य सचिव के जरिए उसे उपराज्यपाल के सामने नहीं रखा जाए। अभी इनसे जुड़े मामलों में वित्त विभाग की सहमति लेना जरूरी है।
- **42बी:** किसी प्रकरण में केस चलाने की मंजूरी देने या ना देने और अपील अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विधि विभाग मुख्य सचिव के जरिए उपराज्यपाल के सामने रखा जाना जरूरी होगा।

'महाराष्ट्र को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे', प्रधानमंत्री मोदी बोले

समृद्ध है राज्य का भविष्य

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। मुंबई

लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मुंबई पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी 29,400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली अलग-अलग परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित किया।

एनडीए सरकार ही स्थिरता ला सकती है- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा,'लोग जानते हैं कि एनडीए सरकार ही स्थिरता और स्थायित्व प्रदान कर सकती है। तीसरी बार शपथ लेने के बाद मैंने कहा था कि तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार तीन गुना तेजी के साथ काम करेगी।'

महाराष्ट्र को आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने आगे कहा, 'महाराष्ट्र के पास गौरवशाली इतिहास है। महाराष्ट्र के पास सशक्त वर्तमान है और महाराष्ट्र के पास समृद्ध भविष्य का सपना है। महाराष्ट्र वह राज्य है, जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। महाराष्ट्र के पास उद्योग, कृषि और आर्थिक क्षेत्रों की ताकत है। इसी ताकत ने मुंबई को देश की आर्थिकी का केंद्र बनाया है। इसी ताकत से महाराष्ट्र को दुनिया का सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना है।'

तीन वर्षों में आठ करोड़ नौकरियां उत्पन्न कीं: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रोजगार को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार, बीते तीन वर्षों में भारत में आठ करोड़ नई नौकरियां उत्पन्न की गईं। यह आंकड़ा उन लोगों के लिए कड़ा जवाब है, जो रोजगार को लेकर मनगढ़ंत कहानियां बना रहे थे। भारत को स्किल डेवलपमेंट और रोजगार की आवश्यकता है और हमारी सरकारी इस दिशा में सही ढंग से काम कर रही है।' पीएम मोदी ने कहा,'मुंबई में जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है, उससे महानगर की आसपास के क्षेत्रों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। दुनियाभर के निवेशकों ने तीसरे कार्यकाल के लिए हमारी सरकार का स्वागत किया है।'

नाइजीरिया: स्कूल का दो मंजिला भवन ढहने से 16 छात्रों समेत 21 लोगों की मौत, 30 की हालत गंभीर

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली

नाइजीरिया में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां, एक विद्यालय का दो मंजिला भवन ढह गया। इस हादसे में 16 छात्रों समेत 21 लोगों की मौत हो गई। बताया गया है कि हादसे के समय स्कूल में परीक्षा चल रही थी।

प्लैटो राज्य के जोस शहर में हुआ हादसा

नाइजीरिया की राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (एनईएमए) का कहना है कि यह हादसा प्लैटो राज्य के जोस शहर में हुआ। इनईएमए ने आगे बताया कि हादसे में 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्लैटो राज्य की सरकार का कहना है कि हादसे के बाद मौके पर करीब 120 लोग फंस गए थे। राज्यपाल कालेब मनश्शे मुतफवांग ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सेंट एकेडेमिक स्कूल के छात्रों और कर्मचारियों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।

जर्जर हो चुका था विद्यालय का भवन

राज्य सरकार का कहना है कि हादसे से बचा जा सकता था। दावा किया गया है कि विद्यालय का भवन जर्जर हो चुका था लेकिन, इसकी मरम्मत नहीं की गई। राज्यपाल ने बताया कि अस्पताल में भर्ती किए गए लोगों के परिवारों से दस्तावेज और इलाज का खर्च ना मांगा जाए। इसके अलावा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य में जर्जर हो चुके विद्यालयों को जल्द से जल्द बंद किया जाए।

नाइजीरिया में इससे पहले भी हो चुके हैं हादसे

इससे पहले भी नाइजीरिया में इमारतें ढहने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ष 2021 में नाइजीरिया के लागोस में एक इमारत ढह गई थी। इस हादसे में 45 लोगों की मौत हो गई थी। इसके एक वर्ष बाद लागोस में ही तीन मंजिला इमारत ढह गई थी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी।

बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में कांग्रेस पर बिफरे शिवराज, बोले, ये झूठ बोलने की मशीन

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। जयपुर

राजधानी जयपुर में शनिवार आयोजित बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनावों में विदेशी ताकतों की दखल रही। यह सच है कि हमारे विरोधियों में विदेशी ताकतें भी शामिल हैं। जो चाहते हैं कि किसी भी तरह से देश में बीजेपी की सरकार न रहे। उन्होंने कहा कि राजस्थान भी बदल रहा है लेकिन ये बात कांग्रेस को रास नहीं आ रही है अभी 99 की फेर की बात कई मित्रों ने की है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता लेकिन राहुल बाबा आपको चिंदी मिल गई तो आप बजाज बन गए। केंद्रीय कृषि

मंत्री ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने की मशीन हो गई है। उन्होंने कहा- राहुल पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं हिन्दू हिंसक है! ए... बालक बुद्धि हिन्दुत्व को आप क्या जानों! एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति हिन्दुत्व है। सत्य एक है विद्वान उसे अलग-अलग तरीके से कहते हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु हिन्दुत्व है। जियो और जीने दो हिन्दुत्व है।

भजनलाल बोले, अब गैंगस्टर राजस्थान में नहीं आएगा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपके बीच में से ही आया हूं। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में जब सीएम के लिए मेरा नाम बोला गया तो एक बार मुझे भी समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ। उन्होंने कहा कि आप सभी कार्यकर्ताओं पर संगठन की नजर है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस में सर्वोच्च सम्मान मिला है। यह भारत के विश्वगुरु बनने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार में यहां गैंगस्टर आते थे, गोली चलाकर चले जाते थे। अब या तो गैंगस्टर राजस्थान में आएगा नहीं और आएगा तो बचकर जाएगा नहीं।

प्रभारी बोले, विदेशी ताकतों के कारण कम सीटें मिलीं

प्रदेश प्रभारी डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे ने लोकसभा चुनावों में राजस्थान के कमजोर प्रदर्शन पर कहा कि इन चुनाव में विदेशी ताकतों के कारण भी हमें कम सीटें मिली। क्योंकि विदेशों में बैठे कुछ लोग, जिनके हित मोदी सरकार की नीतियों के चलते प्रभावित हो रहे थे। वह चाहते थे कि देश में पुरानी सरकार बने और यही वजह है कि विदेशी ताकतों का भी इन चुनाव परिणाम में असर देखने को मिला।

सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया: कुमारस्वामी

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। कर्नाटक

कर्नाटक में एमयूडीए घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर विपक्ष लगातार निशाना साध रही है। इस कड़ी में अब केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। दरअसल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर आरोप है कि एमयूडीए की तरफ से भूमि के कथित रूप से धोखाधड़ी से वंचितों को भूखंड आवंटित किए गए, जिसमें उनकी पत्नी पार्वती को दिए गए भूखंड शामिल हैं।

राज्य सरकार के कई घोटाले देश में बने चर्चा का विषय

वहीं मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण

घोटाले के सीधे मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े होने का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने राज्य के किसी भी सम्मानित वकील से अनुरोध किया कि वे इस मामले को राज्यपाल के समक्ष ले जाएं और अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करें और इसे अदालत में ले जाएं। जेडी(एस) नेता ने कहा, एक के बाद एक इस राज्य सरकार के कई घोटाले पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए हैं। राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से कर्नाटक के बाहर इस प्रशासन को लेकर नकारात्मक भावना है, और यह दुखद है।

पिछड़ों के नाम पर खुद बचाने की कोशिश कर रहे हैं

इस दौरान उन्होंने सिद्धारमैया से कहा, जनता ने आपको सत्ता दी है, बदनामी मत लीजिए और जनता को सम्मानजनक प्रशासन दीजिए। आप पिछड़े वर्गों के नाम पर सुरक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं। एमयूडीए घोटाले के सिलसिले में अपने खिलाफ आरोपों से इनकार करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को दावा किया था कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है क्योंकि वह पिछड़े वर्ग के समुदाय से हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। दरअसल आरोप है कि सिद्धारमैया की पत्नी को मैसूर के एक अपमार्केट इलाके में मुआवजा देने वाली जगहें आवंटित की गईं, जिनकी संपत्ति का मूल्य एमयूडीए की तरफ से अधिग्रहित किया गया जो उनकी जमीन के स्थान की तुलना में अधिक था।

निगम अधिकारी चंद्रशेखरन की मौत पर पूछे सवाल

वहीं कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड से जुड़े अवैध धन हस्तांतरण घोटाले के बारे में, केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सिद्धारमैया से पूछा, क्या निगम अधिकारी चंद्रशेखरन की मौत (आत्महत्या - जिससे घोटाला सामने आया) को आत्महत्या माना जाएगा या यह आपकी सरकार की प्रणाली की तरफ की गई हत्या थी? यदि प्रशासन पर आपकी मजबूत पकड़ होती, तो वह आत्महत्या नहीं करते?

वेणुगोपाल ने मोदी सरकार पर फोन की जासूसी करने का लगाया आरोप, कहा, निजता का हो रहा उल्लंघन

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली

कांग्रेस महासचिव ने भाजपा पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से उनके फोन की जासूसी करने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए एक स्क्रीनशॉट साझा किया जिसमें उनके मोबाइल फोन कंपनी की ओर से आया अलर्ट है। अलर्ट में बताया गया है कि उनके फोन को स्पाईवेयर हमले का निशाना बनाया जा रहा है, कोई दूर से आपके फोन को हैक करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम भाजपा के इस असंवैधानिक कृत्य का विरोध करेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। जिसमें उन्होंने सीधे पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पीएम मोदी जी मेरे फोन पर भी अपना पसंदीदा दुर्भावनापूर्ण स्पाइवेयर भेजने के लिए धन्यवाद। उन्होंने लिखा कि उनकी मोबइल की कंपनी ने उन्हें इस कृत्य की सूचना दे दी है। उन्होंने लिखा कि यह स्पष्ट है कि मोदी सरकार आपराधिक और असंवैधानिक तरीके से काम कर रही है। राजनीतिक विरोधियों पर हमला कर रही है और इस तरह की हरकतें कर उनकी निजता का उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि भाजपा उनके मोबाइल फोन की जासूसी कराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों का संदेश यह था कि लोग संविधान और भाजपा के फासीवादी एजेंडे पर किसी भी हमले को अब स्वीकार नहीं कर रहे। वेणुगोपाल ने कहा, ÷हम इस घोर असंवैधानिक कृत्य और हमारी निजता के उल्लंघन का पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने मोबाइल कंपनी से आए एक मैसेज का स्क्रीनशॉट साझा किया। इसमें बताया गया कि मोबाइल कंपनी ने उन्हें 30 अक्टूबर, 2023 को पहले एक सूचना भेजी थी, लेकिन यह कोई दोहराई गई सूचना नहीं थी और यह उन्हें सूचित करने के लिए थी कि उनके डिवाइस पर एक और हमला हुआ है। ÷मोबाइल कंपनी को पता चला कि वे एक भाड़े के स्पाइवेयर हमले का निशाना बन रहे हैं, जो उनके फोन आईडी से जुड़े मोबाइल फोन को दूर से ही हैक करने की कोशिश कर रहा है। संभवतः आपको विशेष रूप से इसलिए निशाना बना रहा है क्योंकि आप कौन हैं या आप क्या करते हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं: शाह

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सीमावर्ती गांवों के निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और ऐसे दूरदराज के क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों से पलायन रोकने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं जाए और गावों के साथ संपर्क भी बढाएं जाएं।

सेना के स्वास्थ्य केन्द्रों का लाभ ग्रामीणों को मिले

अमित शाह ने बैठक में आगे कहा कि सीमांत गांवों के आस-पास तैनात छक्कन्हा और सेना को सहकारिता के माध्यम से स्थानीय कृषि और

हस्तशिल्प उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देना चाहिए। सेना और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के स्वास्थ्य केन्द्रों और उनकी सुविधाओं का लाभ नजदीकी गांवों के निवासियों को नियमित रूप से मिले। वहीं वाइब्रेंट विलेजर्स में सौर ऊर्जा और पवनचक्की जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोतों के अधिकतम उपयोग पर जोर देने की आवश्यकता है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने वाइब्रेंट विलेजर्स प्रोग्राम के तहत सीमांत गावों के मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों की तरफ से किए जा रहे प्रयासों को जारी रखने का निर्देश दिया। बता दें कि इन सीमांत गांवों में अब तक छह हजार से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें लगभग चार हजार सेवा वितरण और जागरूकता शिविरों का आयोजन शामिल है। इन गांवों में रोजगार सृजन के लिए छह सौ से अधिक परियोजनाओं को भारत सरकार की तरफ से स्वीकृति दी जा चुकी है। गृह मंत्री ने इस बैठक के दौरान लंबित मुद्दों के निपटारे के लिए नियमित अंतराल पर उच्चतम स्तर पर समीक्षा पर विशेष जोर दिया।

देश के राजनीतिक माहौल में बदलाव की प्रतीक है कांग्रेस की जीत: जयराम

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली

देश में हाल ही में हुए उपचुनाव के नतीजे शनिवार को जारी हुए हैं। नतीजों में हिमाचल प्रदेश और भाजपा शासित उत्तराखंड में अपनी जीत की कांग्रेस ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सभी चालें बुरी तरफ विफल हुई हैं। यही नहीं अब देश में राजनीतिक माहौल बदलने लगा है। उपचुनाव के नतीजे ये स्पष्ट तौर पर दर्शा रहे हैं। बुधवार को पंजाब में 1, हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 2, पश्चिम बंगाल में 4, मध्य प्रदेश में 1, बिहार में 1 और तमिलनाडु में 1 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए। कांग्रेस ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश और भाजपा शासित उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनावों में अपनी

जीत की सराहना की। उत्तराखंड में पार्टी की जीत पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ÷मंगलौर को बसपा से छीना गया और भाजपा की गंदी चालों का सामना करना पड़ा। वहीं बद्रीनाथ में मौजूदा विधायक लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए थे। लेकिन उनके इस फैसले को लोगों ने पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने सही सजा दी है और कांग्रेस ने सीट पर कब्जा बरकरार रखा है।÷ उन्होंने नतीजों की सराहना करते हुए कहा, ÷दोनों तरह से नतीजे देश में बदलते राजनीतिक माहौल को दर्शाते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश उपचुनाव के नतीजों पर रमेश ने कहा कि भाजपा की सारी चालें बुरी तरह विफल हो गई हैं। उन्होंने कहा, ऑपरेशन लोटस के तहत निर्दलीयों को लुभाकर लाए गए दो विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। यह जीत कांग्रेस की महत्वपूर्ण वापसी और भाजपा के प्रति जनता की नाराजगी को स्पष्ट तरीके से दर्शाता है। कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा, ÷हमने हिमाचल में तीन में से दो उपचुनाव जीते हैं। अब 68 सदस्यों वाले सदन में पार्टी की ताकत फिर से 40 हो गई है। इससे हमारी सरकार को भी स्थिरता मिलेगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की तीन विधानसभा सीटें- देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू की पत्नी और कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश ठाकुर ने देहरा सीट पर भाजपा के होशियार सिंह को 9,399 मतों के अंतर से हराया। वहीं नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा ने भाजपा के केएल ठाकुर को 8,990 मतों से हराया। बता दें कि बावा पांच बार भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। जबकि भाजपा के आशीष शर्मा अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और कांग्रेस उम्मीदवार पुष्पेंद्र वर्मा से 1,571 मत अधिक हासिल करके हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने में सफल रहे। उधर भाजपा शासित उत्तराखंड में कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल की।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशकः अरुण कुमार त्रिपाठी द्वारा ए0वी0बी0 रेप्रोग्राफिक्स, ए-59, इंडस्ट्रियल एस्टेट, ताल कटोरा, लखनऊ से मुद्रित तथा अय्यूब कॉम्प्लेक्स, 82/68, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ पिन-226004, उ0प्र0 से प्रकाशित। संपादकः अरुण कुमार त्रिपाठी, (प्रबंध संपादक- मनोज तिवारी) (नेशनल हेडः कमलेश फाइटर) आर.एन.आई. पंजीयन संख्या : UPHIN/2009/30003, फोन नं.: 0522-4330955 मोबाइल नं. 8933805555, (नोटः सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ स्थित न्यायालय होगा।)